मौसम

शहर	अधिकतम	न्यूनतम
रांची	31.4	23.6
डालटनगंज	33.8	25.7
धनबाद	32.7	27.2

तापमान डिग्री सेल्सियस में.

शुभम संदेश

एक राज्य - एक अखबार

धनबाद, सोमवार 14 जुलाई 2025 ● श्रावण कृष्ण पक्ष 04, संवत 2082 ● रांची, धनबाद एवं पटना से प्रकाशित ● वर्ष : 3, अंक : 97 ● मूल्य ₹ 3, पृष्ठ संख्या : 12

ब्रीफ न्यूज

गडकरी में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद

बेंगलुरु। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बेलूर गोपालकृष्णा ने कहा है कि अगर पीएम मोदी 75 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पद छोड़ते हैं, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश के अगले पीएम के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं. विधायक का यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद नेताओं को खुद को राजनीतिक पद से अलग कर लेना चाहिए.

उर्वरकों की गुणवत्ता के लिए अभियान चलाएं

नयी दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में उर्वरकों की गुणवत्ता के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर एक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य नकली उर्वरकों की बिक्री को रोकना और किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना है. कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सही समय पर किफायती और गुणवत्ता वाले उर्वरक मिलना जरूरी है.

तेलुगू फिल्मों के दिग्गज अभिनेता का निधन

हैदराबाद। वरिष्ठ अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव (83) का रविवार सुबह निधन हो गया. वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और रविवार तड़के फिल्मनगर स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली. कोटा श्रीनिवास राव का जन्म 10 जुलाई, 1942 को कृष्णा जिले के कांकीपाडु में हुआ था. उन्होंने 1968 में रुक्मिणी से विवाह किया था. उनकी दो बेटियां और एक बेटा है. कोटा श्रीनिवास राव के पुत्र कोटा प्रसाद का 21 जून, 2010 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था.

खुद को आग लगाने वाली छात्रा गंभीर

भुवनेश्वर। ओडिशा के बालासोर में खुद को आग लगाने वाली छात्रा की हालत गंभीर है. एम्स भुवनेश्वर के अधिकारियों ने उसकी स्थिति को लेकर जानकारी दी है. कहा कि अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं और पीड़िता की हालत में सुधार नहीं दिख रहा. इसी बीच सीएम मोहन चरण माझी दिल्ली से तीन दिवसीय दौरे के बाद सीधे एम्स पहुंचे. वहां उन्होंने पीड़िता की स्थिति का जायजा लिया. और कहा कि छात्रा को दिल्ली एम्स के प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज दिया जा रहा है.

अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के खुडवानी क्षेत्र में श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा काफिले के दौरान तीन बसों की आपस में टक्कर हो गई. इस हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हो गए. यह हादसा टैचलू क्रॉसिंग के पास उस समय हुआ जब बालटाल की ओर जा रहे यात्रा काफिले की तीन बसें आपस में टकरा गईं. हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर ने बताया श्रद्धालुओं को उपचार देने के बाद रेफर कर दिया गया है.

बिहार में गड़बड़झाला: चुनाव आयोग के 'एसआईआर' में हुए चौंकाने वाले खुलासे

बिहार वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के घुसपैठिए भी शामिल!

शुभम संदेश डेस्क

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए हैं. आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, बिहार में एसआईआर के दौरान घर-घर जाकर किए गए दौरे में बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं.

30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी अंतिम सूची : चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त 2025 के बाद, उचित जांच के बाद उनके नाम 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. उम्मीद है कि 30 सितंबर के बाद आयोग इस संख्या के आंकड़े भी उजागर करे. बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के तहत मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है.

80% वोटर्स ने दी जानकारी : अब तक 80 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने अपने बारे में आवश्यक जानकारी यानी नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, वोटर पहचान पत्र नंबर सहित दर्ज कर फॉर्म जमा कर दिए हैं. हालांकि आयोग ने इस काम के लिए अंतिम तिथि 25 जुलाई तय की हुई है. लेकिन उम्मीद है कि तय समय सीमा से पहले ही ये काम पूरा हो जाएगा.

नाम नहीं आया तो क्या करें? : जिन लोगों के नाम एक अगस्त को जारी होने वाली मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची यानी मसौदा सूची में नहीं होंगे तो वो क्रमशः मतदान रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर प्रमाण पत्रों के साथ दावा कर सकते हैं. वोटर्स की फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को प्रकाशित होगी.

चुनाव आयोग के दावों को तेजस्वी ने किया खारिज — कहा-फर्जी अपलोडिंग हो रही है

पटना । चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान 80 प्रतिशत फॉर्म जमा होने का दावा किया है. अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने चुनाव आयोग के दावों को खारिज कर दिया है. कहा कि चुनाव आयोग का 80 फीसदी फॉर्म जमा होने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है. उन्होंने कहा कि कई जगह फर्जी तरीके से फॉर्म अपलोड किए जा रहे हैं. हमलोगों ने इस पर सवाल भी उठाया लेकिन चुनाव आयोग इस गंभीर मामले पर चुप है.

आंकड़े मात्र अपलोडिंग का दर्शा रहे हैं : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वच्छ और वैध तरीके से भरे गए हैं? जमीन से लगातार हमें सूचना मिल रही है कि बिना मतदाता के जानकारी और बिना सहमति के बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र को अपलोड किया जा रहा है. आंकड़े मात्र अपलोडिंग का दर्शा रहे हैं जबकि आयोग ने प्रमाणिकता, सहमति और वैद्यता की कोई गारंटी नहीं दी है.

केवल उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है : पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है. चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि कितने प्रपत्र बिना दस्तावेज या बिना मतदाता के प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड हुए हैं? चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया कि बीएलओ को वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी गई या केवल उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है. कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलओ को सूचित नहीं किया गया है और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया है. बीएलओ और ईआरओ पर 50%+ अपलोडिंग का लक्ष्य थोपे जाने के कई रिपोर्ट आ चुके हैं. इसकी जांच होनी चाहिए.

एक-एक वोटर पर हमारी नजर है : तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में सफलता के दावे किए गए हैं लेकिन जमीनी सतह पर कहीं सर्वर डाउन, ओटीपी की समस्या, लॉगिन एरर, दस्तावेज अपलोड फेल, गलत मैपिंग जैसी गंभीर तकनीकी समस्याएँ लगातार सामने आई हैं. तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है. इन शिकायतों के लिए बीएलओ या मतदाता को कोई सपोर्ट सिस्टम, टिकटिंग पोर्टल या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है. 25 जुलाई की समय सीमा के पहले ही अपलोडिंग पूरा करने की बात कही जा रही है, जिससे गुणवत्ता और वैधता की जगह संख्या और गति पर जोर है. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग की यह एस.आई.आर प्रक्रिया एक आई वॉस है. चुनाव आयोग ने बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बूथ के आंकड़ों के हिसाब से पहले ही जोड़-तोड़ कर रखा है. लेकिन हम भी कम नहीं है, एक एक वोटर पर हमारी नजर है और सबका आंकड़ा हमारे पास है. केस सुप्रीम कोर्ट में है.

ये दस्तावेज मांग रहे बीएलओ

- मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि द्वारा निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)
- पासपोर्ट
- राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
- बैंक, डाकघर, एलआईसी आदि द्वारा 1 जुलाई 1987 के पूर्व निर्गत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों का पहचान पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र



देशभर में सूची संशोधन की तैयारी चुनाव आयोग ने शुरू किया काम

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने अगले महीने से पूरे भारत में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी शुरू कर दी है. यह पुनरीक्षण बिहार में चल रहे विशेष पुनरीक्षण जैसा होगा. चुनाव आयोग की तरफ से यह कदम उस समय उठाया गया है जब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधानिक दायित्व करार दिया और चुनाव आयोग को बिहार में इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी. बता दें कि, चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ कुछ विपक्षी पार्टियों और अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पुनरीक्षण के खिलाफ चुनौती दी थी, उनका कहना था कि इससे योग्य नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिल सकता है.

इससे पहले किन राज्यों में कब किया गया था विशेष पुनरीक्षण?

अब कुछ राज्य चुनाव अधिकारियों ने उन राज्यों में आखिरी बार किए गए विशेष पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित मतदाता सूची को सार्वजनिक कर दिया है. दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है, जब राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार पुनरीक्षण हुआ था. उत्तराखंड में 2006 में आखिरी पुनरीक्षण हुआ था, और अब उस वर्ष की सूची राज्य की वेबसाइट पर है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 28 जुलाई को बिहार मामले की सुनवाई के बाद, वह देशव्यापी पुनरीक्षण पर अंतिम निर्णय लेगा। इस प्रक्रिया के तहत विदेशी अवैध प्रवासियों को उनके जन्मस्थान की जांच करके हटाया जाएगा.

वकील, शिक्षाविद् व पूर्व राजनयिक को मिला मौका

राष्ट्रपति ने निकम सहित 4 सदस्यों को किया मनोनीत

एजेंसियां। नयी दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार को राज्यसभा के लिए चार नए सदस्यों उज्ज्वल देवराव निकम, सी. सदानंदन मास्टे, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन को मनोनीत किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 की उपधारा (1) के उपखंड (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अनुच्छेद की उपधारा (3) के साथ पठित होकर राष्ट्रपति ने नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न रिक्तियों की पूर्ति हेतु राज्यसभा में उज्ज्वल देवराव निकम, सी. सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला तथा डॉ. मीनाक्षी जैन को नामित किया है.

नामित सदस्यों में उज्ज्वल देवराव निकम जाने-माने अधिवक्ता हैं, जिन्होंने मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. जबकि सी. सदानंदन मास्टर केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् हैं. हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं. मीनाक्षी जैन प्रख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद् हैं. ये नामांकन पूर्व में नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण खाली पड़ी सीटों को मद्देनजर किए गए हैं.

पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम मोदी ने राज्यसभा के लिए नामित चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपलब्धियों और योगदान का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी. मोदी ने एक्स पर साझा की. मोदी ने कहा कि अधिवक्ता उज्ज्वल निकम का न्यायिक क्षेत्र में समर्पण अनुकरणीय है. सी. सदानंदन मास्टर के बारे में कहा कि उनका जीवन साहस और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है. उन्होंने उनके शिक्षा और सामाजिक सेवा क्षेत्र में योगदान की सराहना की और कहा कि वे युवा सशक्तिकरण के प्रति अत्यंत समर्पित हैं. हर्षवर्धन श्रृंगला को मोदी ने कुशल राजनयिक, विचारशील बुद्धिजीवी और चिंतक बताया. डॉ. मीनाक्षी जैन की प्रशंसा करते हुए पीएम ने कहा कि उन्होंने शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है.

पटना : हमलावरों ने दागी तीन गोलियां, जांच शुरू

वकील की दिनदहाड़े हत्या

पटना। बिहार की राजधानी पटना के सुलतानगंज थाना क्षेत्र में रविवार को दिनदहाड़े गोलीबारी की बड़ी वारदात सामने आई है. अज्ञात हमलावरों ने एक वकील की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घायल व्यक्ति की पहचान जितेंद्र कुमार महतो (उम्र लगभग 58 वर्ष) के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पटना सिटी के एएसपी अतुलेश झा और सुल्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से 2 खाली कारतूस के खोखे भी बरामद किए हैं, जो गोलीबारी की पुष्टि करते हैं. फिलहाल एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया लाय गया है, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान में मदद मिल सके. इससे पहले पटना के पिपरा इलाके के शेखपुरा गांव में एक ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की शनिवार शाम खेत में काम करने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

गुंडागर्दी: महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर यूपी के ऑटो चालक की पिटाई

निशिकांत बोले-ठाकरे परिवार की पार्टी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते

एजेंसियां। नयी दिल्ली

महाराष्ट्र के पालघर जिले में मराठी नहीं बोलने पर एक ऑटो चालक के साथ शिवसेना (यूबीटी) के लोगों ने मारपीट की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वहीं अब इस घटना को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है. मराठी ना बोलने पर ऑटो ड्राइवर से की गई मारपीट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा, ठाकरे परिवार की पार्टी- लातों के भूत बातों से नहीं मानते.

मारपीट मामले में मामला दर्ज नहीं हुआ है

पुलिस ने रविवार को कहा कि हमने ऑटो चालक से मारपीट वीडियो देखा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, इसलिए अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) के एक स्थानीय पदाधिकारी ने दावा किया कि ऑटो चालक को सबक सिखाया गया है और कहा कि मराठी भाषा और राज्य का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. गौरतलब है कि पालघर के विरार इलाके में रहने वाले यूपी के प्रवासी ऑटो चालक ने कथित तौर पर मराठी भाषा, महाराष्ट्र और मराठी प्रतीकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर सोशल मीडिया और राजनीतिक समूहों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी थीं. वीडियो में देखा गया कि कथित तौर पर एक समूह, व्यस्त सड़क पर चालक को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है, बाद में उस व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा गया.

पीसीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताया बड़ा 'विलेन'

भारत से सीजफायर की भीख मांग रही थी पाक सेना

एजेंसियां। इस्लामाबाद

भारत के साथ बीती मई में चार दिनों तक चले सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने युद्धविराम की गुहार लगाई थी. पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. पाकिस्तान-चाइना इंस्टिट्यूट (पीसीआई) की रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) ने ही अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया था. इस तरह इसने डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को खारिज कर दिया है. इसमें यह भी कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव के दौरान ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिश से अमेरिका की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा है.

अमेरिकी रणनीति को नुकसान

दक्षिण एशिया को नया आकार देने वाले 16 घंटे' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में पांच बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है. सबसे पहले यह दावा करती है हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को ट्रंप के मध्यस्थता प्रयास ने नुकसान पहुंचाया है. ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से एक तरह व्यवहार किया और कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की. इस रुख ने क्षेत्रीय स्थिरता के रूप में चीन की भूमिका को बढ़ाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखने में विफल रहा है.

अमेरिका और नाटो को धमकी : रिपोर्ट में अमेरिका और नाटो को अप्रत्यक्ष रूप से चीनी हथियारों की धमकी दी गई है. कहा गया कि अमेरिका और नाटो को चीन के सथ तकनीकी अंतर के बारे में अपनी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली चीनी सैन्य प्रणालियां पश्चिमी तकनीकों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं.

ट्रंप कैसे बन गए संघर्ष में विलेन : इसमें अमेरिका का अपने सहयोगी भारत का समर्थन करने के बजाय ट्रंप का एक्स पर मध्यस्थता करने की घोषणा करने को एक कूटनीतिक चूक बताया गया है. इसमें कहा गया कि पाकिस्तान की प्रशंसा करके और कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश करके अमेरिका ने अनजाने में पाक के प्रमुख समर्थक चीन का प्रभाव बढ़ा दिया. इसने ट्रंप की वैश्विक नेता के रूप में छवि को कमजोर किया है.

पाकिस्तान सेना ने किया युद्धविराम के लिए संपर्क : रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष से सीधे सैन्य स्तरीय संवाद के लिए संपर्क किया था. हालांकि, यह रिपोर्ट इस्लामाबाद में लोगों को नाराज कर सकती है, लेकिन इसने साफ कर दिया है कि युद्धविराम की मांग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी.

चौंकाने वाला खुलासा : नेचर जर्नल में छपी अध्ययन रिपोर्ट ने डराया

2008 के बाद जन्मे बच्चों में गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा

शुभम संदेश डेस्क

कैंसर वैश्विक स्तर पर बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, ये दुनियाभर में मौत का प्रमुख कारण भी है. कुछ दशकों पहले तक माना जा रहा था कि कैंसर सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी है, हालांकि हाल के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि अब कम उम्र के लोग, यहां तक कि 20 से कम उम्र वाले बच्चे भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं. यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को इस गंभीर रोग से बचाव के लिए उपाय करते रहने की सलाह देते हैं.

कम उम्र के लोगों में कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर एक हालिया अध्ययन में कई डराने वाली जानकारियां सामने आई हैं. नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित कई एशियाई देशों में कम उम्र के लोगों में पेट के कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है.

एक नए वैश्विक अनुमान में चेतावनी दी गई है कि 2008 से 2017 के बीच पैदा हुए 15.6 मिलियन (1.56 करोड़) से अधिक बच्चों को उनके जीवनकाल में पेट का कैंसर हो सकता है. इनमें से अधिकांश एशिया में और कई भारत में हैं. 185 देशों में अपेक्षित और रोके जाने योग्य गैस्ट्रिक कैंसर के अनुमान के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गए हैं.

एच पाइलोरी संक्रमण और कैंसर का खतरा

शोधकर्ताओं ने बताया कि अकेले भारत में 1.6 मिलियन (16 लाख) से अधिक लोगों में गैस्ट्रिक कैंसर या पेट के कैंसर का खतरा हो सकता है. अध्ययन के दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि भविष्य में पेट के कैंसर के इन मामलों में से 76 प्रतिशत हेलिकोबैक्टर पाइलोरी (एच पाइलोरी) से संबंधित हो सकते हैं, ये एक प्रकार का खतरनाक बैक्टीरियल संक्रमण है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, हालांकि अच्छी बात ये है कि ये संक्रमण उपचार योग्य होता है. शोधकर्ताओं ने एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए तत्काल निवेश, जांच और एच. पाइलोरी के उपचार को बढ़ाने का सलाह दी है.

गैस्ट्रिक कैंसर और इसके जोखिम कारक

गैस्ट्रिक कैंसर या पेट के कैंसर को लेकर वैसे तो कम चर्चा की जाती है, हालांकि इसका खतरा पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखा गया है. यह वैश्विक स्तर पर कैंसर से मृत्यु चार्ट में पांचवें स्थान पर है. चूंकि इसके लक्षण आमतौर पर पेट की अन्य कई समस्याओं से मिलते जुलते होते हैं यही कारण है समय पर इसका निदान हो पाना कठिन हो जाता है.

अध्ययन में क्या पता चला : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की इकाई, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी) के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन में, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के डेटाबेस का उपयोग किया गया. संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकीय अनुमानों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 2008 और 2017 के बीच पैदा हुए बच्चों को उनके जीवनकाल में गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है.

अंतरिक्ष की यात्रा से कल लौट रहे शुभांशु शुक्ला

नयी दिल्ली। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को अंतरिक्ष से वापस लौट रहे हैं. जहां शुभांशु की पूरी टीम को कैलिफोर्निया के तट पर उतरने के बाद 7 दिनों तक पुनर्वास में रखा जाएगा. ग्रुप कैप्टन शुक्ला 18 दिनों तक आइएसएस पर प्रवास में अंतरिक्ष की यात्रा से होकर लौट रहे हैं. नासा ने बताया कि एक्सिओम-4 के चारों अंतरिक्ष यात्री 14 जुलाई को अंतरिक्ष से 4:35 मिनट पर आइएसएस से रवाना होंगे. वहीं उनका यान 15 जुलाई को अपराह्न 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर उतरेगा. बता दें कि शुभांशु शुक्ला भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन, टेस्ट पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं. वे उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं जिन्हें अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया है.

ढाका : बांग्लादेश में 'धृतराष्ट्र' बने मोहम्मद यूनुस!

ढाका में हिंदू व्यापारी की हत्या शव पर नाचते रहे हमलावर

एजेंसियां। ढाका

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू कबाड़ व्यापारी लाल चंद सोहाग की बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद देशभर में गुस्से की लहर दौड़ गई है. यह हत्या ऐसे समय पर हुई है जब देश की अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. पुराने ढाका के मिटफोर्ड अस्पताल के सामने जबरन वसूली करने वाले कुछ लोगों ने लाल चंद को घेर लिया और कंक्रीट के स्लैब से उन्हें बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वायरल वीडियो में हमलावरों को उनके शव पर नाचते हुए भी देखा गया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया.

छात्रों ने किया सड़कों पर विरोध प्रदर्शन

घटना के खिलाफ ढाका के कई विवि के छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्रों ने सरकार से पूछा- जब जबरन वसूली करने वाले हिंसा कर रहे हैं, तो अंतरिम सरकार क्या कर रही है? पुलिस ने हत्या के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो के पास अवैध हथियार भी मिले हैं. लाल चंद की बहन मंजुआरा बेगम ने कोतवाली थाने में हत्या का केस दर्ज कराया है.

सबकुछ ठीक रहा, तो रांची, जमशेदपुर और धनबाद में भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन !

राज्य सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजा आधिकारिक प्रस्ताव

शुभम संदेश। रांची

झारखंड के लोग जल्द ही मेट्रो की सवारी का सपना सच होते देख सकते हैं. राज्य सरकार ने रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की पहल करते हुए भारत सरकार को आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है. यह प्रस्ताव शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के सचिव को भेजा गया है. यह कदम राज्य में बढ़ते ट्रैफिक, प्रदूषण और समय की बर्बादी जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है.

प्रस्ताव में क्या-क्या शामिल है?

सरकार के प्रस्ताव में इन बिंदुओं को प्रमुखता से रखा गया है:
- मेट्रो परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी और एलाइनमेंट सर्वे कराया जाए
- डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने की अनुमति दी जाए
- केंद्र सरकार से योजना को जल्द स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है

क्यों जरूरी है मेट्रो झारखंड के लिए

झारखंड के शहर अब पहले जैसे नहीं रहे. शहरीकरण बढ़ रहा है, गाड़ियां सड़कों पर बेतहाशा बढ़ रही हैं और ट्रैफिक जाम अब रोज की परेशानी बन चुका है. ऐसे में मेट्रो एक आधुनिक, तेज और इको-फ्रेंडली समाधान हो सकता है.

जानिए मेट्रो से क्या होंगे सीधे फायदे

- यातायात का दबाव कम होगा
- प्रदूषण घटेगा, लोगों की सेहत सुधरेगी
- सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का अनुभव मिलेगा
- रोज़गार और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
- शहरों की प्लानिंग और बुनियादी ढांचा होगा स्मार्ट

टीओडी मॉडल से शहर बनेंगे और भी स्मार्ट: इस मेट्रो योजना में झारखंड सरकार ट्रांसिट ओरियेंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) मॉडल को भी अपनाने जा रही है. इससे मिश्रित ज़ोनिंग, बेहतर कनेक्टिविटी और उच्च घनत्व वाले क्षेत्र विकसित होंगे, जिससे शहरी जीवन और भी बेहतर होगा.

सरकार की प्रतिबद्धता: झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह मेट्रो रेल नीति 2017 के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें सीएमपी (कांम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान, पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) और वीसीएफ (वैल्यू कैप्चर फाइनेंशिंग) जैसे इनोवेटिव मॉडल शामिल होंगे.

मुख्यमंत्री ने खुद उठाई थी यह मांग : इस मेट्रो योजना की नींव हाल ही में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रखी गई थी, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से रांची में मेट्रो परियोजना की मांग की थी. इसके बाद, 11 जुलाई को शहरी विकास विभाग ने केंद्र को विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया.

सऊदी अरब में हादसे में मृत धनंजय महतो का पार्थिव शरीर स्वदेश आया

शुभम संदेश। रांची

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संवेदनशीलता और श्रमिकों/कामगारों के प्रति सम्मान का प्रतिफल है कि विदेशों में हादसे में मृत कामगारों का पार्थिव शरीर स्वदेश उनके परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है. धनंजय महतो भी उनमें से एक हैं जिनका पार्थिव शरीर राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधीन राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के प्रयास से सऊदी अरब के तबूक से ग्राम बंडखड़ी, पोस्ट उचाघना, थाना विष्णुगढ़, जिला हज़ारीबाग उनके परिजनों तक पहुंच गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय धनंजय महतो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में कार्यरत थे. सऊदी अरब के तबूक में कार्य के दौरान दिनांक 24 मई 2025 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी.

परिजनों को मिलेगा मुआवजा

राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा कंपनी एवं परिजनों के साथ समन्वय स्थापित कर मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा.

बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

स्कूली बच्चों की साइकिल भी चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट

रांची। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा साधा है. उन्होंने कहा, राज्य सरकार में चौतरफा भ्रष्टाचार व्याप्त है. स्कूली छात्रों को दी जाने वाली साइकिल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. कल्याण विभाग द्वारा सरकारी स्कूल के छात्र-छात्राओं को कबाड़ साइकिलें वितरित की जा रही हैं.

साइकिलें या तो पहले से पंचर थीं, या उनके टायर-ट्यूब ही फटे हुए थे. कुछ के हैंडल ढीले तो कुछ की चेन जाम. मजबूरन बच्चे साइकिलें कंधे पर ढोते या हाथ में थामे पैदल लौटे. उन्होंने आगे कहा, प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि हर बच्चों की योजनाएं तक इससे अछूती नहीं रही. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खराब हो चुकी सारी साइकिलें वापस लेकर बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली साइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.

सुनील कुमार साहू ने 500 समर्थकों के साथ थामा राजद का दामन

केंद्र सरकार पर राजद नेताओं ने साधा निशाना

शुभम संदेश। रांची

राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में रविवार को एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला जब लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साहू ने अपने 500 समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया. इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, यह सरकार ना सिर्फ पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, बल्कि उन राज्यों के भी खिलाफ काम कर रही है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है. ऐसी सरकार को तत्काल हटाने की जरूरत है.

इस अवसर पर पार्टी के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा, "बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार से त्राहिमाम कर रही है. वहीं राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने तेली समाज की एकजुटता पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह वही तेली समाज है जिसे मनुवादियों ने दुत्कारा था, सुबह उठकर जिनका चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे. यह लालू यादव की दूरदर्शिता और महानता है कि उन्होंने वंचित और पिछड़े समाज को सशक्त बनाया.

झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा, झारखंड का उद्धार केवल लालू यादव की विचारधारा से ही संभव है. सभा में बिहार राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा, "आज अगर पिछड़ों, दलितों और गरीबों को कहीं सम्मान और हक मिलता है, तो वह सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में ही है. उन्होंने सुनील साहू से उम्मीद जताई कि वे झारखंड में साहू समाज को एकजुट करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे.

पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और सत्यानंद भोक्ता ने लालू यादव की विचारधारा को नमन करते हुए कहा कि उन्हीं की सोच की बदौलत आज पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज की आवाज सदन तक पहुंच रही है. पार्टी के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रंजन यादव और मंजू साह ने भी अपनी बात रखते हुए लालू यादव का आभार व्यक्त किया. राजद में शामिल होते हुए सुनील कुमार साहू ने कहा कि वे लालू यादव की विचारधारा और सामाजिक न्याय के आंदोलन से प्रभावित होकर ही राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं. इस कार्यक्रम का मंच संचालन पार्टी की उपाध्यक्ष अनीता यादव ने किया. इस अवसर पर कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे, जिनमें झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, बिहार राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गौतम सागर राणा, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजन यादव, मंजू साह, कमलेश यादव, डॉ. मनोज, मनोज पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे.

झारखंड में मानसून एक्टिव : आईएमडी का अलर्ट

अगले 3 दिन तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी

शुभम संदेश। रांची

झारखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्यभर में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

किसानों के लिए अलर्ट :
- बारिश के इस मौसम में किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.
- खेतों में जलभराव की स्थिति से बचने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें
- बिजली चमकने या गरज के दौरान खुले में ना जाएं, न ही पेड़ों और खंभों के नीचे खड़े हों

राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर

मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर अगले कुछ दिनों तक राज्य के मौसम पर पड़ेगा. तूफानी हवाएं चलेंगी, झमाझम बारिश होगी कई जिलों में वज्रपात की भी संभावना जताई गई है. इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे मौसम सुहावना लेकिन अस्थिर बना रहेगा.

तारीख अनुसार बारिश का पूर्वानुमान

14 जुलाई: राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना

15 जुलाई: उत्तर-पूर्वी जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान

16-17 जुलाई: बारिश थोड़ी कम हो सकती है, कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं

किन जिलों में प्रभाव अधिक रहेगा

बारिश और तेज हवाओं का असर खासकर रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, गढ़वा, लोहरदगा जैसे जिलों में अधिक देखने को मिल सकता है.

आईएमडी ने किसानों को कहा है कि फसलों की रक्षा के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करें और मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखें.

सावधानी ही सुरक्षा: मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 72 घंटे झारखंड के लिए अहम हैं. जनता और प्रशासन को सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से निपटा जा सके.

गिरिडीह पुलिस का बड़ा कदम

600 'पुलिस मित्रों' को किया सम्मानित

शुभम संदेश। रांची/गिरिडीह

जिला पुलिस प्रशासन द्वारा रविवार को नगर भवन में पुलिस मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह जिले के 600 पुलिस मित्रों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. यह सम्मान रामनवमी, मुहर्रम जैसे पर्व-त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन में उनके सहयोग के लिए दिया गया.

समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति : इस मौके पर गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. साथ ही एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, एसडीपीओ जितवाहन उरांव, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, डीएसपी कौसर अली, साइबर डीएसपी आबिद खान सहित कई पुलिस पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

एसपी डॉ. विमल कुमार ने क्या कहा? समारोह को संबोधित करते हुए एसपी डॉ. विमल कुमार ने कहा कि "गिरिडीह के नागरिकों ने हर पर्व में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का परिचय दिया है. अमन-शांति बनाए रखने में पुलिस मित्रों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है. ये सभी लोग पुलिस के सच्चे सहयोगी हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया."

अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद: समारोह में नगर थाना प्रभारी शैलेष प्रसाद, इंस्पेक्टर सह मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, कमाल खान सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

इन थाना क्षेत्रों से चुने गए पुलिस मित्र

सम्मानित किए गए पुलिस मित्र सदर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न थाना क्षेत्रों से थे:
नगर थाना, मुफ्फसिल थाना, पचम्बा थाना, गांडेय थाना, बेंगाबाद थाना, ताराटांड थाना, अहिल्यापुर थाना

झारखंड कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के साथ राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे बैठक

शुभम संदेश। रांची

सोमवार 14 जुलाई को दिल्ली में राहुल गांधी झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से सभी मंत्री और विधायकों को विशेष रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. झारखंड में संगठन विस्तार के साथ-साथ गठबंधन की सरकार की परफॉर्मेंस और जनता में वर्तमान सरकार के प्रति सोच को जानने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे.

राहुल गांधी से लेंगे दिशानिर्देश: केशव महतो कमलेश: सोमवार को दिल्ली में राहुल गांधी द्वारा ली जाने वाली बैठक की जानकारी देते हुए झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि हम लोगों ने ही राहुल गांधी से समय मांगा था. हर दो-तीन महीने पर इस तरह की बैठक होती रहती है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 14 जुलाई की बैठक में संगठन सृजन कार्यक्रम के साथ-साथ वर्तमान महागठबंधन सरकार की अभी तक की उपलब्धियों की जानकारी भी कांग्रेस नेतृत्व को दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल रहेंगे.झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस की बैठक पर बोलने या तंज कसने के हक भाजपा को नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, यह सब जानते हैं.

बैठक का लाभ झारखंड कांग्रेस को नहीं मिलेगा: भाजपा

इधर, दिल्ली में झारखंड के कांग्रेसी विधायक मंत्रियों की लगने वाली 14 जुलाई की पाठशाला पर प्रदेश बीजेपी ने तंज कसा है. झारखंड भाजपा के प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी चाहे लाख पाठशाला लगा लें, लेकिन उसका कोई असर झारखंड कांग्रेस पर नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस झामुमो की पिछलग्गू पार्टी ही रहेगी. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड राज्य का निर्माण किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया. झारखंड के विकास के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास न कोई नीति है और न नियत. राज्य के विकास के लिए कोई ब्लू प्रिंट भी कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी के पास नहीं है. ऐसे में कोई भी पाठशाला लगा लें, उसका कोई फायदा कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है.

आज रांची कांग्रेस कार्यालय में नहीं लगेगा जनता दरबार: रिंकू तिवारी

कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों और विधायकों की दिल्ली में होने वाली बैठक की वजह से कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में हर सप्ताह लगने वाला जनता दरबार 14 जुलाई को स्थगित रहेगा. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी की कोशिश होगी कि सोमवार की जगह किसी अन्य दिन जनता दरबार लगाया जाए, ताकि जनता की परेशानी दूर हो.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के सोशल मीडिया अकाउंट हुए हैक

साइबर थाना में एफआईआर दर्ज

शुभम संदेश। रांची

झारखंड में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स एकाउंट हैक करने के बाद अब साइबर अपराधी झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को भी साइबर अपराधियों के द्वारा हैक कर लिया गया है. फिलहाल इस मामले में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के आप्त सचिव मनोरंजन कुमार के द्वारा दर्ज किया गया है.

साइबर थाना में शिकायत दर्ज : शिकायत में बताया गया है कि मंत्री के नाम से संचालित फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक्सेस कर अनुचित तरीके से चलाया जा रहा है, जिससे उनकी गोपनीयता और सार्वजनिक छवि को क्षति पहुंच सकती है. उन्होंने आशंका जताई कि इन अकाउंट्स का दुरुपयोग कर भ्रामक या आपत्तिजनक जानकारी प्रसारित की जा सकती है. शिकायतकर्ता ने पुलिस से आग्रह किया है कि संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स को त्वरित प्रभाव से निलंबित किया जाए और तकनीकी जांच के माध्यम से हैकर की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

जांच में जुटी पुलिस

साइबर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, तकनीकी टीम सोशल मीडिया कंपनियों से संपर्क कर डाटा ऐक्सेस व लॉग की जानकारी जुटाने में लगी हुई है, ताकि दोषी तक जल्द पहुंचा जा सके.

उपलब्धि — खनन सुरक्षा के क्षेत्र में की समर्पित सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए

अविजित घोष को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

शुभम संदेश। रांची/ बड़बिल (ओडिशा)

खनन सुरक्षा के क्षेत्र में दशकों की समर्पित सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए अविजित घोष को 42वें वार्षिक मेटलिफेरस माइंस सेफ्टी वीक 2024 के समापन समारोह में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के सदस्य घोष को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सीताराम रूंगटा म्यूनिसिपल टाउन हॉल, बड़बिल में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया.

सम्मान प्रदान करने वालों में एएम एंड एनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक (खनन एवं रणनीतिक परियोजना) आलोक कुमार मेहता, खान सुरक्षा निदेशक (भुवनेश्वर क्षेत्र-1) एके मिश्रा और खान सुरक्षा निदेशक (भुवनेश्वर क्षेत्र-2) एन बालसुब्रमण्यम शामिल रहे.

मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी

घोष ने 1980 में मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित खनन कंपनियों में योगदान दिया, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निदेशक (खनन) के रूप में उनका कार्यकाल (2010-2014) उल्लेखनीय रहा. उन्हें पूर्व में भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें डॉ. जे कॉगन ब्राउन मेमोरियल स्वर्ण पदक (2010-11), एमिनेंट माइनिंग इंजीनियर की उपाधि (2015) और रसीईओ विद एचआर ओरिएंटेशनर अवॉर्ड (2015) प्रमुख हैं.घोष ने तकनीकी शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं और 2015 में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था.यह सम्मान न केवल उनकी व्यावसायिक सफलता का प्रमाण है, बल्कि खनन उद्योग में सुरक्षा और उत्कृष्टता के लिए उनके निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित करता है. समारोह में उद्योग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, हितधारक और गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी उपलब्धियों पर उन्हें बधाई दी.

विधायक सरयू राय ने डीसी को लिखा पत्र

शुभम संदेश। रांची/जमशेदपुर

विधायक सरयू राय ने रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को पत्र लिखा है. विधायक ने बताया कि उपायुक्त को पत्र लिखकर कदमा क्षेत्र के कई सामुदायिक भवनों, रैन बसेरा और कौशल विकास केंद्र को अवैध कब्जे से मुक्त करने का मुद्दा उठाया गया है. उन्होंने इन सरकारी भवनों को कब्जा मुक्त कर सार्वजनिक हित में उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की है. सरयू राय ने कहा कि पांच जुलाई को क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया कि कदमा के शास्त्रीनगर रोड नंबर पांच स्थित नानकी बाबा मंदिर के समीप रैन बसेरा और स्वर्णवाणिक, विश्वकर्मा समाज सामुदायिक भवन पर असामाजिक तत्वों का कब्जा है और इनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है. छह जुलाई को इस संबंध में कई अखबारों में समाचार भी प्रकाशित हुआ था लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं हुई.

विधायक ने कहा कि शास्त्रीनगर रोड नंबर चार स्थित मिलन समिति मैदान के सामुदायिक भवन को भी एक राजनीतिक दल कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. मैरीन ड्राइव घोड़ा बाबा चौक के पास कौशल विकास केंद्र भवन पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है और उसके प्लेटफॉर्म पर कूड़ा-कचरा का व्यवसाय हो रहा है. यहां सरकारी मद से तीन दुकानें बनीं, लेकिन उनका आवंटन नहीं हुआ, जिससे परिसर की स्थिति जर्जर हो गई है.

राय ने पत्र में यह भी लिखा कि खरकई नदी किनारे पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता की अनुशंसा पर दो छठ घाट द्वार का निर्माण कार्य हो रहा है, जो दुर्गा पूजा विसर्जन को बाधित नहीं करेगा. उन्होंने उपायुक्त से इन भवनों को अविलंब कब्जा मुक्त कर विधिसम्मत आवंटन और कौशल विकास केंद्र का उपयोग युवाओं के प्रशिक्षण में करने का आग्रह किया है.

शुभम संदेश

एक राज्य - एक अखबार

धनबाद, सोमवार 14 जुलाई 2025, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी, संवत 2082

सदर अस्पताल में आज

मेडिसिन	डॉ पीपी पांडेय, डॉ शीला
शिशु रोग	डॉ पल्लवी
हड्डी रोग	डॉ मुकेश प्रसाद
सर्जरी	डॉ संजीव गोलाश
नेत्र रोग	डॉ सरोजिनी मुर्मू
दंत रोग	डॉ अनुपमा
फिजियोथेरेपी	डॉ दीपाली रॉय
स्त्री एवं प्रसूति रोग	डॉ रूमा प्रसाद

गायनी इमर्जेंसी

सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक	डॉ सुमन
दोपहर 2 से रात 8 बजे तक	डॉ सुरभि
रात 8 से सुबह 8 बजे तक	डॉ अपूर्व दत्ता

जेनरल इमर्जेंसी

सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक	डॉ मंगेश
दोपहर 3 से रात 9 बजे तक	डॉ नीलम
रात 9 से सुबह 9 बजे तक	डॉ राकेश रंजन

गोविंदपुर में 40 पशु शेडों की अनियमित स्वीकृति की होगी जांच

एक्सक्लूसिव : प्रखंड में मनरेगा गड़बड़ी के तीसरे मामले में अपर सचिव ने दिए जांच के निर्देश

आरोप मनरेगा बकरी शेड योजना में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़ा

अमित सिन्हा

धनबाद । धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत बिराजपुर पंचायत में मनरेगा बकरी शेड योजना में कथित भ्रष्टाचार और रोजगार सेवक नरेश रवि द्वारा 7,000 रुपये कमीशन मांगने के आरोपों की जांच के लिए अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, धनबाद को विधि-सम्मत कार्रवाई करने और विभाग को विस्तृत प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है. यह निर्देश गोविंदपुर निवासी जानकी प्रसाद साव की शिकायत के बाद जारी किया गया, जिसमें रोजगार सेवक पर अनियमितताओं और धमकी देने का आरोप लगाया गया है. बता दें कि गोविंदपुर अंचल अंतर्गत मनरेगा योजना में गड़बड़ी की कई शिकायतें सामने आ रही हैं. कई शिकायतों में जांच के नाम पर खानापूर्ति भी कर दी गई है. इन शिकायतों के बावजूद किसी भी मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है.

अपर सचिव के पत्र में कहा गया है कि जानकी प्रसाद साव का परिवाद विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बकरी शेड योजना (वर्क ऑर्डर नंबर 3421003011/आईएफ/ 7080902022449) के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए रोजगार सेवक नरेश रवि द्वारा 7,000 रुपये की मांग का आरोप लगाया है. इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने पंचायत में 40 पशु शेडों की अनियमित स्वीकृति और मनरेगा आयुक्त, झारखंड के पत्र (पत्रांक 154, दिनांक 03.02.2021) के उल्लंघन का उल्लेख किया है, जिसमें प्रति पंचायत अधिकतम 5 पशु शेड स्वीकृत करने का निर्देश है. शिकायत में नरेश रवि पर दबंग रवैया अपनाने और शिकायत करने वालों को हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप है. इस मामले को लेकर अपर सचिव ने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया है कि मामले की गहन जांच की जाए, दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, और शिकायतकर्ता की बकाया राशि के भुगतान के साथ-साथ नरेश रवि के स्थानांतरण पर विचार किया जाए. जांच के बाद विभाग को एक विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिसमें सभी तथ्यों और कार्रवाई का विवरण शामिल हो.

मनरेगा के उद्देश्य का हो रहा दुरुपयोग

गोविंदपुर अंचल में मनरेगा योजना का दुरूपयोग ही देखा जा रहा है. मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिससे उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जा सके. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर देती है, जैसे जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण सड़कें, और अन्य परियोजनाएं जो स्थायी विकास में योगदान करती हैं. मनरेगा का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, स्थायी संपत्ति निर्माण एवं पारदर्शिता और जवाबदेही हैं. इन उद्देश्य को पूरा करने में गोविंदपुर अंचल पूरी तरह असफल दिख रहा है.

ब्रीफ खबरें

अस्पताल से बच्चा चोरी करते रंगेहाथ धराया

एसएनएमएमसीएच के गायनी वार्ड से चुरा रहा था बच्चा

लोगों ने पकड़कर जमकर कूटा, किया पुलिस के हवाले

धनबाद । शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रविवार की रात गायनी विभाग में बच्चा चोरी करते एक व्यक्ति रंगे हाथ धरा गया. बच्चे की मां ने बच्चा चुराता देख शोर मचाना शुरू कर दिया. हल्ला सुन काफी लोग जुटे और उक्त व्यक्ति को पकड़ा. पकड़ने के बाद उसकी जमकर कुटाई कर दी. बता दें कि राजगंज निवासी सोबरा खातून ने दो दिन पूर्व एक नवजात को जन्म दिया था. जिसके बाद महिला व नवजात बच्चे को गायनी विभाग में भर्ती कराया गया था. इसी बच्चे को चुराने का प्रयास किया गया था. खबर पाकर सरायढेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.

वज्रपात से दो व्यक्ति सहित कई पशुओं की मौत

गांडेय/धनवार (गिरिडीह)। जिले के गांडेय और धनवार प्रखंडों में रविवार शाम वज्रपात होने से दो व्यक्तियों और कई पशुओं की मौत हो गई है. धनवार थाना क्षेत्र के जेरूआडीह गाँव में वज्रपात होने से 48 वर्षीय सुकर बैठा की मौत हो गई. दूसरी घटना अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के दलदला गाँव में हुई, जहाँ वज्रपात की चपेट में आने से 52 वर्षीय झरी यादव की मौत हो गई. इस घटना में उनके तीन पशुओं की भी मौत हो गई है. धनवार और अहिल्यापुर थाना की पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

बस्ताकोला के ओसीपी में तनाव लाठी-डंडे के साथ जुटान

झरिया । पिछले एक माह से एचपीसी की मांग को लेकर बस्ताकोला क्षेत्र के केओसीपी में सिंह नेचुरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मजदूर काम बंद कर आंदोलन कर रहे थे. रविवार को आउटसोर्सिंग कम्पनी के लोग काम चालू करने पहुंचे थे. मजदूरों ने इसका विरोध कर दिया. दोनों ओर से लाठी-डंडा के साथ जुटान हो गया. देखते ही देखते तनाव बढ़ गया. निरसा विधायक अरुप चटर्जी के पहुंचते ही मामला और गर्म हो गया. मामले को भांपते हुए तिसरा पुलिस दल-बल के साथ वहां पहुंच गई. अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी. बाद में आउटसोर्सिंग कम्पनी के जीएम एसएन सिंह भी पहुंचे.इस दौरान विधायक अरुप चटर्जी ने कहा कि जब तक मजदूर का एचपीसी का वेतन नहीं देंगे.

कांवरिया सेवा शिविर का शारदा सिंह ने किया उद्घाटन

धनबाद । विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के शुभ अवसर पर बांका के पटनिया परिसर में श्री श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह और युवा समाजसेवी सह उद्यमी संतनु चंद्रा ने संयुक्त रूप से किया. इस अवसर पर धनबाद महानगर भाजपा जिला उपाध्यक्ष शेखर सिंह और दिलीप साव भी उपस्थित थे. शारदा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान भोलेनाथ के करोड़ों भक्तों की श्रद्धा, सेवा, और समर्पण के साथ कांवरियों के स्वास्थ्य, सुविधा, और सुरक्षा के लिए ऐसे सेवा शिविरों का आयोजन सराहनीय है.

ठनका गिरने से दो महिला की मौत, आधा दर्जन जख्मी

दुमका। आकाशीय बिजली गिरने से जिले के विभिन्न प्रखंडों में दो महिला की मौत हो गई. जबकि छह से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है. तेज गर्जन के साथ हुई मूसलाधार बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से जरमुंडी प्रखंड के चरकापाथर गांव निवासी एक महिला की मौत हो गई. वहीं दो लोग घायल हो गये. मृत महिला की पहचान रेखा देवी, पिता शिवचरण महाराणा के रूप में हुई है. घायलों में झखिया गांव निवासी मनोहर पुजहर एवं बनवारा गांव निवासी दिनेश ठाकुर शामिल है. वहीं, दूसरी घटना सरैयाहाट प्रखंड में घटी. जहां प्रखंड के मानिकपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है. जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है. मृत महिला की पहचान मानिकपुर गांव के भरत चंद्र कापरी की पत्नी सकुंती देवी के रुप में की गयी है.

उपायुक्त ने धनबाद की तकनीकी समेत अन्य शिक्षण संस्थानों का किया भ्रमण, कहा

ऐसा माहौल बनाएं कि शिक्षा में धनबाद हो जाए अव्वल

- शिक्षकों के लिए बनेगा प्रशिक्षण केंद्र : डीसी

शुभम संदेश। धनबाद

उपायुक्त आदित्य रंजन ने रविवार को डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, डीपीआरसी भवन नावाडीह सहित अन्य संस्थानों का भ्रमण किया. डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस में उन्होंने क्लास रूम, स्टाफ रूम, स्टोर रूम, लैबोरेट्री, प्ले ग्राउंड सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया. प्राचार्य से विद्यालय में क्या कमी है, उसकी जानकारी प्राप्त की. उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. जिसमें जिले के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने विद्यालय में साफ सफाई, अधूरी बाउंड्री वॉल का निर्माण, छात्रों को ईको क्लब की जानकारी देने, कॉपी एवं किताब पर कवर सुनिश्चित कराने, साफ पोशाक पहनकर आने, सभी क्लास रूम में पढ़ाई से संबंधित सामग्री रखने, प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर प्रेरणादायक संदेश लिखने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए. उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय को गतिविधियों से स्कूल आफ एक्सीलेंस और शिक्षा में धनबाद को पूरे राज्य में अव्वल बनाना है. उन्होंने कहा कि विद्यालय का माहौल ऐसा बनाएं की बच्चों को आने का मन करे. इसके लिए लो कॉस्ट एवं हाई कॉस्ट पर काम किया जाएगा. शिक्षकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनिल कुमार सिंह, डीएमएफटी टीम लीडर शैलेश तिवारी, एपीआरओ आलोक कुमार मिश्रा व अन्य लोग मौजूद थे.

शाम में टेलिफोन एक्सचेंज रोड स्थित एसएसएलएनटी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भ्रमण किया. वहीं उपायुक्त ने आईआईटी आईएसएम में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक स्किल सेंटर के विकास पर प्रबंधन से विस्तृत चर्चा की. साथ ही संस्थान में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को लेकर वार्ता की.

सरकार की मंशा युवाओं को मिले रोजगार, इसके लिए कौशल विकास एवं शिक्षित होना जरूरी

- इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्किल सेंटर बनाने पर चर्चा
- प्रतिदिन नोटिस बोर्ड पर प्रेरणादायक संदेश लिखने का निर्देश
- प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए खुलेगा प्रशिक्षण केंद्र

आरएस मोर, बीबीएम व एसएसएलएनटी कॉलेज में इंटीग्रेटेड डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना

धनबाद । उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर, बीबीएम कॉलेज बलियापुर तथा सिंदरी कॉलेज का निरीक्षण किया .उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि युवाओं को रोजगार मिले. इसके लिए उनके कौशल विकास एवं शिक्षित होना जरूरी है. जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी उसे चरणबद्ध तरीके से प्रशासन पूरा करेगा. उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को कौशल विकास एवं पढ़ाई के संसाधन मुहैया कराने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण किया है. इसके लिए सभी कॉलेज में इंटीग्रेटेड डिजिटल कम लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम बनाने की योजना है. डिजिटल लाइब्रेरी बन जाने से छात्र कंप्यूटर में भी पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी योजना है.

पहले चरण में आरएस मोर कॉलेज, बीबीएम कॉलेज एवं एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में इंटीग्रेटेड डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना है. इसके बाद उपायुक्त ने बलियापुर पलानी में बनने वाले टेक्निकल यूनिवर्सिटी व साइंस सिटी के लिए चिन्हित भूमि का भ्रमण किया.

पॉलिटेक्निक में बनेगा एनआईईएलआईटी का प्रशिक्षण केंद्र

धनबाद । उपयुक्त आदित्य रंजन ने रविवार को धनबाद पॉलिटेक्निक में कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण किया. उपायुक्त ने कहा कि धनबाद पॉलिटेक्निक में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) का प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रयास प्रशासन कर रहा है .कहा कि भारत सरकार की जो भी संस्थाएं प्रशिक्षण देती है, उसमें एनआईईएलआईटी का सर्टिफिकेशन जरूरी है. जिले में इसके दो-तीन केंद्र बनाने के लिए एमओयू किया जाएगा. जिससे किसी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए यहां के छात्र सर्टिफाइड हो जाए. उन्होंने कहा कि इसकी फीस का वहन जिला प्रशासन करेगा जबकि संचालन कॉलेज द्वारा किया जाएगा. इसके बाद उपायुक्त ने डीपीआरसी भवन नावाडीह में तैयार हो रहे प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया. इसके लिए सभी कॉलेज में इंटीग्रेटेड डिजिटल कम लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम बनाने की योजना है। डिजिटल लाइब्रेरी बन जाने से छात्र कंप्यूटर में भी पढ़ाई कर सकेंगे. छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी योजना है. पहले चरण में आरएस मोर कॉलेज, बीबीएम कॉलेज एवं एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में इंटीग्रेटेड डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की योजना है. इसके बाद उपायुक्त ने बलियापुर पलानी में बनने वाले टेक्निकल यूनिवर्सिटी व साइंस सिटी के लिए चिन्हित भूमि का भ्रमण किया.

शराब दुकानों के संचालन के लिए प्रतिनियुक्त हुए चौकीदार

शुभम संदेश। धनबाद

झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों के संचालन में देरी के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिले में 37 दुकानें चलाने के लिए उत्पाद विभाग ने होम गार्ड की कमी के कारण चौकीदारों से काम लेने का निश्चय किया है. विभाग ने जिला प्रशासन से 15 चौकीदारों की मांग की थी, जिसमें से 10 चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है.प्रतिनियुक्त 10 चौकीदारों में निमाय चन्द्र महतो, बाबुसर बास्की, गोविन्द कुमार ठाकुर, मोहम्मद इरशाद अंसारी, संजय कुमार मंडल, अमित दास, भगीरथ महतो, बिरेन्द्र सोरेन, अरुण कुमार राय और मोहम्मद गुल्फान अंसारी शामिल हैं. ये चौकीदार धनबाद में संचालित होने वाली 37 शराब दुकानों की सुरक्षा और संचालन में सहयोग करेंगे. उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि होम गार्ड की कमी के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकानों का संचालन सुचारू रूप से हो. एक सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू होने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी.

जिले में होम गार्ड की स्थिति

जिले में होम गार्ड की कुल स्वीकृत बलों की संख्या 2660 है. वर्तमान में जिले में 1437 होम गार्ड के जवान हैं. जबकि ड्यूटी के लिए कुल होम गार्ड की मांग 1559 है. इस तरह से स्वीकृत प्रतिनियुक्त होम गार्ड की संख्या में 122 की कमी है. इसके बाद अब शराब दुकानों के संचालन के लिए भी होम गार्ड जवान की तैनाती की जानी है.

जिले की 37 शराब दुकानों के संचालन को होमगार्ड के साथ चौकीदारों की ली जाएगी सेवा

देरी का फायदा उठा रहे शराब तस्कर

बंगाल से हो रही तस्करी

जिला प्रशासन की नई उत्पाद नीति लागू करने में देरी का फायदा शराब तस्कर जमकर उठा रहे हैं. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत केवल 37 दुकानें संचालित की जानी है. जिसे सुचारू रूप से संचालित करने में भी जिला प्रशासन को अभी और तीन से चार दिन लगने की संभावना है. इस ढीली व्यवस्था का लाभ उठाकर तस्करों की चांदी हो गई है, और जिले में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा है.सूत्रों के अनुसार, धनबाद में नकली और डुप्लीकेट शराब के साथ-साथ झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल से अवैध शराब की बड़ी खेप लाकर बेची जा रही है. शनिवार को सियालदाह राजधानी एक्सप्रेस से बरामद शराब की बड़ी खेप इस बात का प्रमाण है कि जिले में अन्य राज्यों से शराब की तस्करी कर खपाई जा रही है. इस घटना ने जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दामोदरम अस्पताल को शीघ्र मिलेगा एम्बुलेंस : विधायक शत्रुघ्न महतो

महुदा(शुभम संदेश)। रविवार को बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो दामोदरम हॉस्पीटल भुरूंगिया पहुँचे. इस अवसर पर उन्होंने पूरे अस्पताल परिसर का भ्रमण किया. वे अस्पलाल देखकर काफी प्रसन्न हुए, कहा कि अनुज सांसद ढुलु महतो के द्वारा एम्बुलेन्स देने की घोषणा को शीघ्र मुहैया कराइ जाएगी. मौके पर सांसद सह जिप उपाध्यक्ष प्रतिनिधी सुभाष रवानी, दामोदरम हॉस्पीटल के चैयरमैन प्रदीप कुमार सिंह, प्रबन्धक मोजीबुर रहमान उर्फ मोजीब मल्लीक, जितन रवानी, बिरजु रवानी, हिमांशु शैखर रवानी, शमीम शेख, स्टाफ करमचँद महतो, प्रवीण गोप, रितीक रवानी, सीमरन कुमारी, पुनम कुमारी, मीना देवी, सहित अन्य मौजूद थे.

कमल सेवा संस्थान के सेवा कार्य के 25 वर्ष पूरे, ढाई दशक से लगा रहे कटोरिया में निःशुल्क शिविर

कांवर यात्रा से बढ़कर कोई और यात्रा नहीं : प्रो.रणवीर

- बिहार न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो. रणवीर नंदन थे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि

पूर्व सांसद पीएन सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झारखंड सचेतक मथुरा महतो पहुंचे

शुभम संदेश। केंदुआ

सुल्तानगंज-देवघर कांवरिया पथ पर राजबाड़ा,कटोरिया में कमल सेवा संस्थान की रजत जयंती पर भजन संगीत के साथ भव्य सम्मान सह महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि बिहार न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रो. रणवीर नंदन ने कहा कि सुलतानगंज से रानेश्वर शिवलिंग देवघर में पदयात्रा कर जलअर्पण जैसी पूरे विश्व में कोई और यात्रा नहीं है. कांवरियों को ओर बेहतर सेवा की व्यवस्था के लिए मुख्य मंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे. कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा कि संस्थान 25 वर्षों से कांवरियों की सेवा कर रहा है. इतना लंबा समय सेवा कार्य में गुजर गया, उन्होंने पूर्व के कांवर यात्रा का अनुभव भी साझा किया. विधायक राज सिन्हा ने कहा कि कमल सेवा संस्थान एक माह तक कांवरिया माता-बहनों की सेवा करता है. संस्था जिस तन्मयता से जात-पात से ऊपर उठ कांवरियों की निः शुल्क सेवा करती है, इससे समाज में विश्वसनीयता बढ़ती है.

झारखंड के सचेतक मथुरा महतो ने कहा कि जब संस्था ने 25 वर्ष पहले शिविर लगाया था, तब काफी छोटा पंडाल था पर आज बड़ा स्वरूप हो गया है. अतिथियों पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि बिहार धार्मिक न्यास के अध्यक्ष प्रो रणवीर नन्दन,कटोरिया की विधायक डॉ निक्की हेम्ब्रम,नगर पंचायत अध्यक्ष सपना शिवानी सिंह, धनबाद के पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह, झारखण्ड सरकार के सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो व धनबाद विधायक राज सिन्हा, जिलाध्यक्ष श्रवण राय,चन्द्र शेखर सिंह,मानष प्रसुन्न,तमाल राय सहित संस्था से जुड़े कई लोगों व पत्रकारों को अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया.

झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल किया गया हैक

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

रांची (शुभम संदेश)। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का आधिकारिक एक्स हैंडल @JMMJharkhand साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गया है. इसे असामाजिक तत्वों द्वारा हैक कर लिया गया है. इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से दी है. उन्होंने बताया कि झामुमो का एक्स हैंडल हैक हो गया है और उन्होंने इस मामले की जांच के लिए झारखंड पुलिस को निर्देश भी दे दिए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हो गई है. जांच की जा रही है कि हैंडल को हैक कर किस तरह का कंटेंट शेयर किया गया.

हिलटॉप प्रकरण : फिर बढ़ी टकराव की आशंका

बड़ा सवाल दो सांसदों की राजनीतिक लड़ाई में जनता को होगा फायदा या नुकसान

खास बातें

- रैयतों ने 15 जुलाई को अनिश्चितकालीन धरना का किया एलान
- सांसद ढुलू और चंद्रप्रकाश दोनों की एक ही मांग पर अलग-अलग मोर्चाबंदी

शुभम संदेश। मधुबन

गोविंदपुर एरिया तीन अंतर्गत खरखरी कोलयरी क्षेत्र के मधुबन थाना व धर्माबांध ओपी सीमा क्षेत्र में काम करने आई हिलटॉप आउटसोर्सिंग कम्पनी में एक बार फिर से स्थानीय बाबुडीह, धर्माबांध, खरखरी, नारायणधोडा, ब्राह्मणडीहा और आसपास के लोग एवं गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी समर्थक रोजगार एवं विस्थापितों को नियोजन के लिए गोलबंद होने लगे हैं. इधर रैयतों एवं स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया तीन के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर नियोजन और कंपनी द्वारा लोगों की मूलभूत सुविधाओं में पानी ,बिजली ,रास्ता की मांग की है. लोगों का कहना है कि हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी हमारे क्षेत्र में काम करने के लिए आई है तो कंपनी को लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ नियोजन भी देना होगा यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो 15 जुलाई से हम सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन करेंगे. कोयलानगरी धनबाद की धरती पर एक बार फिर दो राजनीतिक दलों की राजनीति की टकराहट साफ दिखाई देने लगी है. बाघमारा अंचल के अंतर्गत बाबूडीह गांव के समीप प्रस्तावित हिलटॉप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की आउटसोर्सिंग परियोजना में धनबाद से

भाजपा सांसद ढुलू महतो के समर्थक एवं गिरिडीह आजसू पार्टी से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थकों में एक बार फिर से जमीन के बदले मुआवजा, नियोजन एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए दो अलग-अलग मोर्चों पर अपनी-अपनी मांग बीसीसीएल प्रबंधक से कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन भी दोनों राजनैतिक दलों के क्रिया कलापों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है. सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थकों ने जहां पत्र लिखकर नियोजन की मांग की है और नहीं देने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही है. वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने भी अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी है कि जब तक बीसीसीएल प्रबंधन स्थानीय रैयतों ग्रामीणों और विस्थापितों को उचित मुआवजा, नियोजन और मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करती, तब तक एक ईट भी जोड़ने नहीं दिया जाएगा. जब तक प्रबंधन ग्रामीण, रैयत, विस्थापितों को उनका हक नहीं देता है, तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा. स्थानीय रैयतों के बीच चर्चा बाजार जोरों पर है कि हस्तक्षेप केवल एक सांसद की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है. अब देखना यह होगा कि दो राजनैतिक दलों के दिग्गज कब एक साथ एक मंच पर आकर एक साथ रैयतों ग्रामीणों और विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे. यदि ऐसा नहीं होता है तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा नुकसान उन स्थानीय ग्रामीणों और रैयतों को होगा, जिनके सामने एक ओर पुनर्वास और रोजगार का आश्वासन है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक खींचतान की आग में इनकी उम्मीदें जलती रहेंगी. यदि ऐसी परिस्थितियां बनी रहीं तो न केवल हिलटॉप परियोजना का भविष्य अधर में रहेगा, बल्कि गिरिडीह जैसे संसाधन संपन्न क्षेत्र में कोई भी कंपनी निवेश करने से कतराएगी.

सीएम का संदेश हर युवा तक पहुंचाएंगे : सोरेन

महुदा/दुगदा (शुभम संदेश)। झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित सोरेन के दुग्दा आने पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित सोरेन ने अमर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दुग्दा क्षेत्र में दौर प्रारंभ किया. युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के साथ दौरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंद्रपुरा प्रखंड उपाध्यक्ष विजय मांझी, सदानंद मंडल, चंद्रशेखर मंडल, पूर्व मुखिया हीरालाल टुडू समेत युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे. दुग्दा परसाडीह गांव में बैठक के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा बोकारो के जिला अध्यक्ष अमित सोरेन ने कहा कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद पूरे बोकारो जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदेश को हर युवा तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं. युवा मोर्चा के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के नीति और सिद्धांतों से जोड़ने का काम करेंगे.

न्यूज अपडेट

हिंद होटल के संचालक के साथ मारपीट

महुदा (शुभम संदेश)। महुदा मोड़ स्थित हिंद होटल में शनिवार की रात भुरूंगिया 64 क्वार्टर निवासी विकास कुमार दास ने अपने 5 - 6 साथियों के साथ मिलकर होटल संचालक कामेश्वर सिंह के साथ मारपीट की. विवाद में संचालक आंशिक रुप से घायल हो गए. इस घटना को लेकर कामेश्वर सिंह ने रविवार को महुदा थाना में लिखित शिकायत देकर विकास कुमार दास एवं उनके 5-6 अज्ञात दोस्तो पर होटल में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने का आरोप लगाया है. आवेदन में बताया है कि शनिवार की रात विकास कुमार दास अपने दोस्तों के साथ मिलकर होटल में आए और खाना खाकर व शराब पीकर जाने लगे. जब बिल भुगतान करने को कहा गया तो वह कैश काउंटर पहुंचकर धमकी देते हुए 25 हजार रुपये रंगदारी देने की मांग की. साथ ही काउंटर में हाथ लगाकर रुपये उठाने लगा. जब मना किया तो उसने लोहे के हथियार से माथे पर हमला कर दिया और उसके साथियों मारपीट की. उनके पॉकेट में रखे दो हजार रुपये भी छीन लिया, जाते-जाते उन लोगों ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने का धमकी भी दी. आवेदन में बताया है कि विकास कुमार दास पर कई अपराधिक मामला न्यायलय में चल रहा है. उस पर कड़ी कानूनी कारवाई की मांग की है. इस संबंध में थाना प्रभारी देवानंद प्रसाद ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच पड़ताल कर कानूनी कारवाई करेंगे.

एकड़ा जोरिया में गिरा डोजर, चालक घायल

लोयाबाद (शुभम संदेश)। रविवार को सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी गोपालीचक की ओर संकरा रास्ते को चौड़ीकरण के दौरान डोजर एकड़ा जोरिया नदी में गिर गया घटना में डोजर चालक संजय रॉय गम्भीर रूप से घायल हो गया. डोजर को पलटते देखकर आसपास के लोग घटना स्थल की ओर जाकर डोजर चालक को उठाकर करकेन्द सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र ले जाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद शहिद शक्तिनाथ मेमोरियल मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डोजर चालक रास्ते में गोपालीचक आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर जाने वाले रास्ता का चौड़ीकरण कर रहा था और जैसे ही डोजर नदी के किनारे वाले भाग में गया. गाडी की वजन से नदी के किनारे वाला भाग टूट गया और डोजर नदी में पलट गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुटकी पुलिस एकड़ा पुल तक पहुंची लेकिन घटना की जानकारी लेना मुनासिब नहीं समझा. गश्ती वैन घुमाकर वहां से चलते बने, फिलहाल कंपनी के पीसी मशीन के द्वारा नदी में गिरे डोजर को निकालने का प्रयास किया जा रहा था.

आउट सोर्सिंग कंपनी के रास्ते को चौड़ा करने के दौरान हादसा

ठनका गिरने से तीन मवेशी की मौत

महुदा (शुभम संदेश)। पाथरगड़िया बस्ती में रविवार संध्या बिजली गिरने से तीन मवेशीयों की मौत हो गयी. मवेशी मालिक गोपाल महतो ने बताया कि गांव के पीछे खेत में तीनों मवेशी घास चर रहे थे. हल्की वर्षा हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी. अचानक ठनका गिरा और मवेशी जमीन पर गिर पड़े और उसकी मौत हो गयी. गोपाल महतो ने बताया कि इस मवेशियों के सहारे खेती करते थे. तीनों मृत पशुओं की कीमत एक लाख से अधिक है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में हुए क्षति का मुआवजा के लिए अंचल अधिकारी बाघमारा से आवेदन देकर सहयोग की मांग करेंगे.

तिलाबनी और मुर्गाबनी गांव के विवाद पर समझौता

गोविंदपुर (शुभम संदेश)। 2 जुलाई की रात करीब 9.30 बजे मुर्गाबनी गांव निवासी फरीद अंसारी की जेसीबी द्वारा तिलाबनी गांव के पूरन चंद्र दां की दरवाजे पर खड़ी बाइक को ठोकर लगने से उत्पन्न विवाद की शनिवार को दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई. कालाडाबर पंचायत सचिवालय में मुखिया पति प्राण चंद्र सोरेन की अध्यक्षता में पंचायत हुई. जिसमें दोनों गांव के अलावा अन्य पंचायतों के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया. दोनों पक्षों ने सुलाहनामा पर हस्ताक्षर किए. जिसके तहत दोनों पक्षों ने न्यायालय में सुलाहनामा देने पर सहमति जताई. पंचायती के तहत प्रथम पक्ष पूरन चंद्र दां गोविंदपुर थाना में सुलाहनामा के लिए आवेदन देंगे. उनकी ही शिकायत पर मुर्गाबनी के फरीद अंसारी समेत नौ नामजद तथा ढाई सौ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्रथम पक्ष पुरन चंद्र ने कहा की मुर्ग़बानी मुखिया अख्तर अंसारी का नाम गलतफहमी से दे दिया गया था जो की निर्दोष हैं, ग्रामीणों ने कहा विवाद में कि मुखिया जी नहीं थे. पुरन चंद्र ने जमानत के लिए भी पहल करने का भी भरोसा दिलाया. पंचायत में मैरानवाटांड़ के मुखिया विपिन दां ने कहा कि तिलाबनी के मुखिया साहेब राम हेम्ब्रम, मनीर अंसारी कालाडाबर , पूर्व मुखिया शम्सुल अंसारी कालाडाबर ,अयूब अंसारी, लधर मोदक, प्रकाश दां, नरेश दां, फटीक चंद्र दां, अब्दुल रजाक, लक्ष्मीकांत दां ,मुमताज अंसारी ,गुड्डू अंसारी , निसार आलम , शमीम अंसारी , किशोर दान , गोपी दान उज्जवल दान आदि समेत सैंकड़ों लोग बैठक शामिल थे.

पहली सोमवारी : अजमेरा से शिव भक्त हुए रवाना

चासनाला (शुभम संदेश) ।सावन की पहली सोमवारी को सुलतानगंज उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर देवनगरी बाबा धाम पद यात्रा कर जाने के लिए रविवार को पाथरडीह अजमेरा से शिव भक्त मंडली कावरियों का जत्था रवाना हुआ. पिछले 42 वर्षों से लगातार इस कांवड़ पद यात्रा का संचालन कर रही शिव भक्त मंडली कांवरियों की सेवा ही नहीं बल्कि भक्तों की सेवा और समर्पण का एक उदाहरण भी है. मंडली आर्थिक रूप से कमजोर कांवरिया भक्तों के लिए सहयोग करती है और उसे भी देव नगरी बाबा धाम तक जलाभिषेक करने के लिए पहुचांती है. शिव भक्त मंडली देवघर कांवरियां पदयात्रा के रस्ते में जगह-जगह रुककर बाबा नगरी जाने वाले कांवरियां भक्तों को निःशुल्क शर्बत, चाय,नींबू पानी आदि पिलाती है. मंडली में मुख्य रूप से कल्लू राठी, विन्देश्वर सिंह,,राम अयोध्या पांडेय,लालू मास्टर,गणेश विश्वकर्मा, उत्तम भगत, डॉ अशोक शर्मा, अजय कुमार सिंह,राजेश अग्रवाल, जेपी यादव, राजेश वर्मा,जे पी अग्रवाल,संजय अग्रवाल,मुन्ना तिवारी,आदि सक्रिय सदस्य हैं.

पर्यावरण संरक्षण पर मायुमं का अभियान

झरिया (शुभम संदेश)। रविवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के निर्देशानुसार 13 जुलाई से 31 जुलाई तक देशभर में ₹पर्यावरण माह - 2025₹ का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में मारवाड़ी युवा मंच, झरिया शाखा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर डिजिटल माध्यमों के जरिए जन-जागरूकता फैलाने की दिशा में एक अनोखी पहल की है.षकार्यक्रम संयोजक मयंक केजरीवाल ने बताया कि इस वर्ष शाखा का उद्देश्य है हर सदस्य बने एमवाईएम ग्रीन मित्र, इसके अंतर्गत अनेक ऑनलाइन अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें सदस्य, उनके परिवारजन और आम नागरिक भी भागीदारी कर सकते हैं. अभियान के तहत ₹एक सदस्य - एक वृक्ष₹ चलाना है. हर सदस्य कम से कम एक फलदार पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेगा. पौधारोपण करते समय ली गई सेल्फी को वाट्सएप के माध्यम से कार्यक्रम संयोजक को भेजें एवं सोशल मीडिया पर #एमवाईएम ग्रीनमित्र हैशटैग के साथ साझा करना अनिवार्य है. पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड का उपयोग भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. हरियाली से जुड़ी क्रिएटिव सेल्फी भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

ब्रीफ खबरें

तेतुलमारी में वाद-विवाद प्रतियोगिता

तेतुलमारी । रविवार को ज्ञान वाटिका लाइब्रेरी में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. डिग्री या कौशल पर आधारित प्रतियोगिता को दो समूहों में बंटे प्रतिभागियों ने क्रमशः 'कौशल' और 'डिग्री' के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए. कार्यक्रम में नेहरू महिला महाविद्यालय, तेतुलमारी के प्रवक्ता यदुनाथ सिंह चौधरी, सहायक शिक्षक धीरज कुमार रवानी व पंकज कुमार साव मुख्य अतिथि रहे. मुख्य अतिथियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए ज्ञान और कौशल के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञान वाटिका लाइब्रेरी के निदेशक हिमांशु चन्द्रवंशी ने की. उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि "वाद-विवाद केवल तर्क का मंच नहीं, बल्कि विचारों के मंथन का माध्यम है.

बीसीकेयू नेता मिथिलेश सिंह को दी श्रद्धांजलि

निरसा बाजार । मुगमा मोड़ भाकपा-माले पार्टी कार्यालय में रविवार को एगायारकुंड कमिटी की ओर से बिहार कोलियरी कामगार यूनियन की केंद्रीय अध्यक्ष सह सीटू के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता एग्यारकुंड प्रखंड सचिव सह जिप सदस्य बादल चंद्र वाउरी ने की. माले राज्य कमेटी सदस्य सह निरसा विधानसभा संयोजक आगम राम ने कहा कि मिथिलेश सिंह एक सच्चे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे. उन्होंने अपना सारा जीवन मजदूरों के लिए संघर्ष में समर्पित कर दिया. रामगढ़ और हजारीबाग के क्षेत्र में संगठन का विस्तार करने में महति भूमिका निभाई. वह वामपंथी एकता के समर्थक थे. श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में आगम राम, बादल चंद्र वाउरी, श्रीकांत सिंह, मनोरंजन मलिक, राम जी यादव, रोशन मिश्रा कृष्ण सिंह, जगदीश शर्मा, आशानंद सिंह, विनय सिंह, धर्मेंद्र साव, राजेश यादव, कृष्णा यादव, असीम घोष, विश्वनाथ वाउरी, अभय प्रसाद सिंह, जय राजवंशी, मधुसूदन दास, एमडी रब्बानी, सत्येंद्र चौहान, मालती देवी आदि थे.

सहायक अध्यापक के स्वजनों से मिले विक्रम

टुंडी। टुंडी के पूर्व मुखिया पति सह सहायक अध्यापक अशोक माहरा के असामयिक मौत की खबर सुनकर टुंडी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता विक्रम पाण्डेय टुंडी परसाटांड गांव पहुंचे व मृतक की पत्नी नेमिया देवी व शोक-संतप्त स्वजनों से मिलकर ढांढस बंधाया. इसके बाद विक्रम पाण्डेय पश्चिमी टुंडी मनियाडीह थाना क्षेत्र के झिनाकी गांव पहुंचे व सड़क दुघर्टना में मारे गए समर राय के स्वजनों से मिलकर ढांढस बंधाया व आर्थिक मदद दी.

खरखरी में मिथलेश सिंह को दी श्रद्धांजलि

मधुबन। रविवार को खरखरी में शोकशभा का आयोजन कर मिथलेश सिह को श्रद्धांजलि दी गई. इस अवसर पर शेख रहीम ने कहा कि मिथलेश सिंह बीसीयूके के केन्द्रीय अध्यक्ष सह सीआईटीयू के झारखण्ड प्रदेश अध्यक्ष के साथ झारखण्ड अलग राज्य के लिए आन्दोलन के सिपाही थे. सभा में शेख अनवर, रामानुज हरिजन, रंजीत कुर्मी, याकुव अन्सारी, शेख सिद्दीक, मोहन रवानी, मो ताजमुल, संजय चोहान, शेख अली हुसैन मौजूद थे.

सिनीडीह कांटा घर के पास लगे ट्रांसफार्मर का क्वॉयल ले गए चोर

क्वॉयल के साथ कीमती कलपुर्जों की चोरी, पुलिस की सक्रियता पर सवाल

शुभम संदेश। मधुबन

मधुबन थाना क्षेत्र के सिनीडीह कांटा के समीप स्थित संस्कृति भवन के पास चोरी वारदात को अंजाम देकर चोरों ने मधुबन पुलिस को खुली चुनौती दी है. शनिवार देर रात को अपराधियों के दल ने संस्कृतिक भवन के समीप स्थित ट्रांसफार्मर रूम में सेंधमारी कर केबल व ट्रांसफार्मर क्वायल सहित कीमती कलपुर्जो चोरी कर ली है. जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है. चोरों ने घटना को पूरी दिलेरी से अंजाम दिया है, जैसे चोरों के मन में जैसे पुलिस का खौफ ही नहीं हो. चोरों ने निर्भीक होकर बड़े आराम से ट्रांसफार्मर के ढक्कन को खोल ट्रांसफार्मर के अंदर के तेल को जमीन पर बहा दिया. ट्रांसफार्मर के अंदर से कॉपर का सारा क्वायल बाहर निकाल कर काटा और लेकर चलते बने. इसके साथ जुड़ा हुआ लगभग 60 से 70 फीट कॉपर का केबल भी काट कर ले गए हैं. चोरों ने लगभग तीन से चार घंटे तक केबल, क्वायल,कलपुर्जो को काटा और समेटा. हैरान करने वाली बात ये है कि आसपास के लोगों को या बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी. घटना की जानकारी सुबह में कर्मचारियों तब हुई जब आस पास के लोग बिजली बहाल कराने के लिए ट्रांसफार्मर रूम पहुंचे. तब कर्मचारियों ने इसकी सूचना बीसीसीएल के अधिकारियों को दी. तब सीआईएसएफ की टीम ने आकर उक्त स्थान का जायजा लिया. बीसीसीएल द्वारा लगाए गए इस ट्रांसफॉर्मर से सिनीडीह, हनुमाननगर, प्रेमनगर, बिलबेड़ा आदि जगहों पर बिजली की आपूर्ति की जाती है. चोरी की घटना के बाद से इलाके में विद्युतापूर्ति पूरी तरह ठप है. कंपनी की ओर से अभी तक किसी तरह का कदम नहीं उठाए जाने से लोगों में रोष व्याप्त है. मधुबन थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया घटना की सूचना मोबाइल द्वारा मिली है, चोरी गए सामान की बरामदगी के लिए पुलिस अपना काम कर रही है.

30 छात्राओं को अग्रतर पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप

शुभम संदेश। टुंडी

डायमंडस् ऑफ टुंडी संघ के अध्यक्ष नव कुमार श्रीजेश एवं उनकी टीम द्वारा टुंडी के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को आईआईटी आईएसएम धनबाद के गोल्डन जुबली हॉल में 3000 स्कॉलरशिप, एंड्राइड फोन एवं फिजिक्स वाला का आईडी सहयोगी संस्थान प्रकाश फाउंडेशन के तत्वाधान में दिया गया. डॉट्स और प्रकाश फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से टुंडी प्रखंड के लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने में काफी मदद मिली है. टुंडी से संस्कृति,शकीरा जन्नत, आकांक्षा, सोनम,पूनम, प्रिया , खुशी, प्राची, रिया मंडल ,प्रीति, अनुराधा, ,सुषमा टुडू समेत जिला के 30 छात्राओं को अग्रतर पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान किया गया. वैसे बालिकाएं जिनका मैट्रिक में 85% अंक प्राप्त हुआ हो और जो साइंस लेकर पढ़ना चाहती हो, उन्हें ही ये प्रदान किया जाता है. इसके साथ ही डॉट संघ द्वारा मेरा युवा भारत के विभिन्न कार्यक्रमों से युवाओं के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है.

गौरव बने झारखंड पैरा स्पोर्ट्स के सचिव

- निरसा के पूर्व दिव्यांग खिलाड़ी हैं कुमार गौरव

शुभम संदेश। निरसा बाजार

बेंगलुरु पैरालंपिक समिति ऑफ इंडिया (पीसीआई) की वार्षिक आम सभा रमैया रिचमंड होटल में हुई. इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के पैरा खेल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष जटा शंकर चौधरी, (सेवानिवृत भा०प्र०से०) अध्यक्ष – झारखंड पैरा स्पोर्ट्स तथा निरसा के कुमार गौरव, (पूर्व दिव्यांग खिलाड़ी) सचिव, झारखंड पैरा स्पोर्ट्स समिति भी उपस्थित रहे. बैठक की अध्यक्षता पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने की. इस अवसर पर पीसीआई के महासचिव जयवंत जीएच, कोषाध्यक्ष सुनील प्रधान, सत्यनारायण – मुख्य संरक्षक एवं चेयरमैन (पारा एथलेटिक्स), और देशभर के राज्यों के प्रतिनिधियों एवं राष्ट्रीय पैरा खेल महासंघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. जिससे यह बैठक समावेशी एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाली बनी. उक्त बैठक में निरसा क्षेत्र के पूर्व दिव्यांग खिलाड़ी कुमार गौरव जो नवनिर्वाचित सचिव चुने गए उनके द्वारा झारखंड को आगामी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपे जाने का प्रस्ताव दिया और बिहार के साथ संयुक्त आयोजन मॉडल की वकालत की.

बड़े पैमाने पर बेलगड़िया टाउनशिप में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का डीसी ने दिया निर्देश

बेलगड़िया में बनेंगे तीन नए आंगनबाड़ी केंद्र

शुभम संदेश। धनबाद

उपयुक्त आदित्य रंजन ने झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए)द्वारा निर्मित बेलगड़िया टाउनशिप का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप अंतर्गत जेआरडीए के कार्यालय निर्माण, नया प्राथमिक विद्यालय झरिया विहार बेलगड़िया स्वास्थ्य उप केंद्र बेलगड़िया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय छाताटांड़ बेलगड़िया, आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया टाउनशिप अंतर्गत निर्मित तालाब, पार्क निर्माण के लिए चिह्नित भूमि, बड़े स्तर पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने के लिए चिह्नित भूमि समेत अन्य परिसर का निरीक्षण किया.

विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने भवन प्रमंडल को विद्यालय के बाउंड्री वॉल निर्माण, असेंबली स्टेज बनाने, किचन कम डाइनिंग शेड निर्माण, पूरे विद्यालय की मरम्मती, शौचालय निर्माण, पानी की बेहतर सुविधा समेत अन्य कार्य का प्रीमियम एस्टीमेट तैयार करने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो विद्यालय का रिनोवेशन उत्कृष्ट हो. वहीं स्वास्थ्य उप केंद्र के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य उपकेंद्र की बिल्डिंग को नए स्तर से बनाने, जिसमें डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध हो और एएनएम और सीएचओ की भी नियुक्ति किया जा सके ऐसी आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए निर्देशित किया. वही बेलगड़िया टाउनशिप स्थित तालाब के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने तालाब के जीर्णोद्धार कार्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बेलगड़िया के निवासियों के लिए आजीविका का इस तालाब में मछली पालन के उद्देश्य से कार्य करने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए. साथ ही उपायुक्त ने आरएसपी कॉलेज के रिनोवेशन कार्य के लिए भवन प्रमंडल के अभियंता को दिशा निर्देश दिए. इसके अलावा उपायुक्त ने बेलगड़िया टाउनशिप अंतर्गत तीन आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग बनाने को कहा। साथ ही उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने एवं आवासीय व्यवस्था का भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बेलगड़िया टाउनशिप अंतर्गत निर्मित पार्क के सौंदर्यकरण का भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन के अलावा जेआरडीए की पूरी टीम, डीएमएफटी की टीम, बिल्डिंग डिविजन की टीम समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

मेला ड्यूटी में तैनात सभी सरकारी कर्मचारी श्रद्धालुओं से कर रहे मित्रवत व्यवहार

श्रावणी मेला : बासुकिनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब

शुभम संदेश। दुमका

राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2025 के तीसरे दिन रविवार को बाबा बासुकिनाथ के फौजदारी दरबार में पूजा-अर्चना के लिए देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह ढाई बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर प्रशासन द्वारा वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में बाबा मंदिर और अन्य मंदिरों के पट खोले गए. प्रतिदिन की तरह रविवार को भी बाबा मंदिर के गर्भगृह की साफ-सफाई के बाद स्थानीय नगर निवासियों सहित पंडा-पुरोहितों ने कांचा जल की प्रथम पूजा में भाग लेकर बाबा बासुकिनाथ को जलार्पण किया. कांचा जल पूजा के बाद सरकारी

पूजा संपन्न हुई. सरकारी पूजा के बाद, मंदिर परिसर के बाहर कतार में खड़े श्रद्धालुओं ने सुलभ तरीके से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और स्पर्श पूजा कर अपने परिजनों के सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा. श्रद्धालुओं के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा. बाबा बासुकिनाथ का प्रांगण श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे आरती के स्वर लहरियों से भक्तिमय हो उठा. कपूर और अगरबत्ती से उठती सुगंध से सारा माहौल आध्यात्मिक प्रतीत हो रहा है. शिवनगरी बासुकिनाथ का संपूर्ण मेला क्षेत्र कांवरियों से पट गया है. जिला प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा संपूर्ण मेला क्षेत्र पर सूक्ष्मता से नजर रखी जा रही है. पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए साढ़े सात सौ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके अतिरिक्त, एआई कैमरे और ड्रोन कैमरों से भी मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. आगंतुक हजारों श्रद्धालुओं को सावन के महीने में कोई कष्ट और परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है. बासुकिनाथ श्रावणी मेला में ड्यूटी पर तैनात सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा आगंतुक श्रद्धालुओं के साथ मित्रवत व्यवहार किया जा रहा है. बासुकिनाथ के श्रावणी मेला में आगंतुक श्रद्धालुओं को प्रशासनिक स्तर पर सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है.

प्रोफेसर कॉलोनी में घर से लाखों के जेवर, नकदी और लैपटॉप चोरी

शुभम संदेश। साहिबगंज

बरहरवा थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित एक बंद घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपये मूल्य के आभूषण, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर हाथ साफ कर दिया. इस संबंध में बरहरवा प्रोफेसर कॉलोनी निवासी आलोक आनंद (पिता वीरेंद्र कुमार, सीएससी जिला कोऑर्डिनेटर, साहिबगंज) ने थाना में आवेदन दिया है. उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को वह पूरे परिवार के साथ एक बैठक में शामिल होने रांची गए हुए थे. रविवार सुबह लौटने पर जब उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा खोला और अंदर गए, तो देखा कि तीनों कमरे पूरी तरह खुले पड़े थे और गोदरेज लॉकर टूटे हुए थे.

रसोई के पास जाकर देखा तो घर के पीछे की खिड़की का रॉड कटा हुआ मिला, जिससे अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश किया था. चोरों ने विभिन्न कमरों से 15,000 रुपये नकद के साथ-साथ दो लैपटॉप और जेवरात चुरा लिए. चोरी हुए जेवरात में सोने की 2 अंगूठी, 1 नथ, 1 मानटीका, चाँदी के 4 जोड़े पायल, चाँदी का 1 ओम लॉकेट, लाल मोती पत्थर पर सोने की 1 माला, कान के सोने के 1 जोड़े टॉप, चाँदी की 2 जोड़े बिछिया, चाँदी के 2 मठिया और सोने की नाक की 1 नथ शामिल हैं. आलोक आनंद ने तत्काल इसकी जानकारी बरहरवा थाना पुलिस को दी.

ब्रीफ खबरें

फंदे से झूलता मिला युवक का शव

गोड्डा। महागामा थाना क्षेत्र के हुंडरा गांव में रविवार को एक युवक का शव महुआ पेड़ से फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया है. मृतक की पहचान बसंतराय थाना क्षेत्र के अमरपुर रनसी गांव निवासी किशोर पासी (21) के रूप में हुई है. किशोर की तीन माह पूर्व हुंडरा गांव की जितनी कुमारी से लव मैरिज हुई थी. बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही दोनों परिवारों में तनाव था. रविवार सुबह किशोर का शव गांव से करीब 500 मीटर दूर सड़क किनारे पेड़ से लटका मिला. सूचना पर मौके पर पहुंचे स्वजनों ने लड़की पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया. मौके पर दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी भी हुई. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. महागामा थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी. फिलहाल मामला संदिग्ध बना हुआ है.

विद्यासागर पब्लिक स्कूल में बच्चों ने लगाए पौधे

जमुआ (गिरिडीह)। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के चोरपोको स्थित विद्यासागर पब्लिक स्कूल में रविवार को एक पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में सभी छात्र-छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया और स्कूल परिसर में पौधे लगाए. प्रधानाचार्य ने बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूक किया. उन्होंने कहा कि हर त्योहार पर एक पेड़ लगाएँ, इससे प्रकृति को बचाया जा सकता है. उन्होंने बच्चों को पर्यावरण से जुड़ी जरूरी बातें भी बताईं और उन्हें पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया.

ट्रांसफार्मर बदले जाने से ग्रामीणों में हर्ष

जमुआ (गिरिडीह)। कई महीनों से विद्युत आपूर्ति से परेशान भंडारों के ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर जमुआ प्रमुख से मुलाकात की थी. प्रमुख की पहल पर, रविवार को प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव के प्रयास से जला हुआ ट्रांसफार्मर बदल दिया गया. प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव ने विधिवत इसका उद्घाटन किया. इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि पंकज यादव, पंचायत समिति जितनी देवी, पूर्व पंचायत समिति कुलदीप शरण, सच्चिदानंद कुमार, रवि यादव, श्यामसुंदर वर्मा, जितेंद्र कुमार सिंह, अजीत साव, अमित कुमार वर्मा, आनंद सहित कई लोग उपस्थित रहे.

बाइक चोर गिरोह का खुलासा

4 शातिर गिरफ्तार, 13 बरामद

धनबाद के गोंदूडीह से 6 और बोकारो से 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई

शुभम संदेश। बोकारो

पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त चार चोरों को दबोचा है और उनके पास से 13 मोटरसाइकिलें बरामद की है. अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है. इस संबंध में हरला थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी आलोक रंजन ने जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बोकारो शहरी क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह सक्रिय है. इस सूचना के आलोक में 12/13 जुलाई, 2025 की रात को वाहन जांच करने के लिए सभी शहरी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया, जिसके पश्चात पुलिस उपाधीक्षक नगर के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया. गठित टीम द्वारा सेक्टर 09 बसंती मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान रात करीब 12:10 बजे एक मोटरसाइकिल सेक्टर 04 से बसंती मोड़ की तरफ आती दिखी. पुलिस बल ने रुकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार वापस घूमकर भागने लगा, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ में पता चला कि वे चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहे थे. पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनके और उनके साथियों द्वारा पहले शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कई मोटरसाइकिलें चोरी की गई है और विभिन्न स्थानों पर बेची गई है. अविनाश कुमार पाण्डेय, प्रकाश कुमार घासी उर्फ साबुमा और अंकित कुमार उर्फ चंगु के पास से बरामद मोटरसाइकिलें विधिवत जब्त कर ली गई. पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की गई अन्य छह (06) मोटरसाइकिलें धनबाद के गोंदुडीह ओ.पी. क्षेत्र से बरामद की गईं. इस संबंध में हरला थाना में मामला दर्ज किया गया है. पकड़े गये अपराधियों के पास से तीन हीरो कंपनी की मोटरसाइकिलें, एक बजाज कंपनी की पल्सर मोटरसाइकिल, दो होंडा कंपनी की मोटरसाइकिलें, और एक हीरो होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल (कुल 07 मोटरसाइकिलें) और तीन (03) मोबाइल फोन जब्त किए गए. छापामारी दल में थाना प्रभारी अनिल कच्छप (हरला थाना), थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास (बी.एस. सिटी थाना), थाना प्रभारी संजय कुमार (सेक्टर 04 थाना), थाना प्रभारी संगीता कुमारी (सेक्टर 06 थाना), पु.अ.नि. अमरजीत कुमार, पु.अ.नि. मनीष कुमार गुप्ता, पु.अ.नि. सहदेव कुमार साव, पु.अ.नि. मो. मोजम्मिल, आरक्षी नरेश मंडल, आरक्षी राजेश सिंह, आरक्षी रविंद्र कुमार, चालक आरक्षी मुनसार अहमद और चालक हवलदार परमानंद मंडल शामिल थे.

कार से गांजा - शराब बरामद, दो गिरफ्तार

बोकारो। पुलिस ने छापेमारी कर एक कार से अवैध गांजा और शराब बरामद की है और इस संबंध में दो लोगों को जेल भेज दिया है. बोकारो स्टील सिटी थाना अंतर्गत एल.एच. कॉलोनी से एक व्यक्ति अपनी कार में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब और गांजा लेकर बेचने जा रहा था. सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने पुलिस उपाधीक्षक नगर, बोकारो, आलोक रंजन के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया. छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रथम दुगल गेट के पास एक नेक्सन कार से करीब 9 किलोग्राम गांजा और काफी मात्रा में शराब बरामद की, साथ ही अनिल यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. अनिल यादव से पूछताछ करने पर उसने बताया कि बरामद गांजा उसे मिथलेश यादव नामक व्यक्ति ने बेचने के लिए दिया था. अनिल यादव के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर, चास थाना अंतर्गत प्रभात कॉलोनी से मिथलेश यादव को गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर पिंकू उर्फ टिंकू उर्फ सुनील महतो के किराए के मकान से कुल 9 किलोग्राम गांजा और बरामद किया गया. इस संबंध में बी.एस. सिटी थाना में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में अनिल यादव (उम्र 41 वर्ष, पिता दयानाथ सिंह, साकिन एल.एच. मोड़ सोनाटांड, थाना बी.एस. सिटी) और मिथलेश यादव (उम्र 38 वर्ष, पिता हुलास यादव, साकिन मुंगेरी खटाल एल.एच., थाना बी.एस. सिटी, जिला बोकारो) को जेल भेज दिया गया.

सड़क निर्माण में गड़बड़ी से ग्रामीण नाराज, काम रोका

शुभम संदेश। कसमार (बोकारो)

कसमार प्रखंड में कैरा झरना से केदला तक निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता में अनियमितताओं और आधी रात को काम कराए जाने से नाराज ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोक दिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि शनिवार रात करीब 10 बजे सड़क की पिचिंग दो इंच की बजाय एक इंच से भी कम की जा रही थी. उन्होंने सवाल उठाया कि ठीकेदार अंधेरे में जल्दबाजी में काम क्यों कर रहा है और यदि मजदूरों पर जंगली जानवरों का हमला होता तो कौन जिम्मेदार होता? ग्रामीण आनंद महतो और नितेश करमाली ने कहा कि वे सड़क निर्माण चाहते हैं, लेकिन यह अभियंता की देखरेख में गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क पर ठीक से बोल्डर नहीं बिछाए गए, रोलर नहीं चला और केवल डस्ट डालकर पिचिंग की जा रही है. पहले हुए पीसीसी (कंक्रीट) कार्य में भी दरारें आ चुकी है और 4 महीने पुरानी एक पुलिया में भी दरार पड़ गई है. इसके अलावा, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह निर्माण कार्य वन भूमि पर बिना एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि स्थानीय वनकर्मी ठाकुरदास महतो ने भी की. कार्यस्थल पर योजना का शिलापट्ट भी नहीं लगाया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है.

डीएवी में 'जोहार दर्पण' की काव्य गोष्ठी

- अनमोल मोती संकलन का लोकार्पण

शुभम संदेश। बोकारो

साहित्यिक संस्था जोहार दर्पण के तत्वावधान में सोमवार, 13 जुलाई को डीएवी विद्यालय, सेक्टर-6 में 'अनमोल मोती' साझा काव्य संकलन का लोकार्पण सह काव्य गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई. मंच के संस्थापक पंकज कुमार दास ने अतिथियों और उपस्थित साहित्यकारों का स्वागत किया. अंत्रिका सिंह ने भावपूर्ण सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, वहीं झुमा चक्रवर्ती ने स्वागत गान से वातावरण को मधुरता से भर दिया. कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. संध्या रानी ने किया.

'अनमोल मोती' का लोकार्पण और कवि सम्मेलन : इस आयोजन में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए साहित्यकारों ने अपनी सशक्त और

भावपूर्ण रचनाओं की प्रस्तुति से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया. 'अनमोल मोती' संकलन का लोकार्पण मुख्य अतिथि महेंद्र नाथ गोस्वामी 'सुधाकर', विशिष्ट अतिथि अनुराधा सिंह, विनय कुमार उपाध्याय 'विद्रूप', शांति भारत, वासु बिहारी और सुकुमार की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ. काव्य पाठ सत्र में अंत्रिका सिंह, कविता साव, संध्या रानी, स्मिता, मीत जरमस्तपुरी, संजय हजारीबागी, सुप्रिया रश्मि, नीलम झा, रजत नाथ, सरोज झा झारखंडी, पूजा शाहनी, श्यामल मुंशी, अभय नंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉ. मुकुंद रविदास, अमर कुमार प्रमाणिक, भोला सागर, विशाल पंडित, पूर्णिमा सुमन, सोनम झा, लुकेश्वर साहु, सविता धर, श्याम सुंदर केवट रवि और अंकित उपाध्याय ने अपनी-अपनी रचनाओं से कार्यक्रम को जीवंतता प्रदान की. सभी कवियों की प्रस्तुतियों में समाज की संवेदनाएँ, जीवन की विविध रंगतें और मानवीय रिश्तों की गहराई मुखरित हुई. कार्यक्रम के अंत में जोहार दर्पण की ओर से सभी साहित्य साधकों का आभार प्रकट किया गया.

न्यूज अपडेट

रेलवे पटरी पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, चालक गिरफ्तार

साहिबगंज (शुभम संदेश)। जिले के मंडरो में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया. यहाँ रविवार सुबह रेल पटरी पर एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, जिसके कारण ट्रेन की आवाजाही बाधित हो गई. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. जानकारी के अनुसार, मंडरो के मिर्ज़ाचौकी रेलवे फाटक पर रविवार सुबह 8:25 बजे दक्षिण दिशा से आ रहे डस्ट से लदे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई. इस घटना के कारण मिर्ज़ाचौकी रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी मालदा-जमालपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब 45 मिनट तक बाधित रही. ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र कुमार यादव को मिर्ज़ाचौकी आरपीएफ ने हिरासत में ले लिया. आरोपी चालक को मिर्ज़ाचौकी स्टेशन लाया गया, जहाँ पुलिस ने उससे पूछताछ की और फिर उसे साहिबगंज जेल भेजने की बात कही. इधर, स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि मिर्ज़ाचौकी स्टेशन में मालदा-जमालपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जिसे करीब 45 मिनट तक रोका गया. इस दौरान रेलवे फाटक के बीच पलटी ट्रॉली और उससे गिरे मलबे को रेलवे कर्मचारियों द्वारा हटवाया गया. इसके बाद रेलवे पटरी पर ट्रेन का आवागमन सुचारु रूप से संचालित किया गया. इस बीच थोड़ी देर के लिए यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

कुम्हरजोरी में सड़क, पानी की समस्या जस की तस

बोरियो (शुभम संदेश)। प्रखंड क्षेत्र के जेटके कुम्हरजोरी पहाड़िया टोला के ग्रामीणों ने सड़क और पानी की समस्या से निजात पाने के लिए डीसी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक आदिम जनजातियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है. ज्ञात हो कि पिछले साल दिसंबर महीने में ग्राम प्रधान की अगुवाई में ग्रामीणों ने डीसी को मांग पत्र सौंपा था. उसमें बताया गया था कि जेटके कुम्हरजोरी पंचायत भवन से लेकर ग्राम प्रधान विनोद पहाड़िया के घर तक पीसीसी सड़क और पानी टंकी का निर्माण कराया जाए. लगभग दो किलोमीटर तक कच्ची सड़क होने की वजह से ग्रामीणों को आए दिन काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर बरसात के मौसम में यह कच्ची सड़क कीचड़मय हो जाती है. पक्की सड़क न होने की वजह से गांव में चार पहिया वाहन प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिस कारण गर्भवती महिलाओं व बीमार मरीजों को अस्पताल लाने व ले जाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है.

विधायक ने नगर विकास सचिव को लिखा पत्र

बोकारो (शुभम संदेश)। चास नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त जल जमाव की गंभीर समस्या को लेकर विधायक श्वेता सिंह ने सचिव, नगर विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया है. विधायक ने जल जमाव से राहत के लिए तात्कालिक निधि प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है. विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी वर्षा के कारण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चास नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है. यह स्थिति जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है. नालियों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई मोहल्लों में पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया है, जिससे आम नागरिकों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. विधायक ने बताया है कि उन्होंने पूर्व में भी चास नगर निगम क्षेत्र में अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम स्थापित करने हेतु आग्रह किया था, लेकिन वह अब तक कार्यान्वित नहीं हो सका है.

चास मारवाड़ी महिला समिति का सावन महोत्सव संपन्न

बोकारो (शुभम संदेश)। चास मारवाड़ी महिला समिति का सावन महोत्सव रविवार को चास धर्मशाला में धूमधाम से संपन्न हो गया. समापन दिवस का मुख्य आकर्षण टीवी सीरियल की महिला किरदार प्रतियोगिता रही. कार्यक्रम में घूमर डांस, सोलो डांस परफॉर्मेंस और ग्रुप डांस इवेंट में सभी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. महिलाओं ने विभिन्न स्टॉल्स में जमकर खरीदारी की और कई व्यंजनों का लुत्फ उठाया. समिति ने स्टॉल्स के मालिकों को सम्मानित भी किया. कार्यक्रम की एंकरिंग रश्मि जगनानी एवं विनीता खंडेलवाल ने की, जबकि जज सुभद्रा मिश्रा और कनक लता राय थीं. सभी सदस्यों को उपहार भी वितरित किए गए.

दो अंडरपास और एक फुट ओवरब्रिज को मिली मंजूरी

पोड़ैयाहाट (शुभम संदेश)। हंसडीहा से महगामा तक बन रहे फोरलेन पर पोड़ैयाहाट प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही दो अंडरपास और एक फुट ओवरब्रिज की मांग अब पूरी हो गई है. विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद यह निर्णय लिया गया. हाई-लेवल फोरलेन बनने से भटौंदा और आसपास के ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही थीं और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था. विधायक प्रदीप यादव ने फरवरी में ग्रामीणों के साथ धरना दिया था और प्रशासन व कंपनी को सख्त चेतावनी दी थी. उनके कड़े रुख का नतीजा यह हुआ कि प्रशासन और संबंधित विभाग ने ग्रामीणों की सभी मांगों को मान लिया है.

कृष्णा देवी के निधन पर राजपूत समाज ने जताया शोक

तलगड़िया (शुभम संदेश)। धनबाद-बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज के जोन चार, तुरीडीह महुदा निवासी स्व. जमींदार ठाकुर गणेश लाल सिंह की छोटी पुत्रवधू, नवनीप्रसाद सिंह की धर्मपत्नी और सीआरपीएफ के राणाप्रताप सिंह की माता कृष्णा देवी का शुक्रवार सुबह चार बजे बीजीएच में असमय निधन हो गया. निधन की खबर सुनते ही गांव, समाज और शुभचिंतक अस्पताल व पैतृक गांव महुदा पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की. पूरे गांव में मातम छा गया और शोक की लहर दौड़ गई. कृष्णा देवी महिलाओं में एक मिलनसार और परोपकारी स्वभाव की थीं. उनका अंतिम संस्कार दामोदर नदी के तेलमोच्चो घाट पर किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल थे.

रांगामाटी में किशोरियों के लिए फुटबॉल प्रशिक्षण कैंप

कसमार (बोकारो) (शुभम संदेश)। कसमार प्रखंड की दुर्गापुर पंचायत के रांगामाटी खेल मैदान में रविवार को किशोरियों के लिए एक दिवसीय फुटबॉल खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सहयोगिनी संस्था द्वारा किया गया. प्रशिक्षक सिमती किस्कू ने बताया कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है. मौके पर संस्था के कोऑर्डिनेटर प्रकाश कुमार महतो, दुर्गापुर पंचायत की एनिमेटर बिनीता देवी सहित मालावती कुमारी, प्रीति कुमारी, रश्मि कुमारी, सुनीता कुमारी, कुंती कुमारी, सोनिका कुमारी, मधु कुमारी, पिंकी कुमारी, सीता कुमारी, जूही कुमारी, आराध्या कुमारी, जया कुमारी और अन्य खिलाड़ी मौजूद थीं.

मजदूर नेता मिथिलेश सिंह को दी श्रद्धांजलि

बोकारो (शुभम संदेश)। भाकपा (माले) की चास कमेटी ने एक शोक सभा आयोजित कर मजदूर नेता और भाकपा (माले) झारखंड राज्य स्थायी समिति के सदस्य मिथिलेश सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. सीटू के राज्याध्यक्ष भी रहे मिथिलेश सिंह का 11 जुलाई 2025 को असामयिक निधन हो गया था, जिससे पूरा भाकपा (माले) संगठन गहरे शोक में डूब गया है. पार्टी ने उनके सम्मान में पूरे झारखंड में पार्टी झंडा झुकाने का निर्णय लिया, जिसके तहत बोकारो कार्यालय में भी झंडा झुकाया गया. शोक सभा में मिथिलेश सिंह के जीवन और उनके संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया.

बागवानी योजना प्रभावित, लंबित भुगतान बनी बाधा

- 200 एकड़ भूमि पर लगाने थे फलदार वृक्ष

शुभम संदेश। पोड़ैयाहाट

पोड़ैयाहाट प्रखंड में 200 एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने की बागवानी योजना कम बारिश और अन्य प्रशासनिक बाधाओं के कारण प्रभावित हो रही है. जुलाई के दूसरे सप्ताह तक भी एक भी पौधा नहीं लगाया जा सका है. यह योजना यदि समय पर शुरू होती तो ज्यादा कारगर साबित होती.

समय पर रोपण न होने और भुगतान में देरी का असर : मनरेगा योजना के तहत पोड़ैयाहाट प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में 200 एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष लगाए जाने हैं. हालांकि, पर्याप्त वर्षा के बावजूद, जुलाई के दूसरे सप्ताह तक एक भी पौधा नहीं लगाया गया है. आमतौर पर, बरसात से पहले ही बागवानी योजना को लेकर पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के साथ बैठक कर निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन समय पर पौधे न लगने के कारण बाद में यह योजना कारगर साबित नहीं हो पाती है और अक्सर पौधे जानवरों का शिकार बन जाते हैं. दूसरी बड़ी समस्या यह है कि मनरेगा एक्ट के तहत पंद्रह दिनों में मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, लेकिन महीनों बीत जाते हैं और भुगतान लंबित रहता है, जिससे लाभुक प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटते-काटते थक जाते हैं. मटेरियल भुगतान की बात करें तो पोड़ैयाहाट प्रखंड में करोड़ों की राशि लंबित है. यही वजह है कि लाभुक जोखिम उठाना नहीं चाहते और उन्हें मजबूरन बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है. बिचौलियों का एकमात्र लक्ष्य पूंजी लगाकर मुनाफा कमाना होता है, जो किसी से छिपा नहीं है.

वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजना

प्रखंड मनरेगा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मनरेगा योजना के तहत बिरसा ग्रामीण हरित क्रांति योजना के माध्यम से खाली पड़ी जमीन और बंजर भूमि में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 198 एकड़ जमीन पर फलदार और इमारती पौधे लगाने के लिए गड्ढा खुदाई का कार्य चल रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है. वित्तीय वर्ष 24-25 में बागवानी योजना का प्रदर्शन खराब रहा है, क्योंकि बागवानी के बाद किसान पटवन करना छोड़ देते हैं, जिससे वृक्ष सूख जाते हैं और उनके सपने टूट जाते हैं. इस वर्ष, प्रखंड प्रशासन किसानों को बागवानी के साथ-साथ पटवन के महत्व के बारे में भी जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, ताकि वे अपनी बागवानी को सफल बना सकें. बागवानी योजना का लाभ एक एकड़ जमीन में 44,94,03 रुपया की राशि से लगाया जाएगा, जिसमें ट्रेंच और वृक्ष सरकार की ओर से दिए जाते हैं.

> गड्ढा खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है. 200 एकड़ जमीन पर बागवानी योजना के तहत पौधे लगाने की स्वीकृति दी जा चुकी है. जिस एजेंसी को खाद आपूर्ति का टेंडर दिया गया है, उनके द्वारा अभी तक खाद नहीं मिला है. उनको बोला गया है कि खाद मिलते ही पौधे का वितरण लाभुकों के बीच किया जाएगा. कुछ पिछला भुगतान का मामला भी लंबित है.
>
> **संजीव कुमार, बीपीओ, पोड़ैयाहाट**

न्यूरोट्रॉमा सोसाइटी के प्रेसिडेंट का स्वागत

बोकारो। झारखंड के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. संजय कुमार को न्यूरोट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट-इलेक्ट चुने जाने पर बोकारो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उनके बोकारो आगमन पर स्वागत और सम्मान किया. चैंबर अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल डॉ. संजय की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है. मनोज चौधरी ने कहा कि अब झारखंड के डॉक्टर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं. चैंबर के पूर्व अध्यक्ष संजय बैद ने बताया कि डॉ. संजय को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं और उन्होंने कई संस्थाओं का नेतृत्व किया है या कर रहे हैं. बैद ने उम्मीद जताई कि डॉ. संजय के अनुभव का लाभ बोकारो और झारखंड वासियों को मिलेगा. कार्यक्रम का संचालन मुकेश अग्रवाल और धन्यवाद ज्ञापन अजय लूंकड़ ने दिया. चैंबर ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस अवसर पर शैलेंद्र जायसवाल, बिनय सिंह, अनूप भालोटिया, संजय राय, राजीव राय आदि उपस्थित थे.

▼ ब्रीफ खबरें

प्रा.वि. सिजुआ में चोरी का उद्भेदन, 4 गिरफ्तार

कतरास। जोगता थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सिजुआ में बीते 3 जुलाई को हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उदभेदन कर लिया है. पुलिस ने घटना में शामिल चार अपराधियों को दबोच लिया है. इसके साथ ही अपराधियों की निशानदेही पर चोरी के सामानों की भी पुलिस ने बरामदगी कर ली है. थाना प्रभारी प्रवन कुमार ने बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव काजल देवी की लिखित आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर टीम गठित कर तहकीकात शुरू किया. तकनीकी रूप से अनुसंधान के क्रम में टीम ने घटना का उदभेदन किया. गिरफ्तार अपराधियों निक्की कुमार उर्फ भकुआ, सिजुआ 02 नंबर,मुकुल कुमार उर्फ मकड़ी, टाटा सिजुआ 01 नबर,हर्ष कुमार सिंह उर्फ टिकू कुमार, सिजुआ 02 नंबर,पिंटू सिंह, सिजुआ 02 नंबर सभी थाना-जोगता,के रहने वाले हैं अपराधियों की निशानदेही पर रिकनेक्ट स्मार्ट टीवी (109 सेमी), एलजी कंपनी का एसी का आउटडोर,एलजी कंनी का एसी का कंप्रेशर बरामद किया गया है.

भारत माता को भी प्रतिभावानों की जरूरत : नकुल

- राजकमल में प्रतिभा सम्मान समारोह
- प्रतिभावान श्रेष्ठ बने उत्कृष्ट बने : विनोद कुमार तुलस्यान
- दिन रात किए गए परिश्रम का प्रतिफल है यह सम्मान : सुमंत कुमार मिश्रा

शुभम संदेश। धनबाद

रविवार को राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया ,जिसमें दसवीं और बारहवीं के वैसे भैया बहनों को सम्मानित किया गया. जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 90 और उससे अधिक अंक प्राप्त किया है. मुख्य अतिथि एवं अधिकारियों व प्राचार्य द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया इस अवसर पर भैयाओं ने स्वागत गान प्रस्तुत किए. विद्यालय के प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा ने अतिथियों का परिचय कराया एवं कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत की. कहा कि राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर राज्य और देश में अपनी पहचान का मोहताज नहीं है.आज के इस समारोह में हम वैसे भैया बहनों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्हें आगे देश चलाना है. उन्होंने यह भी कहा कि विद्या विकास समिति झारखंड के द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया, उसमें सर्वाधिक बच्चे राजकमल के ही हैं.इतना ही नहीं जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा दिए गए पुरस्कार में 10 में से पांच विद्यार्थी राजकमल के ही हैं. दिन-रात किए गए परिश्रम का प्रतिफल है यह सम्मान. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्या विकास समिति झारखंड के सचिव नकुल शर्मा ने कहा कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय नैतिकता एवं आध्यात्मिक शिक्षा देने का काम कर रही है. प्रतिभावान भैया बहनों में यह भावना सदा रहनी चाहिए कि वे विद्या भारती विद्यालय के विद्यार्थी हैं. इनमें देश बदलने की शक्ति है. भारत माता को भी प्रतिभावानों की आवश्यकता है. देश के लिए प्रतिभावान अपने को समर्पित करें तभी हमारा देश अन्य देशों से आगे रहेगा.विद्यालय के अध्यक्ष विनोद कुमार तुलस्यान ने कहा कि आप प्रतिभावान विद्यार्थी श्रेष्ठ रहे, उत्कृष्ट बनें.

10 वीं में इन्हें सम्मान : दसवीं कक्षा में 90 एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संयम शर्मा, राघव कुमार आयुष गुप्ता, शौर्य मल्लिक ,अमर कुमार सिन्हा ,अदिति प्रिया, कनिका कुमारी, श्री कुमारी ,शुभ वर्मा, मयंक कुमार, अभिज्ञान आयुष एवं सृष्टि कुमारी को सम्मानित किया गया.

12 वीं विज्ञान में इन्हें सम्मान : 12 वीं विज्ञान के विद्यार्थियों में आंचल अग्रवाल, कृति कुमारी, पिंकी कुमारी, मान्यता गुप्ता, तनीषा श्रीवास्तव, हर्षिता सिंह, अदिति दत्ता, रिया कुमारी , अतिका मरयम, शिवम कुमार, शीतल कुमारी, अर्चीसा साहू, साक्षी बर्नवाल एवं रुपाली कुमारी सम्मानित किए गए.

12 वीं वाणिज्य में इन्हें सम्मान : 12वीं वाणिज्य में चारु अग्रवाल, शीतल अग्रवाल ,पूजा कुमारी, अंशु कुमार सिंह ,श्रेया कुमारी, कृष्ण किशोर खेतान, खुशी अग्रवाल, अपूर्वा गुप्ता, ऋषभ कुमार चौधरी, यशस्वी शर्मा एवं निधि अग्रवाल को सम्मानित किया गया.द्वादश कला में अंशिका कंठ, कृति कुमारी झा, आस्था सिसोदिया, अनामिका कोनार ,निधि राज, अर्पिता बारिक, प्रियंका सिंह एवं पम्मी कुमारी को सम्मानित किया गया. अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन, आईपी, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंट्स, बी एसटी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. जिनमें मान्यता गुप्ता, तंजीला खान, सक्षम कुमार, शिवम कुमार, विनायक पांडे, कृष्ण किशोर खेतान, आंचल अग्रवाल ,हर्षिता सिंह, कृति कुमारी ,अंकित माजी ,आदित्य कुमार, सक्षम कुमार, चारु अग्रवाल, निधि अग्रवाल, पूजा कुमारी, अंशिका कंठ ,अनामिका कोनार, कृति कुमारी झा, निधि राज एवं अर्पिता बारीक के नाम शामिल हैं. विद्यालय के उपप्राचार्य मनोज कुमार, हिंदी के विभागाध्यक्ष राकेश कुमार मिश्रा, संरक्षक शंकर दयाल बुधिया ,अध्यक्ष विनोद कुमार तुलस्यान ,उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार पटनिया, सहसचिव दीपक रुइया,कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ-साथ विद्यालय समिति के सदस्य अरुणा भगानिया ,संजय मोर, सज्जन कुमार खरकिया के पी अजीत, गीता गुप्ता, हरे राम गुप्ता, प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा, उप प्राचार्य मनोज कुमार, उप प्राचार्या लीला सिंह, प्रभारी पार्थ सारथी सरकार एवं 10 वीं एवं 12वीं के कक्षाचार्य उपस्थित थे.

एसएसपी के निर्देश पर चला विशेष स्वच्छता अभियान

धनबाद (शुभम संदेश)। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देशानुसार धनबाद में पुलिस जवानों ने रविवार को स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया. इस अभियान के तहत जिले के सभी थानों, ओपी और पुलिस लाइन परिसरों में श्रमदान के माध्यम से साफ-सफाई की गई. पुलिस कर्मियों ने कार्यस्थल और आवासीय परिसरों को स्वच्छ रखने के लिए उबड़-खाबड़ व ऊँची-नीची जमीन को समतल किया. परिसर में लगे पौधों की सिंचाई, छँटाई और खरपतवार हटाने का कार्य किया गया, जिससे परिसर की सुंदरता बढ़ी. इसके अतिरिक्त, कार्यालय के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन और अभिलेखों को सुव्यवस्थित किया गया. पुलिस कर्मियों को कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखने, खिड़कियों, दरवाजों, फर्नीचर, वाहनों और अभिलेखों की नियमित देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया. यह विशेष श्रमदान अभियान प्रत्येक रविवार को जारी रहेगा, ताकि पुलिस लाइन, थाना, ओपी और आवासीय परिसर स्वच्छ व सुंदर बने रहें.

धनबाद में सावन महोत्सव की धूम

शुभम संदेश। धनबाद

धनबाद के आमंत्रण बैंक्वेट हॉल में रविवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्ज्वलन और सांस्कृतिक नृत्य के साथ उद्घाटन किया. मंडल की सभी महिला सदस्यों ने हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनकर उत्सव में चार चांद लगाए, जो सावन के पारंपरिक रंग को दर्शाता है.

सभी महिलाओं ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया. इस अवसर पर फैंसी साड़ी का स्टॉल भी लगाया गया. मुख्य अतिथियों में जया सिंह, श्वेता किनर, लक्ष्मी श्रीवास्तव, ममता झा, बबीता, रूबी बक्शी, सुष्मिता पंडित, आरती सिंह, नीलम कुमारी सहित सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थीं.

जागृति मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा

शुभम संदेश। धनबाद

जागृति मंदिर, चिरागोड़ा की मंदिर समिति द्वारा आज से चार दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ. इस पावन अवसर पर रविवार सुबह जागृति मंदिर प्रांगण से भव्य कलश यात्रा निकाली गई. यह यात्रा चिरागोड़ा, हीरापुर होते हुए पम्पू तालाब तक गई, जहां श्रद्धालुओं ने भाग लिया. कलश यात्रा में सैकड़ों लोग, विशेषकर महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए, जो पारंपरिक वेशभूषा में सजे थे. महिलाओं ने अपने सिर पर सुंदर कलश रखे, जिन पर ॐ और अन्य धार्मिक चिह्न अंकित थे, साथ ही माथे पर तिलक और हल्दी-कुमकुम से सजावट की गई थी. यात्रा के दौरान भक्ति गीतों और जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा. यह चार दिवसीय अनुष्ठान क्षेत्र में धार्मिक उत्साह को और बढ़ाने वाला है.

झारखंड में 42 प्रतिशत बांग्लाभाषी फिर भी बांग्ला में नहीं होती पढ़ाई

- झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति का राज्यव्यापी सम्मेलन
- दर्जन भर जिलों से पहुंचे प्रतिनिधि, कहा अब आंदोलन की बनेगी रणनीति

शुभम संदेश। धनबाद

झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के बैनर तले राज्यव्यापी सम्मेलन का आयोजन बलियापुर मुख्य मार्ग होटल हिल व्यू में किया गया. जिसमें प्रदेश के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, जामताड़ा साहेबगंज, पाकुड़, बोकारो , देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह एवं कोडरमा जिलों प्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम का उद्घाटन सभी बंगभाषी समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया. जिसे मुख्य रूप से पूर्व विधायक सिंदरी फूलचंद मंडल, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी से गोपाल भट्टाचार्य, साहित्यकार तपन राय , दुर्गा मंदिर रिलिजियस चैरिटेबल ट्रस्ट से बरनाली गुप्ता, लिंडसे क्लब एवं लाइब्रेरी से मनोज मजूमदार व अन्य उपस्थित थे. उद्घाटन के पश्चात गुरु सूर नृत्य संगम की छात्र-छात्राओं द्वारा बांग्ला भाषा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. समिति की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रीना मंडल ने बताया झारखंड में 42% बांग्ला भाषी होने के बावजूद भी मातृभाषा की पढ़ाई बांग्ला में नहीं हो रही है, यह सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है. जिसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं. झारखण्ड गठन के बाद प्रदेश में बांग्ला भाषा एवं संस्कृति के अस्तित्व को मिटाने का काम किया जो एक करोड़ तीस लाख बांग्लाभाषियों के भाषा-संस्कृति की भावना से खिलवाड़ है. इस राज्य सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. जिसके तहत बांग्ला भाषा को बचाने के लिए सड़क से सदन तक आन्दोलन की तैयारी की जाएगी. बांग्ला में पठन-पाठन को लागू करवाना,वर्तमान झारखण्ड सरकार द्वारा सभी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में, पठन पाठन की चुनावी घोषणा को हर हाल में लागू करना होगा.

आसनसोल

रिवरसाइड टाउनशिप में अधिकारी के बंगले में लाखों की चोरी, दहशत

- सीसीटीवी में कैद हुए चोर, जांच में जुटी पुलिस

शुभम संदेश। बर्नपुर

सेल आईएसपी के रिवरसाइड टाउनशिप स्थित एक अधिकारी के बंगले में लाखों के सोने-चांदी के जेवरात चोरी होने से यहाँ रहने वाले अधिकारियों एवं उनके परिजनों में दहशत का माहौल है. घटना के संबंध में हीरापुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में हीरापुर थाना में कांड संख्या 214/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, रिवरसाइड टाउनशिप के रोड संख्या 4 स्थित बंगला नंबर 4/32 में रहने वाले आईएसपी के एजीएम 5 जुलाई को मध्य प्रदेश स्थित अपने ससुराल गए थे. इसी बीच, 6 जुलाई की रात बंगला खाली होने का लाभ उठाकर चोरों ने ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी में रखे जेवरात एवं अन्य कीमती सामान चुरा लिए. चोरी गए सामानों में 3 सोने की चेन, 2 सोने की चूड़ियाँ, 1 सोने की अंगूठी, 2 बच्चों के सोने के लॉकेट, 3 जोड़ी चांदी की पायल, 1 सेट बच्चों के चांदी के बर्तन तथा 1 टाइटन घड़ी शामिल हैं. चोरी की कुल कीमत लगभग 7-8 लाख रुपये आंकी गई है. 8 जुलाई को संबंधित अधिकारी जब अपने बंगले पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि अलमारी टूटी हुई है और सामान बिखरा पड़ा है. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने परिचित अधिकारियों को दी. टाउनशिप में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान 5 संदिग्ध व्यक्तियों के बंगले में घुसने की पुष्टि हुई. इसके बाद संबंधित अधिकारी ने इस्को ऑफिसर्स एसोसिएशन (आईओए) के पदाधिकारियों के साथ मिलकर हीरापुर थाना में चोरी की शिकायत दर्ज कराई. इस दौरान आईओए ने पुलिस को जांच में सहयोग करते हुए चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया. साथ ही आईओए ने टाउनशिप में लगातार हो रही चोरी एवं आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस से निम्नलिखित मांगें कीं: टाउनशिप में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, टाउनशिप में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित की जाए, पुलिस एवं आईएसपी के बीच समन्वय समिति की नियमित बैठकें हों, नागरिक सुरक्षा समिति का गठन किया जाए. घटना के संबंध में आईओए के अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन ने बताया कि इससे पहले भी टाउनशिप में कई चोरी की घटनाएं घट चुकी हैं.

रूपनारायणपुर में माकपा का प्रदर्शन, पुलिस को सौंपा ज्ञापन

शुभम संदेश। रूपनारायणपुर

माकपा सालानपुर क्षेत्र समिति ने रूपनारायणपुर फाड़ी के सामने एक विरोध सभा आयोजित की. इस दौरान माकपा नेताओं ने इलाके में बढ़ती चोरी-डकैती, यातायात अव्यवस्था और एक पुलिस अधिकारी पर लगे आरोपों को लेकर रोष व्यक्त किया. सभा के पश्चात फाड़ी प्रभारी अरुणाभ भट्टाचार्य को एक मांग पत्र सौंपा गया. माकपा के सचिव अबीर घोष ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई को दक्षिण दिनाजपुर के बंसीहारी इलाके में पुलिस निरीक्षक असीम घोष ने एक बुजुर्ग वामपंथी समर्थक मजीदुर रहमान के साथ मारपीट की और उन्हें अपमानित किया. इस घटना के विरोध में माकपा ने उस पुलिस अधिकारी को सजा देने की मांग की है. अबीर घोष ने आगे बताया कि रूपनारायणपुर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी, हिंसा और यातायात अव्यवस्था से लोग बेहद परेशान हैं. खासकर आगामी पूजा के मौसम को देखते हुए चोरी की घटनाओं में और वृद्धि की आशंका है. वहीं, सालानपुर से रूपनारायणपुर तक यातायात जाम की गंभीर समस्या है, जिससे आम लोगों की आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं. माकपा की ओर से यह भी मांग की गई कि इलाके की फैक्ट्रियों में काम करने वाले बाहरी श्रमिकों के पहचान पत्रों का सत्यापन कराया जाए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके. सभा के अंत में, क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बहाल करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन फाड़ी प्रभारी को सौंपा गया. इस विरोध प्रदर्शन से क्षेत्र में हलचल का माहौल बन गया है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस प्रशासन इन मांगों पर क्या कार्रवाई करता है.

▼ न्यूज अपडेट

कला सम्मेलन में रूपोकार प्रियदर्शी का लोकार्पण

सांकतोड़िया (शुभम संदेश)। आसनसोल जिला पुस्तकालय के सम्मेलन हॉल में रूपोकार प्रियदर्शी नामक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह पुस्तक औद्योगिक क्षेत्र के प्रसिद्ध चित्रकार प्रियदर्शी बोस के जीवन और उनकी कलाकृतियों पर आधारित है. कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं प्रियदर्शी बोस ने की. इस अवसर पर राज्य के प्रसिद्ध कलाकार, कला समीक्षक और साहित्यकार सुशोभन अधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे. उन्होंने कलाभवन से ई काल (कलाभवन, शांतिनिकेतन का अतीत और वर्तमान) विषय पर एक सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया. कार्यक्रम में संगीत और पाठ की आकर्षक प्रस्तुतियाँ भी हुईं. इनमें ज्योतिर्मय भट्टाचार्य (पाठ), शुभोदीप सरकार, शिल्पी चटर्जी और काकली भट्टाचार्य (गीत) ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया. चित्रकला, फोटोग्राफी, प्रदर्शन कला और साहित्य के क्षेत्र से कई गणमान्य विशेषज्ञ इस सांस्कृतिक समारोह में उपस्थित रहे. इसके अतिरिक्त, प्रसिद्ध नाटककार, निर्देशक और अभिनेता सुमित बंद्योपाध्याय ने अपने प्रभावशाली अंदाज़ में कार्यक्रम का संचालन किया.

अवैध शराब बिक्री का विरोध, थाना को सौंपा ज्ञापन

पुरुलिया (शुभम संदेश)। जिले के रघुनाथपुर कस्बे में आबादी के बीच खुलेआम अवैध शराब की बिक्री को लेकर लोगों में आक्रोश है. इसी के विरोध में रघुनाथपुर नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष शांतनु चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में रविवार को रघुनाथपुर थाना प्रभारी (आईसी) को एक ज्ञापन सौंपा गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, कस्बे की घनी आबादी के बीच स्थित शराब की अवैध दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक खुली रहती हैं. इन दुकानों के आसपास नशे में धुत लोग रास्ते से गुजरने वाली महिलाओं से छेड़छाड़, अश्लील बातें और खुलेआम नाच-गाने जैसी आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं.

आसनसोल के वार्ड संख्या 105 में सड़कों पर बह रहा नाले का पानी

शुभम संदेश। सांकतोड़िया

बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं किए जाने के कारण अब उनका गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है. पहले से जर्जर सड़कों की हालत और भी बदतर होती जा रही है. जानकारों का कहना है कि कई स्थानों पर समय रहते नालों की सफाई नहीं की गई, जिससे वे कचरे से पूरी तरह भर गए हैं. थोड़ी सी बारिश के बाद ही नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी का प्रवाह बाधित हो जाता है. नतीजतन, यह पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे आमजन को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 105, डिसरगढ़ नदी घाट के पास सड़कों के किनारे बने नालों की भी यही स्थिति है. रविवार को हुई बारिश के बाद नालों में जमा गंदगी के कारण पानी सड़कों पर बहने लगा. स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है और कीचड़युक्त पानी से पैदल यात्रियों और वाहनों दोनों को परेशानी हो रही है.

मुन्ना बने बराकर मुस्लिम सोसाइटी के सदर

बराकर (शुभम संदेश)। बराकर आरा डंगाल स्थित ईदगाह में शनिवार देर रात बराकर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के सभी प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे. सर्वसम्मति से अली हुसैन उर्फ मुन्ना को एक बार फिर बराकर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का सदर (अध्यक्ष) चुना गया. गौरतलब है कि सोसाइटी में प्रत्येक दो वर्ष के कार्यकाल के लिए सदर का चुनाव किया जाता है. वर्ष 2023 में भी अली हुसैन को सदर के रूप में नियुक्त किया गया था. इस बार पुनः उन्हें यह जिम्मेदारी मिलने से समाज के युवाओं और बुजुर्गों में खुशी का माहौल देखा गया. स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं के साथ मुन्ना का स्वागत किया और उनके कार्यों की सराहना की. समाज के बुजुर्गों ने भी अपनी खुशी व्यक्त की और उन्हें शुभकामनाएँ दीं. बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सदर समाज का मुखिया होता है, जिसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है.

सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने में जुटी राउंड टेबल संस्था

शुभम संदेश। रानीगंज

दुर्गापुर-आसनसोल राउंड टेबल 271 संस्था के तत्वावधान में युवाओं द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं. संस्था के अध्यक्ष सरदार सरबजीत सिंह ओबेरॉय के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए क्लासरूम निर्माण, शौचालय निर्माण, मेधावी छात्रों को सम्मानित करना, स्कॉलरशिप देना एवं अन्य विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं. इन प्रयासों की प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है. इसी कड़ी में संस्था द्वारा हिंदी हाई स्कूलों में नव-निर्मित क्लासरूम, स्मार्ट क्लास एवं वोकेशनल कोर्स लैब का निर्माण कराया गया है. इन स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, और इन कक्षाओं के निर्माण से पढ़ाई की गुणवत्ता एवं सुविधा में सुधार होगा. सरदार सरबजीत सिंह ओबेरॉय ने बताया कि विद्यालयों को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा, जिसमें आगामी दिनों में बेंच, स्मार्ट क्लास के लिए एलईडी स्मार्ट बोर्ड आदि शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि राउंड टेबल संस्था के सभी सदस्य सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं.

शहीद दिवस की तैयारी में जुटी तृणमूल कुल्टी में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित

शुभम संदेश। कुल्टी

आगामी 21 जुलाई शहीद दिवस को कोलकाता में सफलतापूर्वक आयोजित करने के उद्देश्य से कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से मिठानी संघहती हाल में एक कार्यकर्ता सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. सभा में आसनसोल उत्तर के विधायक एवं राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, राज्य कमिटी के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी, जिला चेयरमैन हरेराम सिंह, जिला अध्यक्ष नरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, महिला अध्यक्ष आशिमा चक्रवर्ती, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष कंचन राय, युवा तृणमूल अध्यक्ष विमान दत्तो, एमआईसी इंद्राणी मिश्रा, बोरो चेयरमैन चैतन्य माझी, शताब्दी भंडारी तथा कुल्टी के सभी तृणमूल पार्षद, वार्ड अध्यक्ष, पूर्व पार्षद सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभा की शुरुआत में कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष कंचन राय ने मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया. सभा के दौरान शहीद दिवस की तैयारियों के साथ-साथ कुल्टी में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया. इस क्रम में जिला अध्यक्ष नरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती ने घोषणा की कि कुल्टी के 28 वार्डों से प्रत्येक वार्ड से दो-दो बसें कोलकाता रवाना की जाएंगी, और महिलाओं के लिए अलग से बस की व्यवस्था भी की गई है. चक्रवर्ती ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जिसे भी जिम्मेदारी देगी, सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर उसकी जीत सुनिश्चित करनी होगी. उन्होंने कहा, कौन किसके साथ बैठता है या रहता है, ये देखने का समय नहीं है. अब लक्ष्य केवल कुल्टी में तृणमूल की जीत है. उज्ज्वल दा के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करना होगा. उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमें 'इंच-इंच' लड़ाई लड़नी होगी. बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति प्राथमिकता होगी, और इसके लिए सभी वार्ड अध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी. सभा में वर्ष 2023 के पंचायत चुनाव में विभिन्न वार्डों में जीत और हार की समीक्षा की गई.

धान की उन्नत खेती और सही पैदावार के लिए अपनाएं यह तरीका

धान की उन्नत खेती और सही पैदावार के लिए अपनाएं यह तरीका ङ्क एक अच्छी पैदावार लेने के लिए भूमि का अच्छी तरह से तैयार किया जाना अति आवश्यक है। अच्छी तरह से तैयार की गयी खेती योग्य भूमि से खरपतवार दूर रहते हैं तथा भूमि में पाए जाने वाले जैव तत्व अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही पौध रोपण के लिए आवश्यक नरम भूमि प्राप्त हो जाती है तथा सीधे बिजाई के लिए उपयुक्त समतल भूमि भी प्राप्त की जा सकती है।

धान की खेती योग्य भूमि को तैयार करने के लिए सामान्यतः 2 तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमे zero tillage और minimum tillage मत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया से ना केवल भूमि की असमानता कम होती है बल्कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जो कीचड़ प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे भूमि संरचना काफी हद तक खराब हो जाती है।

मुख्यतः धान की खेती के लिए भूमि को तैयार करने के 4 चरण होते हैं

पहले चरण में खेत की जुताई के लिये गहरी जुताई का उपयोग किया जाता है।

दूसरे चरण में मिट्टी को उलट-पलट कर मिलाया जाता है। इसके उपरान्त मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए हैरोइंग का इस्तेमाल किया जाता है।

तीसरे चरण में खेत में मौजूद खरपतवार और फसलों के अवशेष को अच्छी तरह से भूमि में मिला दिया जाता है और इसके बाद खेत में अच्छी तरह से सिंचाई कर कीचड़ बनाया जाता है। जिससे की जमीन में नमी बन जाए तथा अंतिम चरण में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना दिया जाता है। पिछले फसल के कटाई के उपरांत कुछ समय के लिए भूमि को खेती के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। लेकिन अगली फसल के लिए खेत को उपयोग में लाने से पूर्व उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे की खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है साथ ही भूमि की उर्वराशक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कम से कम 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं।

भूमि तैयार करने की प्रक्रिया

जुताई, मिट्टी के ढेलों की कटाई, ढेलों की तुड़ाई तथा मिट्टी को अलट-पलट करने से काफी हद तक या कुछ हद तक पौध रोपण के लिए खेत की तैयारी हो जाती है। गहरी जुताई से कृषकों को एक अच्छे संरचना वाली खेती योग्य भूमि मिल जाती है जिससे की पानी को सोखने की क्षमता के साथ भूमि में ऑक्सीजन का सुगम परिचालन हो जाता है। इसके अलावा जुताई से खरपतवार, कीट पतंगा का भी नाश हो जाता है। किसानों के लिए बाजार में जुताई के लिए विभिन्न प्रकार के मशीन मौजूद हैं लेकिन स्टिल कंपनी ने पावर वीडर रू॥ (710) अलग- अलग जुताई के पुर्जों के साथ किसानों के लिए उपलब्ध करवाया है जो कि ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं को आसान बनाने में किसानों मदद करता है। हैरोइंग एक उथली-गहराई वाली माध्यमिक जुताई तकनीक है जो मिट्टी को महीन और चूर्ण करने के साथ-साथ खरपतवारों को काटने और मिट्टी के साथ मिलाने का काम करता है। खेत में खरपतवार, फसल अवशेष और खरपतवार बीजों को भी नष्ट करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया तभी काम आती है जब मिट्टी के ढेलों में नमी की मात्रा कम हो जाती है। इस जटिल प्रक्रिया को कम समय में सफलतापूर्वक करने के लिए स्टिल पावर वीडर रू॥ (710) के साथ डीप टाइम अटैचमेंट के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। धान की खेत में रोपाई से पूर्व कीचड़ बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं मेहनतकश प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले देशी हल से जुताई की जाती है, इसके बाद खेत में 5-10 सेमी पानी से भर दिया जाता है। जिससे मिट्टी के ढेले गलकर कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके उपरान्त खेत में पाटा लगाकर खेत को रोपाई के लिए समतल बनाकर तैयार किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत उबाऊ और जटिल होती है। इसके लिए स्टिल कंपनी पावर वीडर रू॥ (710) के साथ पोडलिंग व्हील अटैचमेंट एक अत्यंत आधुनिक पेशकश है। जिससे ना केवल धान के पौध रोपण के लिए खेत तैयार होती है बल्कि पौध रोपण के लिए उपयुक्त भूमि भी तैयार हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि भूमि को समतल बनाने से ना केवल भूमि की उपयोगिता बढ़ती है बल्कि भूमि के समतल करने से, भूमि के सिंचाई के दौरान पानी की कम खपत होती है तथा एक सार पानी पूरे खेत में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से ना केवल पानी के बहाव और फैलाव को नियंत्रित किया जाता है बल्कि इससे भूमि का कटाव भी रुकता है और इसके साथ-साथ पौध प्रस्थापना भी बेहतर होती है।

धान की खेती के लिए भूमि की तैयारी क्यों आवश्यक है

कीचड़ पद्धति द्वारा एक असामान्य खेत को समतल बनाया जाना चाहिए।

खेत में पानी की सामान्य गहराई को बनाए रखने के लिए।

असामान्य भूमि को समतल बनाकर पानी की दक्षता को बढ़ाना।

पानी की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए भूमि का समतली करण अतिआवश्यक है।

एक अच्छी जुताई से खेती योग्य भूमि में ऑक्सीजन की उपलब्धता बन जाती है।

इस मौसम में धान की बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए स्टिल के कृषि उपकरणों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए आप उनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं तथा उनके ऑफिशियल Id:info@stihl.in, संपर्क सूत्र- 9028411222 का उपयोग अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।

केले की खेती के लिए अभी है सही समय

वैज्ञानिक विधि अपनाकर किसान कर सकते हैं अधिक कमाई



सामान्य तौर पर किसान पारंपरिक तरीके से केले की खेती करते हैं, अगर वे वैज्ञानिक तरीका अपनाएं तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है, उनकी कमाई तीन गुना तक बढ़ सकती है, केले की खेती के लिए अभी है सही समय, वैज्ञानिक विधि अपनाकर किसान कर सकते हैं अधिक कमाई वैज्ञानिक विधि से केले की खेती कर किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं. भारत में केले की लगभग 500 किस्मों की खेती होती है. केले की खेती से जुड़े किसान अभी तैयारियों में जुटे हुए हैं. यह अभी केले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है. सामान्य तौर पर किसान पारंपरिक तरीके से केले की खेती करते हैं, अगर वे वैज्ञानिक तरीका अपनाएं तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है. उनकी कमाई तीन गुना तक बढ़ सकती है. वैसे तो अपने देश में पूरे साल केले की खेती होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और बिहार में अब इसके लिए उपयुक्त मौसम आ रहा है. देश में हरेक प्रदेश और भौगोलिक दशा के लिए केले की प्रजाति मौजूद है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किसान वैज्ञानिक विधि अपनाकर किन किस्मों की खेती कर अधिक से अधिक पैदावार लें. फल वैज्ञानिक डॉ एसके सिंह TV~ Digital के जरिए देश के किसानों को कुछ टिप्स दे रहे हैं. डॉक्टर सिंह के मुताबिक, वाटर संकर चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं. सकर सदैव स्वस्थ व उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के पौधों से ही लेना चाहिए, जिसमें रोग एवं कीड़ों का प्रकोप बिल्कुल न हो. दो तीन माह पुराना ओजस्वी सकर प्रवर्धन हेतु अच्छा होता है. केले के प्रकन्द से ही नए पौधे तैयार हो सकते हैं. जल्द बहुत अधिक पौधे तैयार करने के लिए पूरा प्रकन्द या इसके टुकड़े काटकर प्रयोग में लाते हैं. इनसे पौधा बनने में थोड़ा अधिक समय अवश्य लगता है परन्तु पहली फसल के पौधे अधिक समरूप होते हैं.

खुद भी तैयार करें

प्रकन्द का औसत वजन लगभग एक से डेढ़ किलोग्राम होना चाहिए. सकर की खुदाई और उसकी सफाई के बाद उसका कार्बेन्डाजीम (0.1 प्रतिशत) मोनोक्रोटोफास (0.2 प्रतिशत) के जलीय घोल में 90 मिनट तक डालकर शोधन करते हैं. इसके बाद सकर को 7 दिन तक धूप मे रखकर उसके जीवाणु या फफूंद विहीन कर देते हैं. जहां सूत्रकृमि की समस्या हो, वहां पर सकर को गाय के गोबर मे डूबोने के पश्चात नीम आधारित कीटनाशक से शोधन के पश्चात नीम की खली प्रति 2-3 किलोग्राम या गड्ढा प्रयोग करना चाहिए. रोपण हेतु सकर के चयन मे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रोपण सामग्री के समान नहीं होने की वजह से केला की फसल भी एक समान नहीं होती है, जिससे उसकी कटाई के समय में भारी अंतर आता है और फसल का प्रबंधन कठिन हो जाता है.

टिशू कल्चर वाला पौधा

पॉलीथिन थैले में 8-10 इंच ऊंचाई के उतक संवर्धन द्वारा तैयार पौधे रोपण हेतु उपयुक्त होते हैं. पॉलीथिन के पैकेटों को तेज चाकू या ब्लेड से काटकर अलग कर देते हैं और पौधों को निकाल लेते हैं. ध्यान यह देना चाहिए कि मिट्टी की पिंडी न फुटने पाए. पहले से भरे गए गड्ढों के बीचो-बीच मिट्टी के पिंडी के बराबर छोटा सा गड्ढा बनाकर पौधे को सीधा रख देना चाहिए. पौधे की जड़ों को बिना हानि पहुचाएं पिंडी के चारों ओर मिट्टी भरकर अच्छी प्रकार दबा देना चाहिए ताकि सिंचाई के समय मिट्टी में गड्ढे न पड़ें, बहुत अधिक गहराई में रोपण कार्य नहीं करना चाहिए. केवल पौधे की पिंडी तक ही मिट्टी भरनी चाहिए.

रोपण में दूरी

रोपण के दौरान पौधे से पौधा एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है जैसे, केला की किस्म, खेती करने की विधि, मृदा की उर्वरता इत्यादि, केला की परंपरागत खेती में विभिन्न किस्मों के लिए रोपण की दूरी भी भिन्न-भिन्न निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है।

मंथन

ददई दुबे के निधन से एक युग का अवसान

कांग्रेस और इंटक के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का निधन न केवल झारखंड की राजनीति बल्कि सामाजिक चेतना के एक सशक्त अध्याय का अंत है. रांची से पलामू तक की सड़कों पर उमड़ी भीड़, कांग्रेस कार्यालय में गूंजती श्रद्धांजलियां और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ता पार्थिव शरीर यह दर्शाता है कि ददई दुबे जनता के नेता थे- ज़मीन से जुड़े, संघर्षशील और कर्मठ. बिश्रामपुर से चार बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके ददई दुबे ने राजनीतिक जीवन में अपने विचारों की स्पष्टता और जनसंवाद की ताकत से पहचान बनाई. उन्होंने 1985 में पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया और 2000 में बिहार सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री बने. 2014 में धनबाद से सांसद निर्वाचित होकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी कदम रखा. उनका जीवन ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर जनता की सेवा तक का प्रेरणादायी उदाहरण है. चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, उन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग, श्रमिकों और युवाओं के मुद्दों को मुखरता से उठाया. उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड को अपूरणीय क्षति हुई है. राजनीतिक मतभेदों से परे, उनका सम्मान सभी दलों में था. आज जब उनकी अंतिम यात्रा में हज़ारों लोग शामिल हो रहे हैं, यह स्पष्ट है कि ददई दुबे का नाम केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक जननायक के रूप में याद किया जाएगा. उनके आदर्श और संघर्ष भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे. राज्य ने एक कर्मठ सपूत खोया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के शोक संदेश में भी इन्हीं बातों का गहरा उल्लेख है.

नजरिया

धौनी झारखंड में खेल और पर्यटन को दिलाएंगे बढ़ावा!

झारखंड के खेल एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और महेंद्र सिंह धौनी के बीच मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं, बल्कि संभावनाओं के नए द्वार खोलने वाली बड़ी पहल है. क्रिकेट की दुनिया में भारत का सिर ऊंचा करने वाले कैप्टन कूल धौनी यदि अपने गृह राज्य की ब्रांडिंग और विकास में भागीदार बनते हैं, तो यह झारखंड के लिए गर्व का विषय होगा. धौनी की पहचान सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत और विश्वसनीय चेहरे के रूप में है. यदि उन्हें झारखंड पर्यटन का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाता है, तो राज्य की छवि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर सशक्त करने में बड़ी मदद मिलेगी. पर्यटन स्थलों की पहचान, प्रचार-प्रसार और निवेश आकर्षित करने के लिहाज से यह कदम गेमचेंजर साबित हो सकता है. खेल के क्षेत्र में भी धौनी की भागीदारी से नई ऊर्जा आ सकती है. झारखंड जैसे राज्य, जहां प्रतिभा की कमी नहीं, वहां मार्गदर्शन और संसाधनों की जरूरत हमेशा महसूस की गई है. धौनी का अनुभव, नेटवर्क और प्रेरणादायक नेतृत्व युवाओं को दिशा देने में सहायक होगा. मंत्री सुदिव्य कुमार की पहल इस बात का संकेत है कि सरकार अब खेल और पर्यटन को विकास के प्रमुख घटक मानकर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहती है. उम्मीद की जानी चाहिए कि यह मुलाकात औपचारिकता से आगे बढ़ कर ठोस योजनाओं में तब्दील होगी और झारखंड के विकास में मील का पत्थर बनेगी.

अब फिर बदलने लगे पाकिस्तान के सुर

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

मानसून के मौसम में भी पाकिस्तान में घोर जल संकट का दौर चल रहा है.

बिलावल भुट्टो का दिया गया हाल का बयान यही दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की हेकड़ी अब निकल चुकी है, वह अब भारत के सामने घुटनों पर आने को तैयार हो रहा है. निश्चित ही इसे भारत की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जाना चाहिए.

आतंकवाद को संरक्षण देने में जिस देश का दुनिया भर में नाम बदनाम हो, यदि वह भारत के गुनहगार आतंकियों को भारत को सौंपना स्वीकार कर ले और इस तरह की मांग जनता एवं राजनेताओं के बीच से आने लगे तो समझ लिया जाए कि पाकिस्तान की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है. सोचनेवाली बात यह है कि अब जब मानसून का दौर चल रहा है, नदियां उफान पर हैं, तब पाक में पानी का संकट गहराता दिख रहा है. ऐसे में जब तेज गर्मी का मौसम होगा, तब क्या हालात होंगे इसका सहज अंदाजा ही लगाया जा सकता है.वस्तुतः 22 अप्रैल को जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में लश्कर से जुड़े आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले के बाद भारत ने पड़ोसी देश में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इसके बाद ब्रह्मोस की मार से घायल पाकिस्तान को आखिर में 10 मई को भारत के साथ शांति समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा. वहीं, भारत की ओर से पाकिस्तान पर जो बैन लगाए गए, वह अब भी निरंतर हैं.

ऐसे में पाक के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की ओर से विश्वास बहाली के उपाय के रूप में जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को भारत को प्रत्यर्पित करने में कोई आपत्ति नहीं होने की बात कही है, वह बहुत ही गौर करने लायक है.पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संभावित समझौते और सद्भावनापूर्ण रुख के तहत भारत को प्रत्यर्पित करने के बारे में विचार किया जा सकता है. पाकिस्तान हाफिज और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरी यह है कि इसके लिए दिल्ली का पूरा सहयोग मिले.यहां बिलावल यह दावा करते हुए भी दिखे कि पाकिस्तान के साथ एक व्यापक वार्ता के हिस्से के रूप में, जहां आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा. राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (नैक्टा) के अनुसार, लश्कर और जैश दोनों को पाक ने बैन कर रखा है, जबकि 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी हाफिज सईद वर्तमान में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए 33 साल की सजा काट रहा है. कहना होगा कि भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक अजहर का नाम भारत में कई बड़े हमलों से जुड़ा है, जिसमें 2001 का संसद हमला, 26/11 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला और 2019 का पुलवामा हमला शामिल है. इसके अलावा भी अन्य कई हमलों में उसका एवं उसके संगठन का नाम सामने आया है, उसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था. इसके बाद भी पाक का इस आतंकवादी पर नर्म रुख लगातार देखने को मिला है. दूसरी ओर भारत का रुख पहले दिन से साफ है, इसलिए ही पाकिस्तान से उसके संबंध तभी से तनावपूर्ण बने हुए हैं, भारत मांग कर रहा है कि सभी आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करने के साथ वह उन सभी को भारत को सौंपा जाए.

इतना होने के बाद भी भारत ने बीच-बीच में हर संभव प्रयास किया कि पाक के साथ पड़ोसी धर्म निभाया जाए, वह एक बड़े भाई की भूमिका में भी नजर आया. संबंध सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर, 2015 को ही अचानक पाकिस्तान पहुंचने में संकोच नहीं किया, उस दिन वे तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ की पोती की निकाह में भी शामिल हुए थे. उन्होंने नवाज़ शरीफ को अफगानिस्तानी स्टाइल का गुलाबी साफा भी तोहफे में दिया था, जिसे शरीफ पहने हुए भी नजर आए थे. कूटनीति की मेज पर शंति बहाली के प्रयास किए गए, पर हर बार पाक आतंकियों ने भारत के विश्वास को तोड़ा. जिसके बाद भारत सरकार का यह साफ मत बना है कि वह पाकिस्तान के साथ आगे की कोई भी चर्चा केवल आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही करेगा. भारत ने आज पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने के साथ ही अटारी-वाघा सीमा क्रॉसिंग बंद करना, आयात-निर्यात को पूरी तरह से रोकना, अपना हवाई क्षेत्र बंद करने जैसे कई प्रतिबंध आतंकवाद के विरोध में भारत ने पाक पर लागू किए हैं. ऐसे में स्वाभाविक है कि बिलावल भुट्टो जो आज कह रहे हैं, वह बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इस बात को अभी एक माह भी नहीं हुआ है, जब उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था. बिलावल भारत को चेतावनी दे रहे थे कि अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो देश के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा.

यहां तक कि बिलावल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय पाकिस्तानी संसदीय दल भारत के साथ संघर्ष करने की बात कहने के बाद अपने देश का पक्ष रखने के लिए वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लंदन पहुंचा था. यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में भारी बेइज्जती के बाद यूरोपीय यूनियन के नेताओं को बरगलाने के लिए ब्रसेल्स भी पहुंचा. जहां अमेरिका की तरह ही यूरोप में कई सांसदों और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने पाकिस्तान से आए इस प्रतिनिधिमंडल के समक्ष आतंकवाद का साथ छोड़ने और आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पित करने को कहा था. भारत ने भी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ पानी और खून एक साथ नहीं बहाए जा सकते. भारत ने पहले भी कई बार पाकिस्तान को सिंधु जल संधि की समीक्षा करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया. अब भारत को इस सिंधु जल संधि को सतत बनाए रखने का कोई कारण नजर नहीं आता है. कुल मिलाकर कर बिलावल भुट्टो का दिया हाल का बयान यही दर्शा रहा कि पाकिस्तान की हेकड़ी अब निकल चुकी है, वह अब भारत के सामने घुटनों पर आने को तैयार हो रहा है. निश्चित ही इसे भारत की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जाना चाहिए.

आज का इतिहास

- **1636:** मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया.
- **1850:** मशीन द्वारा जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन.
- **1927:** हवाई द्वीप में विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू.
- **1940:** द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के बमवर्षक विमानों ने स्वेज पर बमबारी की.
- **1951:** सीबीएस चैनल पर घुड़दौड़ कार्यक्रम का पहली बार रंगीन प्रसारण.
- **1969:** अमेरिका ने 500, 1,000, 5,000 और 10,000 डॉलर के नोटों को बंद किया.
- **1991:** इराक़ से ब्रितानी फ़ौज की वापसी.
- **2008:** नेपाल की संसद ने पीएम के निर्वाचन वाले संविधान संशोधन को मंजूरी दी.
- **2014:** इंग्लैंड के चर्च ने महिलाओं को भी बिशप बनाने के पक्ष में वोट किया.
- **2015:** नासा का न्यू होराइजन प्लूटो पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना.

छोटा कर्मचारी भी कर सकता है समस्या का समाधान

चिंतन

मैनेजमेंट की शिक्षा ले रहे छात्रों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के बारे में बताया जा रहा था. कुछ देर पढ़ाने के बाद प्रोफेसर ने बच्चों को एक केस स्टडी सोल्व करने को दी. जापान की एक साबुन बनाने वाली कंपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती थी. पर उनके सामने एक अजीब समस्या आ खड़ी हुई, उन्हें कम्प्लेंट मिली की एक कस्टमर ने जब साबुन का डिब्बा खरीदा तो वो खाली था. कंप्लेंट की जांच हुई तो पता चला चूक कंपनी की तरफ से ही हुई थी, जब साबुन डिलीवरी को भेजे जा रहे थे तब एक डिब्बा खाली ही चला गया.

इससे कंपनी की किरकिरी हुई. कम्पनी के अधिकारी परेशान हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया. तुरंत गहन चर्चा हुई, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए उपाय मांगे गए. बहुत विचार के बाद निश्चय हुआ कि असेंबली लाइन के अंत में एक एक्स-रे मशीन लगायी जाए, जो एक मॉनिटर से जुड़ी होगी. मॉनिटर के सामने बैठा व्यक्ति देख लेगा कि डिब्बा खाली है या भरा. कुछ ही दिनों में ये सिस्टम लागू कर दिया गया, पर जब एक छोटी रैंक के कर्मी को इसका पता चला तो उसने इसका हल एक बड़े ही आसान तरीके से निकाल दिया. ऐसा तरीका जिसमे ना लाखों की मशीन खरीदने का खर्च था और ना ही किसी आदमी को रखने की ज़रूरत. उस आदमी ने एक बड़ा फैन खरीदा व असेंबली लाइन के सामने लगा दिया, अब हर एक डिब्बे को पंखे की तेज हवा के सामने से होकर गुजरना पड़ता और जैसे ही कोई खाली डिब्बा सामने आता हवा उसे उड़ा कर दूर फेंक देती.

दोस्तों, इस तरह के सोल्युशन को हम आउट ऑफ़ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका किताबी ज्ञान से कोई लेना-देना नहीं होता. हममें से हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को सरल तरीकों से सुलझा सकता है पर शायद हम सबसे पहले दिमाग में आने वाले हल को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं. आइए इस केस स्टडी से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपनी समस्याओं के नए-नए समाधान ढूंढ़ें और इस जीवन को सरल बनाएं. कभी-कभी छोटा कर्मचारी भी बड़ी-बड़ी समस्या का हल चुटकियों में कर देता है.

इंडिया पर ट्रेंडिंग

1. #DMKSocialinjusticeGovt
2. #KotaSrinivasaRao
3. #SpiritualSunday
4. Om Shanti
5. Rajya Sabha
6. #TNDemandsJustice
7. #SaveAshram
8. Compassion In Action
9. Serving Humanity
10. Bhandara Sewa

बहुरंग

हिंदी-मराठी भाषा विवाद पर अजय देवगन बोले- सभी पक्ष बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत करें

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है. इस एक्शन-कॉमेडी ड्रामा में अजय के साथ मृणाल ठाकुर और रवि किशन जैसे शानदार कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अजय देवगन मीडिया से सामने आये और सिर्फ फिल्म के बारे में ही नहीं, बल्कि कई समसामयिक और विवादित मुद्दों पर भी बेझिझक अपनी राय रखी. उनका बेबाक अंदाज़ एक बार फिर दर्शकों और प्रशंसकों को प्रभावित कर गया.

जब मीडिया ने अजय देवगन से दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सरदार जी 3' और उससे जुड़े विवादों को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने इस पर संयमित और संतुलित प्रतिक्रिया दी. गौरतलब है कि फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किए जाने को लेकर खासा विवाद हुआ है, खासकर हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद. इसी को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने दिलजीत पर बैन लगाने की मांग भी की थी. इस पर अजय देवगन ने कहा, मैं यह तय नहीं कर सकता कि कौन सही है और कौन गलत. हर किसी का अपना नजरिया होता है. बेहतर यही होगा कि सभी पक्ष बैठकर इस मुद्दे पर शांतिपूर्वक बातचीत करें और कोई समाधान निकालें. मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता और न ही किसी को दोषी ठहराना चाहता हूं. मेरा मानना है कि किसी भी विवाद को टकराव से नहीं, संवाद से सुलझाया जा सकता है.

हिंदी बनाम मराठी विवाद पर अजय ने कहा : हाल ही में महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर छिड़े विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है. स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं. जब इसी मुद्दे पर अजय देवगन से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने मशहूर 'सिंघम' अंदाज में मुस्कराते हुए जवाब दिया, आता माझी सटकली. उनके इस जवाब पर वहां मौजूद कई फैन्स हंस पड़े और थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो गया. पूरे कार्यक्रम के दौरान अजय देवगन ने बेहद संयम और शांति के साथ अपनी बात रखी. उन्होंने किसी पर आरोप लगाने से बचते हुए यही सुझाव दिया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए. फैन्स को उनका शांत और परिपक्व रवैया काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर भी उनके इस व्यवहार की तारीफ की जा रही है.

अगर फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' की रिलीज़ की बात करें तो यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 25 जुलाई 2025 को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बार फिल्म में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पहले भाग में सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थीं, वहीं सीक्वल में उनकी जगह मृणाल ठाकुर नजर आएंगी, जो अजय देवगन के साथ नई जोड़ी के तौर पर स्क्रीन पर दिखाई देंगी.

आचार्य प्रणव मिश्रा
मोबाइल नंबर
8210075897

मेष : मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा. कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी. लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे. धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा. अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा. ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं. पुराने मित्र से मिलन होगा. शुभांक-3-6-9

वृष : समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है. अपने हितैषी समझे जाने वाले ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा. कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा. स्वविवेक से कार्य करें. समय का लाभ लें. शुभांक-4-7-9

मिथुन : हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात् दूर हो जाएगी. अपने काम आसानी से बनते चले जाएंगे. साथ ही आगे के लिए रास्ता भी बन जाएगा. धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग. जीवन साथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा. मनोरथ सिद्दिघ का योग है. शुभांक-4-6-8

कर्क : कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी. व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए. कार्यक्षेत्र में आगे बढने में रुकावट का एहसास होगा. विरोधियों के सक्रिय होने की संभावना है. शुभकार्यों में अड़चनें व परिवार के बुजुर्ग-जनों से मतभेद रहेगा. शुभांक-1-5-7

सिंह : मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश सफल होगी. कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा. अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे. यात्रा शुभ रहेगी. अपने काम को प्राथमिकता से करें. शुभांक-1-3-5

कन्या : अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे. कारोबारी काम में बाधा उभरने से मानसिक अशांति बनी रहेगी. यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा. सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बन जाएगी. आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी. मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. शुभांक-4-6-8

तुला : अपने काम पर नजर रखिए. स्वास्थ्य लाभ में समय और धन व्यय होगा. लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं. मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा. कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी. लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे. परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी. शुभांक-2-4-6

वृश्चिक : पर-प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए. कल का परिश्रम आज लाभ देगा. आलस्य का त्याग करें. कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा. यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा. पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे. शुभांक-4-6-8

धनु : कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी. अपनों का सहयोग प्राप्त होगा. शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है. व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी. नौकरी में पदोन्नति की संभावना है. मान-सम्मान में वृद्दिघ होगी. मित्रों से सावधान रहें तो ज्यादा उत्तम है. यात्रा से लाभ. शुभांक-3-5-6

मकर : आत्मविश्वास बढ़ेगा. पारिवारिक विवाद टालें. व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी. कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा. निष्ठा से किया गया कार्य पराक्रम व आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा. संतान-स्त्री पक्ष से लाभ होगा. शुभांक-3-4-6

कुंभ : खान-पान में सावधानी रखें. व्यापार में प्रगति होगी. अपने अधीनस्त लोगों से कम सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है. शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. आय के योग बनेंगे. यात्रा का योग है. शुभांक-3-5-6

मीन : जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा. शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करें. आलस्य का त्याग करें. पुरुषार्थ का सहारा लें. कार्यसिद्दिघ होने में देर नहीं लगेगी. आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा. शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर वार्ता होगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. शुभांक-3-5-6

पत्नी के साथ छुट्टियां मना रहे आयुष्मान खुराना

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियों का मजा ले रहे हैं. उनके साथ उनके बच्चे विरुष्का और विराजवीर भी हैं. रविवार को ताहिरा कश्यप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.

ताहिरा ने दिखाई स्विट्जरलैंड की झलक : ताहिरा कश्यप ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें स्विट्जरलैंड की झलक देखी जा सकती है. एक तस्वीर में आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप एक पेड़ के नीचे पोज दे रहे हैं. ताहिरा कश्यप ने नारंगी रंग का टॉप और क्रीम कलर की पैंट पहनी है. वहीं आयुष्मान ने ब्लैक जिपर और मैचिंग पैंट पहनी है. एक वीडियो में ताहिरा कश्यप एक फूल उड़ा रही हैं. एक और तस्वीर में दोनों सड़क पर पोज दे रहे हैं.

यूजर्स को पसंद आ रहीं तस्वीरें : तस्वीरें शेयर करते हुए ताहिरा ने कैप्शन में लिखा है 'मैं कामना करती हूं कि आप सभी अपने सपने पूरे करें.' ताहिरा कश्यप की तस्वीरों पर कई फैंस ने कमेंट किया है. अभिनेता गजराज राव ने उनकी तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा है 'बहुत सुंदर तस्वीरें हैं.' एक फैन ने लिखा है 'ऐसा लगता है कि यह परफेक्ट वेकेशन है.' एक और यूजर ने लिखा है 'यह कौन सी जगह है जहां पर आसमान इतना नीला है.'

इसी साल अप्रैल में ताहिरा ने बताया था कि शुरुआती निदान के सात साल बाद, उनका स्तन कैंसर फिर से उभर आया है.

आयुष्मान खुराना को मिला निमंत्रण : इस बीच, आयुष्मान खुराना को ऑस्कर पुरस्कारों के प्रतिष्ठित संगठन, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने का निमंत्रण मिला है. वह दक्षिण के दिग्गज अभिनेता कमल हासन, एरियाना ग्रांडे, सेबेस्टियन स्टेन और जेरेमी स्ट्रॉन्ग के साथ 534 लोगों के एक ग्रुप का हिस्सा हैं.

आयुष्मान खुराना का वर्कफ्रंट : आयुष्मान खुराना रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी. इसके अलावा, आयुष्मान, सारा अली खान के साथ एक अनटाइटल्ड स्पाई कॉमेडी फिल्म में भी काम कर रहे हैं. इसका निर्माण करण जौहर और निर्देशन आकाश कौशिक कर रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस पर 'मालिक' के आगे फीकी पड़ी 'आंखों की गुस्ताखियां

राजकुमार राव की 'मालिक' और विक्रांत मैसी की 'आंखों की गुस्ताखियां' एक ही दिन 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुईं. दोनों फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हालात कुछ और ही रहे. कमाई के मामले में 'मालिक' ने स्पष्ट बढ़त बनाई, जबकि 'आंखों की गुस्ताखियां' पहले ही दिन कमजोर साबित हुई और दूसरे दिन तक हालात और बिगड़ गए. फिल्म की रफ्तार इतनी धीमी रही कि महज दो दिनों में ही इसकी स्थिति लगभग पटरी से उतर गई. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार 'मालिक' ने रिलीज़ के दूसरे दिन अच्छी छलांग लगाई. पहले दिन जहां फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई बढ़कर 5.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. इस तरह फिल्म ने दो दिनों में कुल 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वीकेंड की शुरुआत फिल्म के लिए फायदेमंद रही, और अब नजरें रविवार की कमाई पर टिकी हैं, जहां कारोबार में और इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है. बता दें, 'मालिक' का कुल बजट करीब 54 करोड़ रुपये बताया गया है, ऐसे में फिल्म को हिट की राह पर टिके रहने के लिए आने वाले दिनों में मजबूत कमाई करनी होगी. विक्रांत मैसी और शनाया कपूर स्टारर 'आंखों की गुस्ताखियां' की बॉक्स ऑफिस पर स्थिति बेहद कमजोर नजर आ रही है. शुरुआती आंकड़े देख कर यही कहा जा सकता है कि फिल्म सुपरफ्लॉप की राह पर है. पहले दिन महज 30 लाख रुपये की कमाई करने वाली इस फिल्म की दूसरे दिन की रिपोर्ट भी खास उत्साहजनक नहीं रही.

ब्रीफ न्यूज

मुंगेर में 26.61 करोड़ की लागत से पुल का होगा निर्माण: सम्राट

पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि मुंगेर जिले में 26 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से एक महत्वपूर्ण पुल निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जमालपुर जीएन बांध से झौआ बहियार हरिणमार्ग-अथहसिया-गोगरी बांध रोड में चैनेज 12+890 पर 8×21.00 मीटर आकार का उच्चस्तरीय आरसीसी पुल बनाया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 2661.00 लाख (26 करोड़ 61 लाख) रुपये की लागत आएगी। सम्राट चौधरी ने रविवार को बयान जारी कर कहा- पुल निर्माण से आवागमन सुगम और सुरक्षित बनेगा। वर्तमान में इस मार्ग पर बरसात के दिनों भारी जलजमाव की स्थिति में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए पुल के निर्माण से यह समस्या स्थायी रूप से हल होगी और आसपास के गांवों तथा बाजारों में संपर्क स्थापित होगा.

सावन की पहली सोमवारी आज, मंदिरों में गूंजेंगे हर -हर महादेव

सहरसा । ब्रज किशोर ज्योतिष संस्थान,डॉ रहमान चौक सहरसा बिहार के संस्थापक एवं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा जी ने बताया है की कल सावन की पहली सोमवारी है.इस बार सावन मे चार सोमवारी लगे हैं.सभी मंदिरो मे महादेव के नाम का गूंज वातावरण मे नये ऊर्जा का संचार पैदा करेगा. मिथिलांचल में नव विवाहिता के लिए मधुश्रावणी की शुरुआत श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से होती है.जबकि समापन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है. इस बार इसकी शुरुआत 15 जुलाई मंगलवार को और समापन 27 जुलाई रविवार को होगी.कोशी क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा जी के अनुसार,मिथिला की परंपराओं मे मधुश्रावणी के दौरान महिलाएं रोजाना बगीचों से फूल और पत्ते चुनती हैं और उससे विषहारा, मतलब नाग और शिव-पार्वती की पूजा करती हैं.फूल चुनने के क्रम में उनके गीतों से माहौल गमक उठता है.

नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुहरचक गांव में हुई वारदात

अधेड़ की चाकू से गोद कर हत्या

संवाददाता ।नालंदा

नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुहरचक गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान चुहरचक निवासी स्वर्गीय रामेश्वर यादव के 58 वर्षीय पुत्र किशोरी यादव के रूप में हुई है. यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है, जब किशोरी यादव खेत की पटवन (सिंचाई) के लिए बोरिंग पर गए हुए थे.

रविवार सुबह जब ग्रामीणों ने उनका शव सड़क किनारे पड़ा देखा, तो इलाके में सनसनी फैल गई. परिजनों के मुताबिक, किशोरी यादव की गाल, सिर और गले में धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई है. मृतक के भतीजे ने आरोप लगाया है कि हत्या के पीछे गांव के ही सकलदेव यादव और उसके सहयोगियों का हाथ है.

2022 की होली पर हुआ था विवाद : परिजनों के अनुसार, वर्ष 2022 में होली के दिन किशोरी यादव और सकलदेव यादव के परिवार के बीच विवाद हुआ था. उस समय दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर केस दर्ज करवाया था. परिजनों का कहना है कि तभी से सकलदेव यादव लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा था और धमकियां दे रहा था. इसी रंजिश में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस की कार्रवाई : घटना की सूचना मिलते ही सरमेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सदर डीएसपी वन नुरुल हक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है.

घटनास्थल से एफएसएल और डॉग स्क्वायड टीम ने कई अहम सुराग एकत्र किए हैं. डीएसपी के अनुसार, मृतक का परिवार फिलहाल ननिहाल में रह रहा था. वहीं सकलदेव यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ स्थित मॉडल अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है.

पटना में शराबी पिता की हैवानियत

बेटे की पीट-पीटकर हत्या

संवाददाता ।पटना

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करविगहिया स्थित एक होटल में एक पिता ने शराब के नशे में अपने 6 वर्षीय बेटे की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे का नाम सन्नी कुमार है और उसकी उम्र 6 वर्ष थी. परिवार लखीसराय से रोज़ी-रोटी की तलाश में पटना आया था. मृतक की मां करुणा देवी ने बताया कि वे पिछले कुछ महीनों से पटना जंक्शन के आसपास रह रहे थे और समय-समय पर होटल में सफाई का काम करते थे.

शनिवार की शाम लगभग 4 बजे परिवार ने होटल में एक कमरा लिया ताकि कुछ समय शांति से गुजार सकें. इस दौरान पिता शराब के नशे में होटल पहुंचा और बेहोशी की हालत में सो गया. जब वह सोकर उठा, तो भूख लगने पर पत्नी से खाना न मिलने को लेकर विवाद शुरू हो गया. विवाद इस कदर बढ़ा कि पिता ने आपा खो दिया और गुस्से में आकर अपने ही मासूम बेटे को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया. घटना के बाद दंपती बच्चे को इलाज के लिए एक नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सन्नी को मृत घोषित कर दिया. इस घटना की सूचना होटल संचालक ने पुलिस को दी.

पूर्णिया में पत्नी ने सोते पति का काटा गला

संवाददाता ।पूर्णिया

पूर्णिया जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद महिला मौके से फरार हो गई, लेकिन 10 वर्षीय बेटे की बहादुरी और गवाही से हत्या का राज खुल गया. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. यह वारदात धमदाहा थाना क्षेत्र के दमगड़ा रमोवतार चौक की है. मृतक की पहचान 42 वर्षीय बालो दास के रूप में हुई है, जो दमगड़ा पंचायत वार्ड संख्या 11 के रहने वाले आनंदी दास के पुत्र थे. परिवार के मुताबिक, शनिवार रात बालो दास मजदूरी करके घर लौटे थे और पत्नी उषा देवी से भोजन मांगा. इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद बालो दास खाना खाए बिना आंगन में सो गए. उनका बेटा शैलेन्द्र दास भी पास ही सोया हुआ था. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है.

ट्रैक्टर की चपेट में आने से किशोर की मौत

नालंदा । नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह सड़क हादसे में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. यह दुर्घटना सिलाव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास उस समय हुई, जब दोनों किशोर बाइक से राजगीर की ओर घूमने जा रहे थे. मृतक सोहसराय थाना क्षेत्र के महुआ टोला निवासी मोहम्मद नसरुद्दीन के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नदीम है. वहीं, हादसे में घायल किशोर मोहम्मद अरमान को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए बिहारशरीफ के मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजन ने बताया कि मोहम्मद नदीम और उसका दोस्त मोहम्मद अरमान बाइक से राजगीर की सैर पर निकले थे. सिलाव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक तीव्र मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी लेन में चली गई, जहां सामने से आ रहे ट्रैक्टर के डाले से जोरदार टक्कर हो गई.हादसे के वक्त अरमान ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी जान बच गई, हालांकि उसे कई गंभीर चोटें आईं.

प्रेमी की दगाबाजी से आहत प्रेमिका ने लगाई फांसी

नालंदा। जिले के सिलाव थाना अंतर्गत एकसारी गांव में रविवार की सुबह प्रेमी की दबाबाजी से आहत हो प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दे दी. युवक ने प्रेमिका को फोन कर कहा कि शादी के लिए पापा से दो बीघा जमीन रजिस्ट्री कराओ या जान दे दो. प्रेमी की बात से आहत युवती ने इहलीला समाप्त कर ली. मृतका की पहचान एक सारी गांव निवासी निरंजन महतो की 19 वर्षीया पुत्री विद्या भारती के रुप जमें हुई है. मृतिका के पिता ने बताया कि वह गुजरात में रहते हैं. बेटी गांव में रहकर पार्ट वन में पढ़ाई कर रही थी. बेटी का गांव के युवक छोटू से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. वह बेटी की खुशी के लिए छोटू के घर शादी की बात करने गए थे. युवक के पिता शादी के लिए राजी हो गए जबकि, मां शादी के विरोध में थीं. लड़के वालों की नजर उनकी संपत्ति पर थी.छोटू के घर से लौटने पर युवक बेटी के मोबाइल पर कॉल कर कहा- पापा से दो बीघा जमीन लिखाओ नहीं तो खुदकुशी कर लो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूं. युवक की बात सुन बेटी सदमे में आ गई. इसी बात से आहत हो बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी. घटनाक्रम कि जानकारी सिलाव थाना पुलिस को दी गयी. पुलिस घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज दिया है.

पोखर के किनारे मिला किशोर का गला कटा शव

संवाददाता ।समस्तीपुर

समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरवा दक्षिण पंचायत के खुद एकटर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पोखर के किनारे 14 वर्षीय किशोर का रक्तरंजित शव बरामद किया गया. मृतक की पहचान सरायरंजन थाना क्षेत्र के नौआचक पंचायत निवासी अमरजीत राय के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. ग्रामीणों के अनुसार, मृतक प्रिंस अपने पिता का बड़ा बेटा था और मंगलवार दोपहर 2 बजे क्रिकेट खेलने के लिए निकला था, लेकिन वह देर शाम तक घर नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. बुधवार सुबह लगभग 6 बजे ग्रामीणों को पोखर के किनारे एक किशोर का गला कटा शव मिला, जिसकी पहचान प्रिंस कुमार के रूप में की गई.

घटनास्थल के पास ही उसकी साइकिल भी बरामद हुई है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि हत्या के बाद शव को वहीं फेंका गया. ग्रामीणों का शक है कि यह हत्या किसी पुराने जमीन विवाद को लेकर की गई है. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इस जघन्य हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है.

सड़क हादसे में कपड़ा व्यवसायी की मौत, परिवार में मचा कोहराम

संवाददाता . रोहतास

रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दढ़ाव गांव के समीप शनिवार की देर रात एक सड़क दुर्घटना में कपड़ा व्यवसायी की मौत हो गई. मृतक की पहचान कोचस नगर पंचायत के वार्ड संख्या-5 निवासी लगभग 30 वर्षीय ओमप्रकाश गुप्ता के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश गुप्ता अपने व्यवसाय के सिलसिले में बाइक से दिनारा प्रखंड स्थित दढ़ाव गांव जा रहे थे. इसी दौरान किसी अज्ञात और अनियंत्रित वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें आनन-फानन में कोचस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक के पिता सुरेंद्र शाह ने बताया कि उनका बेटा कपड़े का व्यवसाय करता था और हमेशा की तरह व्यवसायिक कार्य से दढ़ाव गांव जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश सड़क हादसे का शिकार हो गया.

सीतामढ़ी में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, आक्रोशित भीड़ ने की सड़क जाम

संवाददाता ।सीतामढ़ी

सीतामढ़ी शहर के मेहसौल चौक के पास प्रॉपर्टी डीलर वसीम खान उर्फ पुटू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावरों ने उन्हें उनके ही घर के पास गली में तीन गोलियां मारीं, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है. हत्या की इस घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोग और मृतक के परिजनों ने शनिवार रात शव को मेहसौल चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया. भीड़ ने सरकार और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. जाम हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. एसपी अमित रंजन खुद मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया, लेकिन रविवार सुबह दोबारा गुस्साई भीड़ ने चौक को फिर दो घंटे के लिए जाम कर दिया. स्थानीय निवासी तौकीर अहमद उर्फ सिकंदर ने कहा कि अपराधियों को जल्द चिन्हित कर उनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि अपराधी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि ₹तुम्हें घर के पास मारेंगे₹, जो पुलिस प्रशासन के लिए सीधी चुनौती है. वहीं सदाम हुसैन नामक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि जिस चौक के चारों ओर पुलिस थाने और चौकियां हैं, वहां इस तरह की घटना पुलिस की नाकामी को उजागर करती है.

बताया गया कि मृतक वसीम खान प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा अपने भाइयों के साथ पांच दुकानों का संचालन भी करते थे. उनका परिवार मेहसौल चौक स्थित उसी इलाके में रहता है जहां यह घटना हुई. इस वारदात के बाद कारोबारी वर्ग में भारी दहशत है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और कमजोर व्यवस्था के चलते अपराधी बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं.

कारोबार

लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी सहित कई उत्पादों पर अतिरिक्त 10 % की छूट

नयी दिल्ली । टाटा समूह के इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल ब्रांड क्रोमा ने जुलाई महीने में ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर लेकर 'एक्स्ट्रा डील डेज़' की शुरुआत कर दी है. इस खास ऑफर में सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक पर एक्सक्लूसिव डील्स मिल रही हैं. ग्राहक लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी, वाशिंग मशीन, फ्रिज और पर्सनल गैजेट्स पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक की छूट और चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर बड़ा कैशबैक पा सकते हैं.थीम के मुताबिक सोमवार को एसी, मंगलवार को वाशिंग मशीन और फ्रिज, बुधवार को टीवी, गुरुवार को स्मार्टफोन और शुक्रवार को लैपटॉप व गैजेट्स पर खास ऑफर दिए जा रहे हैं.जबरदस्त डील्स में सैमसंग 9 किलो वाशिंग मशीन 33,500 रु.में 20% कैशबैक, एलजी 17,000 रु. में 5% कैशबैक और ओपन टीवी पर 50% तक की छूट दी जा रही है.

मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटो जी96 5जी

एजेंसी । मोटोरोला, मोबाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में मशहूर और भारत के अग्रणी एआई स्मार्टफोन ब्रांड ने रविवार को मोटो जी96 5जी को लॉन्च किया. यह इस साल का पहला जी-सीरीज फोन है और पिछले साल के सबसे लोकप्रिय ₹20,000 से कम कीमत वाले फोन मोटो जी85 5जी का अगला संस्करण है. इस फोन में ₹20,000 से कम कीमत में शानदार फीचर्स दिए गए हैं. इसमें सेगमेंट का सबसे बेहतरीन 144एचजेड 3डी कर्व्ड पोलेड एफएचडी प्लस डिस्प्ले है, जो आईपी68 वाटरप्रूफ सुविधा के साथ आता है. साथ ही, 50एमपी ओएस सोनीलाइटा 700C कैमरा है, जो मोटो एआई और सभी लेंसों से 4के वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. फोन में स्नैपड्रैगन® 7एस जेन 2 प्रोसेसर है, जो 650के तक का एनटूटू स्कोर देता है. यह फोन प्रीमियम वीगन लेदर डिज़ाइन में आता है, और बेहद हल्का एवं पतला है.

रूस से कच्चे तेल की खरीदी 11 महीने के उच्चतम स्तर पर

भारत बना दूसरा सबसे बड़ा खरीदार

एजेंसी ।नयी दिल्ली

भारत ने जून 2025 में रूस से कच्चे तेल की खरीद 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दी है. अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार, इस्राइल-ईरान युद्ध की आशंका और आपूर्ति सुरक्षा को लेकर भारत के रिफाइनर्स ने बड़ी मात्रा में रूसी तेल का भंडारण किया. इस महीने रूस से भारत की तेल आयात 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है. वैश्विक एनर्जी थिंक टैंक सीआरईए और किप्लर के मुताबिक, भारत की कुल तेल आयात जून में 6% घटी, लेकिन रूस से आयात में 8% की वृद्धि दर्ज हुई. अब रूस भारत की कुल तेल आपूर्ति में 40% हिस्सेदारी रखता है. तीन बड़ी रिफाइनरियों ने अकेले ही इस तेल का बड़ा हिस्सा आयात किया, जो जी7+ देशों को प्रोसेस्ड प्रोडक्ट भी निर्यात करती हैं.

पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से दूरी : मध्य पूर्व के पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ताओं से भारत की निर्भरता कम होती जा रही है. जून में भारत ने इराक से 8.93 लाख बैरल प्रतिदिन तेल मंगाया, जो पिछले महीने की तुलना में 17% कम है. सऊदी अरब से लगभग 5.81 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात हुआ, जो लगभग स्थिर रहा. यूएई से आयात 6.5% बढ़कर 4.90 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया.

दूसरे देशों से भी बढ़ा रुझान : रूस के बाद भारत का रुझान अमेरिका और ब्राजील की ओर भी बढ़ रहा है. एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, 2025 के पहले छह महीनों में अमेरिका से भारत का कच्चे तेल का आयात 51% बढ़कर 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया. वहीं ब्राजील से तेल आयात 80% बढ़ा है, जो दर्शाता है कि भारत ओपीईसी से बाहर के देशों की ओर अपना झुकाव बढ़ा रहा है.

राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति का असर : भारत की यह रणनीति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक भी है. अमेरिका में नई सरकार के साथ रिश्ते सुधारने और तेल स्रोतों में विविधता लाने की नीति के तहत, अमेरिका और ब्राजील से आयात बढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही, भारत रूसी छूट वाली आपूर्ति का भी फायदा उठा रहा है, जिससे रिफाइनिंग कंपनियों की लागत कम होती है.

चीन के बाद भारत बना दूसरा सबसे बड़ा खरीदार : सीआरईए के अनुसार, जून में चीन ने रूस से 47% तेल खरीदा, जबकि भारत ने 38% हिस्सा लिया. यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने क्रमशः 6-6% तेल खरीदा. भारत ने जून में रूस से 4.5 अरब यूरो मूल्य के फॉसिल फ्यूल आयात किए, जिसमें 80% यानी 3.6 अरब यूरो सिर्फ कच्चे तेल के आयात पर खर्च हुए. इससे स्पष्ट है कि भारत अब न केवल रूस का रणनीतिक साझेदार बन चुका है,

सितंबर में महंगी होंगी मर्सिडीज बेंज की कारें

नयी दिल्ली। मर्सिडीज बेंज इंडिया सितंबर से अपनी गाड़ियों की कीमत में 1 से 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने जा रही है. कंपनी के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने बताया कि यूरो के मुकाबले रुपये की कमजोरी के चलते यह फैसला लिया गया है. यह इस साल की तीसरी कीमत बढ़ोतरी होगी. इससे पहले जनवरी और जुलाई में कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं. अय्यर ने कहा कि ईएमआई पर गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्याज दरों में कुछ राहत मिली है. कंपनी की 80 प्रतिशत कारें फाइनेंस के जरिए बेची जाती हैं. उन्होंने यह भी बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई संकट नहीं है और स्टॉक पर्याप्त है. हालांकि, उन्होंने माना कि जियोपॉलिटिकल हालातों की वजह से इस साल कंपनी की ग्रोथ स्थिर रह सकती है.

भारत में इन्फिनिक्स एचओटी 60 5 जी + लॉन्च हुआ

वन टैप एआई बटन के साथ एक नया गेमिंग-रेडी स्मार्टफोन

एजेंसी ।नयी दिल्ली

नए युग के स्मार्टफोन ब्रांड, इन्फिनिक्स ने अपना लेटेस्ट एचओटी 60 5 जी + लॉन्च किया है. जबरदस्त फीचर्स वाला यह स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो बहुउपयोगिता, स्पीड और लंबे समय तक शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. एचओटी 60 5G+ में इस उद्योग के कई अग्रणी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें कस्टमाईज़ेबल वन टैप एआई बटन, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर, 500,000 से अधिक एंटुटू स्कोर, 6जीबी एलपीडीडीआर5एक्स रैम, 90एफपीएस गेमिंग सपोर्ट और आईपी64-सर्टिफाईड स्लिम 5 जी डिज़ाईन हैं. इतनी सारी खूबियों के बाद भी लॉन्च के दिन इस स्मार्टफोन की कीमत केवल 9,999 रुपये (प्रिपेड ऑफरों के साथ) होगी. यह डिवाईस फ्लिपकार्ट और रिटेल स्टोर्स पर तीन रंगोंः शैडो ब्लू, टुंड्रा ग्रीन और स्लीक ब्लैक में उपलब्ध होगी, जो अपने परफॉर्मेंस डीएनए के अनुसार प्रीमियम अपील प्रदान करेगी.वन टैप एआई बटनः एआई पॉवर आपकी उंगलियों पर एचओटी 60 5 जी + में इस उद्योग का पहला कस्टमाईज़ेबल वन टैप एआई बटन दिया गया है.

यह स्मार्टफोन के डिज़ाईन में इंटीग्रेट होकर दैनिक कामों का आसान नियंत्रण प्रदान करता है. दो बार प्रेस और लंबा प्रेस के ड्युअल फंक्शन के साथ यह फीचर 30 से अधिक ऐप्स और एक्शंस के लिए कस्टमाईज़ किया जा सकता है, जिससे दैनिक टास्क ज्यादा तेज व प्रभावशाली बन जाते हैं. चाहे तेजी से टाईपिंग करना हो, या गेमिंग और आवश्यक टूल्स तुरंत शुरू करने हों, वन टैप एआई बटन हर काम को बहुत आसान बना देता है. लंबा प्रेस करने पर तुरंत इन्फिनिक्स का बिल्ट-इन एआई असिस्टेंट फॉलेक्स एक्टिवेट हो जाता है.

टाटा डिजिटल और जोमैटो की साझेदारी, नेउ कार्ड से फूड ऑर्डर पर रिवॉर्ड्स

नयी दिल्ली । लाखों भारतीयों के लिए फूड ऑर्डरिंग अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, लोकप्रिय फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म ज़ोमैटो ने टाटा डिजिटल के साथ साझेदारी की है. इस गठबंधन के तहत, टाटा नेउ एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड (नेउकार्ड) से ज़ोमैटो पर ऑर्डर पेमेंट करने वाले ग्राहकों को विशेष रिवॉर्ड्स मिलेंगे. इस नए डिस्काउंट प्रोग्राम में, नेउकार्ड यूज़र्स को ज़ोमैटो मनी के रूप में हर ऑर्डर पर 10 फीसदी तक कैशबैक मिलेगा. यह सुविधा 99 रूपये या उससे अधिक के हर फूड ऑर्डर पर उपलब्ध है. इसके साथ ही ग्राहक हर ट्रांजैक्शन पर नेउकॉइन भी कमा सकते हैं, जिसे टाटा नेउ ऐप पर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की ख़रीदारी में इस्तेमाल किया जा सकता है. ज़ोमैटो के वाइस प्रेसिडेंट (प्रोडक्ट) राहुल गुप्ता ने कहा, 'हम ग्राहकों का अनुभव बेहतर बनाने और उन्हें अधिक वैल्यू देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. टाटा नेउ के साथ हमारी साझेदारी इसी दिशा में एक सार्थक कदम है.' टाटा डिजिटल के प्रेसिडेंट (फाइनेंशियल सर्विसेस) गौरव हज़रती ने कहा, 'ज़ोमैटो के साथ हमारा सहयोग ग्राहकों को स्वादिष्ट भोजन के साथ शानदार रिवॉर्ड्स देने का अवसर है.

पार्क का उद्घाटन | भारत में पहली बार एक्वा टेक पार्क, मछली उत्पादन को बढ़ावा

असम में युवाओं को पर्याप्त कमाई के अवसर मिलेंगे

एजेंसी ।असम

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने सोनापुर में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे संबंधित पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क असम के सोनापुर में उद्घाटन किया गया । यह मछली उत्पादन को काफी बढ़ावा देगा और असम में युवाओं को पर्याप्त कमाई के अवसर प्रदान करेगा।

केंद्र ने 2015 से मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,572 करोड़ रुपये का निवेश किया : पीआईबी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 2025-26 की बजट घोषणा रणनीतिक रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, सीमा शुल्क को कम करके किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने और समुद्री मत्स्य पालन के विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार ने 2015 से मत्स्य पालन क्षेत्र में संचयी रूप से 38,572 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके परिणामस्वरूप देश में मछली उत्पादन दोगुना हो गया है।

मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सरकार की योजनाएं : सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की परिकल्पना 2020 में की गई थी ताकि मछुआरों, मछली किसानों और अन्य हितधारकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। यह 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिए लागू है। यह पहल अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में मजबूती से उतरती है। उत्पादन बढ़ाने और मजबूत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है।

कृषि क्षेत्र में असम ने दिखाई मजबूती : कृषि क्षेत्र में, असम ने खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2024-25 के दौरान लगभग 7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करके धान खरीद में एक नया रिकॉर्ड बनाया. सम के माजुली जिले के किसानों ने पश्चिम एशिया और यूरोपीय संघ के बाजारों में 267 मीट्रिक टन लाल चावल का निर्यात किया। असम के नदी द्वीप जिले माजुली ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है क्योंकि इसके स्वदेशी जैविक लाल बाओ धान ने वैश्विक बाजार में अपनी शुरुआत की है।.

स्क्रीन एकेडमी का शुभारंभ, उभरते सितारों को तराशने का शानदार मंच

एजेंसियां । एजेंसी

मुंबई. इंडियन एक्सप्रेस समूह और स्क्रीन ने भारतीय सिनेमा की उभरती प्रतिभाओं को संवारने और उन्हें रचनात्मक मंच देने के उद्देश्य से बुधवार को 'स्क्रीन अकेडमी' की शुरुआत की. यह गैर-लाभकारी पहल न सिर्फ उभरते फिल्मकारों को शिक्षा व मेंटरशिप देगी, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर फेलोशिप भी प्रदान करेगी. इस पहल से ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा, कान ग्रां प्री विजेता पायल कपाड़िया, ऑस्कर विजेता साउंड डिज़ाइनर रेसुल पुकुट्टी, प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक सुभाष घई और आरएसवीपी फिल्म्स के संस्थापक रॉनी स्क्रूवाला जैसे फिल्म जगत के दिग्गज जुड़े हैं.लोढ़ा फाउंडेशन के संस्थापक संरक्षक अभिषेक लोढ़ा के सहयोग से बनी स्क्रीन अकेडमी देश के प्रतिष्ठित फिल्म संस्थानों- एफटीआईआई (पुणे), एसआरएफटीआई(कोलकाता) और व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल (मुंबई) के विद्यार्थियों को फेलोशिप देगी. उन छात्रों को अवसर मिलेगा, जो प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन आर्थिक कारणों से औपचारिक फिल्म शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल मुंबई फिल्म उद्योग के लिए प्रासंगिक और समयानुकूल है. 'यह अकेडमी भारतीय सिनेमा को नई पीढ़ी के फिल्म निर्माताओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगी.

क्राउली-गिल विवाद पर इंग्लैंड टीम के गेंदबाजी सलाहकार टिम साउदी ने भारतीय कप्तान पर साधा निशाना ,कहा

गिल ने भी कई बार बैटिंग के दौरान चोट देने की रणनीति बनाई

एजेंसियां। लंदन

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट के तीसरे दिन का अंतिम ओवर काफी मनोरंजन से भरपूर रहा. दरअसल, भारत के ऑलआउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए आई और ज्यादा ओवर का खेल न हो सके, इसके लिए उसके बल्लेबाज चोट लगने का ड्रामा करने लगे. इससे भारतीय टीम नाराज हो गई थी, खासतौर पर कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने 'इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट' का इशारा कर क्राउली को रिप्लेस करने को कहा था और इंग्लैंड टीम पर चुटकी भी ली थी.

अब यह मामला चर्चा का विषय बन चुका है और दुनिया भर के क्रिकेटर्स और फैंस इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

इसी कड़ी में इंग्लैंड टीम के गेंदबाजी सलाहकार टिम साउदी का भी इस पर बयान आया है. उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर निशाना साधा है और कहा कि गिल ने भी कई बार बैटिंग के दौरान इस तरह के चोट की रणनीति बनाई. साउदी ने उदाहरण देते हुए कहा कि लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन गिल मैदान पर पता नहीं मसाज (मालिश) क्यों ले रहे थे. वहीं, केएल राहुल ने कहा कि भारतीय फील्डर्स और घरेलू टीम के सलामी बल्लेबाजों के बीच हुई तीखी बहस टेस्ट क्रिकेट में एक कठिन मुकाबले का सार थी.

क्या है पूरा मामला: खासतौर पर स्ट्राइक पर मौजूद रहे जैक क्राउली की तरफ से खूब ड्रामा हुआ. क्राउली जसप्रीत बुमराह के रन अप के बाद स्ट्राइक से हट गए थे. बुमराह ने अंपायर से इसकी शिकायत भी की. फिर क्राउली ने अगली गेंद को सीधे बल्ले से खेलने के बावजूद अंगुली में

चोट का नाटक किया. इस पर भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया. कुछ खिलाड़ियों ने क्राउली की इस हरकत पर ताली बजाई, तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ताली बजाते हुए उनके करीब पहुंचे और इम्पैक्ट सब का इशारा करते हुए क्राउली से वापस जाने को कहा. इस पर क्राउली भी बौखला गए और कुछ-कुछ कहने लगे. फिर गिल ने क्राउली को अंगुली दिखाकर चेतावनी भी दी. इस पर बेन डकेट भी गिल के पास पहुंचे और कुछ कहते दिखाई दिए. गिल ने उनका भी मुंहतोड़ जवाब दिया. ओवर की आखिरी गेंद पर क्राउली बीट हुए तो बिना कुछ बोले पवेलियन की ओर लौट पड़े.

टिम साउदी ने क्या कहा: टिम साउदी ने इस पर बयान देते हुए कहा, यह अच्छा है. अंत में दोनों टीमों की तरफ से जोश देखना हमेशा रोमांचक होता है. दूसरे दिन के खेल के बीच में जब गिल मालिश करवाने के लिए बीच मैदान में लेटे हुए थे, तो पता नहीं वह किस बात की शिकायत कर रहे थे. यह स्पष्ट रूप से खेल का हिस्सा है. दिन के अंत में, यह दिन खत्म करने का एक रोमांचक तरीका है. क्राउली की चोट के बारे में पूछे जाने पर, साउदी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, हां, क्राउली की रात भर जांच की जाएगी. उम्मीद है कि वह चौथे दिन खेलने के लिए ठीक होंगे और बल्लेबाजी के लिए आएंगे.

राहुल ने क्या कहा : राहुल ने कहा कि क्राउली की रणनीति उन्हें समझ में आती है क्योंकि वह खुद एक सलामी बल्लेबाज हैं. उन्होंने कहा, तीसरे दिन के अंत में जो हुआ वह अब खेल का हिस्सा है. मैं एक सलामी बल्लेबाज के नजरिए से समझता हूं. मुझे ठीक-ठीक पता है कि क्या हो रहा था और सभी को ठीक-ठीक पता है. लेकिन एक सलामी बल्लेबाज पूरी तरह समझ जाएगा कि आखिरी पांच मिनट में क्या हुआ. गिल भी जोश में थे और स्टंप माइक से आए ऑडियो में उनकी भावनाएं झलक रही थीं. राहुल ने कहा, मैंने उन्हें कई बार जोश में देखा है, लेकिन जाहिर है कि यहां हम दो ओवर फेंकना चाहते थे. छह मिनट बचे थे और इसमें दो ओवर कोई बड़ी बात नहीं है. कोई भी टीम छह मिनट में दो ओवर फेंक लेगी.

राहुल ने कहा, 'अंत में मैच थोड़ा नाटकीय था.

हम सभी उत्साहित थे क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप पूरे दिन मैदान पर रहे हों तो बल्लेबाज के लिए दो ओवर बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल होता है। हमें उम्मीद थी कि हम वहां एक विकेट ले पाएंगे और दिन के खेल के अंत में एक विकेट हमारे लिए एकदम सही होता.' इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए .जवाब में भारत की पहली पारी भी 387 रन पर समाप्त हुई. इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए दो रन बना लिए हैं. मैच रोमांचक मोड़ पर है और दो दिन का खेल बाकी है. फिलहाल तीनों नतीजे संभव हैं.

न्यूजीलैंड ने कॉनवे को टीम में किया शामिल

नयी दिल्ली। जिम्बाब्वे में होने वाली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने विकेटकीपर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को टी20 स्क्वाड में शामिल किया है. उन्होंने फिन एलन की जगह ली है, जो मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) 2025 के दौरान लगी चोट के कारण बाहर हो गए थे. न्यूजीलैंड टीम के मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने एक बयान में कहा कि हम फिन के लिए वाकई बहुत दुखी हैं. मैं उनके साथ काम करने और एमएलसी से उनके अच्छे प्रदर्शन को जारी रखने के लिए उत्सुक था, लेकिन दुर्भाग्य से चोटें लग जाती हैं. हम भाग्यशाली हैं कि फिन की जगह डेवोन जैसे अनुभवी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर पा रहे हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड ने माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र की चौकड़ी के अतिरिक्त कवर के रूप में मिच हे, जिमी नीशम और टिम रॉबिन्सन को भी टीम में शामिल किया है. त्रिकोणीय श्रृंखला की शुरुआत कल यानी सोमवार से हो रही है. श्रृंखला का फाइनल मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा. न्यूजीलैंड अपना पहला मुकाबला 16 जुलाई को साउथ अफ्रीका से खेलेगी.

अवंतिका ने कैटरीना लागनो और दिव्या देशमुख ने थेओडोरा इंजाक को हराया

बटुमी (जॉर्जिया)। भारतीय ग्रैंडमास्टर अवंतिका अग्रवाल और दिव्या देशमुख ने यहां 691250 डॉलर पुरस्कार वाले फिडे विश्व महिला शतरंज कप में क्रमशः रूस की कैटरीना लागनो और सर्बिया की थेओडोरा इंजाक के खिलाफ तीसरे दौर का पहला गेम जीतकर प्री-क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर ली.इस नॉकआउट प्रतियोगिता में अब सिर्फ 32 प्रतिभागी बचे हैं. वंतिका ने ऊंची रैंक वाली लागनो को हराकर भारतीय महिलाओं के बीच अपनी तेजी से बढ़ती प्रतिष्ठा का एक और संकेत दिया है. खिताब की दावेदार दिव्या अपनी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए काले मोहरों से थेओडोरा को हराया. भारत की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त कोनेरू हम्पी को इस बीच पोलैंड की कुलॉन क्लॉडिया के साथ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा. सफेद मोहरों के साथ यह परिणाम थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि उनसे जीत की उम्मीद की जा रही थी. डी हरिका भी जीत हासिल नहीं कर सकीं और उन्होंने त्सोलाकिदौ स्टावरौला के साथ ड्रॉ खेला. आर वैशाली ने अमेरिका की कैरिसा यिप के साथ ड्रॉ खेला.

विम्बलडन में रचा इतिहास, पहली बार जीता महिला एकल खिताब

विम्बलडन 2025 की नयी क्वीन बनीं पोलैंड की इगा स्वियातेक

एजेंसियां। लंदन

पोलैंड की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने शनिवार को विम्बलडन 2025 के महिला एकल फाइनल में इतिहास रचते हुए अपने करियर का पहला विम्बलडन खिताब जीत लिया है. 24 वर्षीय स्वियातेक ने अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा एनिसिमोवा को महज 26 मिनट में 6-0, 6-0 से हराकर टेनिस जगत में एक नया अध्याय जोड़ दिया.यह जीत न केवल स्वियातेक के लिए भावनात्मक रूप से खास रही, बल्कि उन्होंने पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी बनने का गौरव भी हासिल किया है जिन्होंने विम्बलडन का खिताब अपने नाम किया है.

स्वियातेक की ऐतिहासिक उपलब्धियां : यह इगा स्वियातेक का छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है. इससे पहले वे चार बार फ्रेंच ओपन और एक बार यूएस ओपन जीत चुकी हैं. खास बात यह है कि उन्होंने अब तक खेले सभी छह ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबले जीते हैं, यानी उनका फाइनल में जीत का रिकॉर्ड शतप्रतिशत है.

अमांडा एनिसिमोवा पूरी तरह बिखरीं : 23 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा एनिसिमोवा के लिए यह फाइनल किसी दुःस्वप्न से कम नहीं रहा. वे पूरे मुकाबले में एक भी गेम नहीं जीत सकीं. स्वियातेक के आक्रामक अंदाज और बेजोड़ नियंत्रण ने उन्हें कोर्ट पर टिकने नहीं दिया. इस तरह की एकतरफा जीत विम्बलडन जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में विरले ही देखी जाती है.

क्ले से ग्रास तक: स्वियातेक का सफर : स्वियातेक को अब तक क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट माना जाता था, खासकर राफेल नडाल की तरह. लेकिन इस बार उन्होंने ग्रास कोर्ट पर भी अपनी बादशाहत साबित कर दी है. अब वे हर प्रमुख सर्फेस पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाली चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो चुकी हैं.जैसे ही स्वियातेक ने मैच का अंतिम पॉइंट जीता, उन्होंने भावुक होकर कोर्ट पर बैठकर जीत का जश्न मनाया. यह क्षण टेनिस प्रेमियों के लिए लंबे समय तक यादगार रहेगा. उल्लेखनीय है कि महिला प्रोफेशनल टेनिस की शुरुआत 1926 में हुई थी, और 99 वर्षों बाद 2025 में, पोलैंड की किसी महिला खिलाड़ी ने पहली बार विम्बलडन ट्रॉफी उठाई. यह उपलब्धि खुद में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है.

छठा ग्रैंडस्लैम जीता : महिलाओं में पूर्व नंबर एक स्वियातेक ने अब तक कभी विंबलडन का खिताब नहीं जीता था. महिला एकल वर्ग में यह उनका छठा ग्रैंडस्लैम खिताब है. इससे पहले उन्होंने चार बार फ्रेंच ओपन और एक बार यूएस ओपन का खिताब जीता था. स्वियातेक ने 2020, 2022, 2023, 2024 में फ्रेंच ओपन और 2022 में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था.

शुरुआत से सहज नहीं दिखीं अमांडा : स्वियातेक ने महज 57 मिनट में खिताबी मुकाबला अपने नाम किया. यह 114 साल में पहली बार हुआ है जब टूर्नामेंट के महिला एकल वर्ग के फाइनल में कोई खिलाड़ी एक भी गेम अपने नाम नहीं कर सकी है. स्वियातेक का इसके साथ ही बड़े खिताबी मैचों में रिकॉर्ड 6-0 हो गया है. अमांडा शुरुआत से ही मुकाबले में सहज नजर नहीं आईं और उन्होंने 28 बेजां भूलें की.

ग्रैंडस्लैम में दर्ज की 100वीं जीत: स्वियातेक की यह करियर ग्रैंडस्लैम में 100वीं जीत है. उन्होंने 2019 में ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में डेब्यू किया था और तब से उनका ग्रैंडस्लैम के मुख्य ड्रॉ में रिकॉर्ड 100-20 का हो गया है. स्वियातेक 2022, 2023 और 2024 में ज्यादातर समय डब्ल्यूटीए रैंकिंग में शीर्ष पर रहीं, लेकिन ऑल इंग्लैंड क्लब में वह आठवीं वरीयता खिलाड़ी के तौर पर उतरी थीं.

23 साल की एनिसिमोवा का किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट का यह पहला फाइनल था. वह 2019 में 17 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थीं, लेकिन उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ब्रेक लिया था. एनिसिमोवा के लिए यह बड़ी हार है. एनिसिमोवा अपने प्रदर्शन से काफी निराश दिखीं और मैच के बाद अपने आंसू नहीं रोक सकीं.

खिताबी हैट्रिक से एक कदम दूर कार्लोस

स्पेन के कार्लोस अल्कारेज विंबलडन में खिताबी हैट्रिक लगाने से एक कदम दूर हैं.अल्कारेज का वर्ष के तीसरे ग्रैंडस्लैम के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में सामना यानिक सिनर से होगा.सिनर ने सेमीफाइनल में 24 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है.अल्कारेज लगातार दो बार विंबलडन का खिताब जीत चुके हैं और अब उन्हें सिनर की चुनौती मिलेगी.

पहली बार चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे सिनर: विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ऑल इंग्लैंड क्लब में पहली बार चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे.इस मैच में फ्रेंच ओपन के फाइनल की पुनरावृति होगी जिसमें अल्कारेज ने पहले दो सेट गंवाने और तीन मैच प्वाइंट बचाकर जीत हासिल की थी.अल्कारेज ने सेमीफाइनल में टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) से हराकर लगातार तीसरी विंबलडन चैंपियनशिप जीतने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए थे.

फ्रेंच ओपन के फाइनल में अल्कारेज को मिली थी हार: फ्रेंच ओपन के फाइनल के ठीक पांच सप्ताह बाद सिनर और अल्कारेज फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे.फर्क सिर्फ इतना है कि फ्रेंच ओपन का फाइनल लाल बजरी पर खेला गया था जबकि विंबलडन का फाइनल ग्रास कोर्ट पर होगा.अल्कारेज ने फ्रेंच ओपन का फाइनल पांच घंटे 29 मिनट में जीता था और रविवार को इन दोनों के बीच फिर से कड़ा मुकाबला होने की संभावना है.अल्कारेज का ग्रैंडस्लैम फाइनल में रिकॉर्ड 5-0 है.सिनर के नाम पर तीन ग्रैंडस्लैम खिताब हैं.अल्कारेज विंबलडन में लगातार 24 मैच जीत चुके हैं और वह इस संख्या में इजाफा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे.इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अभी तक जो 12 मैच खेले गए हैं उनमें से अल्कारेज ने आठ और सिनर ने चार मैच जीते हैं.अल्कारेज ने हालांकि इटली के खिलाड़ी के खिलाफ पिछले पांचों मुकाबले जीते हैं.

ऋषभ पंत के रन आउट पर राहुल ने कहा

'यह हम दोनों के लिए काफी निराशाजनक था'

एजेंसियां। लॉर्ड्स

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के रन आउट होने पर केएल राहुल ने कहा कि यह हम दोनों के लिए निराशाजनक था. उन्होंने कहा कि कोई भी अपना विकेट इस तरह नहीं गंवाना चाहता.

साथ ही राहुल ने बताया कि वह लंच से पहले अपना शतक पूरा करना चाहते थे. ऋषभ पंत उस समय बल्लेबाजी करने आए थे जब भारत ने 107 के स्कोर पर कप्तान शुभमन गिल के रूप में तीसरा विकेट गंवा दिया था. इसके बाद पंत ने राहुल के साथ शतकीय साझेदारी की. दोनों बल्लेबाज मैच के तीसरे दिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लंच से ठीक पहले पंत रन आउट हो गए. पंत ने 122 गेंदों पर 72 रन बनाए थे. केएल राहुल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ ओवर पहले पंत से बातचीत हुई थी. मैंने उनसे कहा कि अगर हो सका तो लंच से पहले मैं अपना शतक पूरा कर लूंगा. लंच से पहले बशीर ने आखिरी ओवर फेंका, तो मुझे लगा कि शतक बनाने का अच्छा मौका है, लेकिन, हां, बदकिस्मती से मेरी गेंद सीधे फील्डर के हाथ में चली गई. यह ऐसी गेंद थी जिस पर मैं चौका लगा सकता था. राहुल ने कहा कि वह बस स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या वह मुझे वापस स्ट्राइक पर ला सकते हैं लेकिन, हां, ऐसा नहीं होना चाहिए था. उस समय एक रन आउट ने वास्तव में खेल की गति बदल दी. राहुल ने कहा कि यह हम दोनों के लिए निराशाजनक था. जाहिर है, कोई भी अपना विकेट इस तरह नहीं गंवाना चाहता.

राहुल ने लंच के बाद अपना शतक पूरा किया, लेकिन तुरंत बाद वह आउट हो गए. राहुल ने 177 गेंदों पर 100 रन बनाए. राहुल ने कहा कि जाहिर है थोड़ी निराशा हुई. हम वाकई अच्छी स्थिति में थे. मैंने और ऋषभ ने लंबी साझेदारी की और फिर हम दोनों आउट हो गए. वह लंच से ठीक पहले आउट हो गए और मैं लंच के ठीक बाद. यह आदर्श नहीं था.

लॉर्ड्स टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म

लंदन । भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बना लिए हैं. इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि दोनों टीमों ने अपनी पहली पारी में समान 387 रन बनाए, जिससे मुकाबला अब पूरी तरह से संतुलित हो गया है. तीसरे दिन भारत ने 145/3 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया. केएल राहुल और ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान करते हुए चौथे विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की. इस दौरान राहुल ने अपने टेस्ट करियर का दसवां शतक जड़ा. वह 100 रन बनाकर आउट हुए. वहीं पंत ने तेजतर्रार अंदाज में 74 रन बनाए, लेकिन एक लापरवाह रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए. भारत ने 254 रन तक अपने पांच विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद रवींद्र जडेजा (72) और नितीश कुमार रेड्डी (34) ने छठे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी कर टीम को आगे बढ़ाया. नितीश के आउट होने के बाद जडेजा और वाशिंगटन सुंदर (23) ने सातवें विकेट के लिए 50 रन जोड़े. हालांकि भारत ने 376 रन पर अपना सातवां विकेट गंवाया, और उसके बाद सिर्फ 11 रनों के भीतर शेष तीन विकेट भी गंवा दिए. भारत की पूरी पारी 387 रनों पर समाप्त हुई.

फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी

अमेरिका का बेताज बादशाह बना डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये रेसलर

सोलो सिकोआ ने जीत के लिए सभी हथकंडे अपनाए

एजेंसियां। लास बेगास

डब्ल्यूडब्ल्यूई में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक रोमांचक मुकाबला हुआ. इस मुकाबले में सोलो सिकोआ ने जिमी उसो को हराया. सोलो सिकोआ ने जैकब फातू को हराकर यह टाइटल जीता था. अब उन्होंने पहली बार इस टाइटल को जिमी उसो के खिलाफ डिफेंड किया. स्मैकडाउन में पहले हुई एक लड़ाई के बाद दोनों भाइयों के बीच यह मुकाबला और भी रोमांचक हो गया था. इस मैच में तल्ला टोंगा की वजह से जिमी उसो हार गए. मैच के बाद जैकब फातू ने भी एंट्री की, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आ गया है. सोलो सिकोआ और जिमी उसो के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मुकाबला हुआ. यह मुकाबला काफी धमाकेदार रहा. सोलो सिकोआ ने हाल ही में जैकब फातू को हराकर यह टाइटल अपने नाम किया था. 11 जुलाई को स्मैकडाउन में जिमी उसो ने सोलो सिकोआ को हराया था. इस हार के बाद सोलो सिकोआ अपने भाई से बदला लेना चाहते थे.

जिमी उसो और ला नाइट से हारने के बाद सोलो सिकोआ और भी ज्यादा गुस्से में थे. उन्होंने अपने भाई को हराने की ठान ली थी. दोनों भाइयों के बीच की यह लड़ाई दर्शकों के लिए एक शानदार अनुभव रही. सोलो सिकोआ ने एमएफटी के साथ एंट्री की, जबकि जिमी उसो पहले से ही रिंग में उनका इंतजार कर रहे थे. स्मैकडाउन में हुई लड़ाई के बाद हर कोई इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित था.

यह जिमी उसो का डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहला सिंगल्स चैंपियनशिप मैच था. वहीं, सोलो सिकोआ पहली बार किसी टाइटल को डिफेंड कर रहे थे. मैच की शुरुआत में ही दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे पर जोरदार हमले किए. जिमी उसो लगभग जीतने ही वाले थे, जब उन्होंने टॉप रोप से सोलो पर छलांग लगाई, लेकिन सोलो ने उन्हें ठीक समय पर किक मार दी. मैच में ज्यादातर समय जिमी उसो का पलड़ा भारी रहा. सोलो सिकोआ ने कई बार वापसी करने की कोशिश की, लेकिन जिमी उसो ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया. दुर्भाग्य से, एमएफटी और खासकर तल्ला टोंगा, जिमी उसो की हार का

कारण बने. जब ऐसा लग रहा था कि सोलो हारने वाले हैं, तभी उन्होंने पूरा सीन बदल दिया. जिमी ने टॉप से पूरे ग्रुप पर कार्क स्क्रू किया, लेकिन तल्ला टोंगा ने ध्यान भटका दिया. जब जिमी उसो दूसरों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सोलो ने इस मौके का फायदा उठाया और जिमी को रोल करके पिन कर दिया. तल्ला टोंगा ने भी अपने पैरों से सोलो को टिकाए रखने में मदद की, जिससे सोलो को जीत मिल गई. सोलो सिकोआ ने जिमी उसो को पिन करके हरा दिया.

कोई बल्लेबाज 50+ नहीं बना पाया, शमार जोसेफ को चार विकेट

दिन-रात्रि क्रिकेट टेस्ट:पहली पारी में 225 रन पर सिमटा ऑस्ट्रेलिया

एजेंसी ।जमैका

शमार जोसेफ की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन-रात्रि क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 225 रन पर समेटने के बाद एक विकेट पर 16 रन बनाए. वेस्टइंडीज ने एकमात्र विकेट केवलोन एंडरसन (03) का गंवाया जिन्हें अपना 100वां टेस्ट खेल रहे मिचेल स्टार्क ने बोल्ड किया.स्टार्क 100 टेस्ट मैच की उपलब्धि हासिल करने वाले 16वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं.

दिन का खेल खत्म होने पर सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग आठ रन, जबकि कप्तान रोस्टन चेज तीन रन बनाकर खेल रहे थे. वेस्टइंडीज की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया से 209 रन से पीछे है.ऑस्ट्रेलिया की टीम इससे पहले शमार जोसेफ (33 रन पर चार विकेट), जस्टिन ग्रीव्स (56 रन पर तीन विकेट) और जेडन सील्स (59 उन पर तीन विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने 70.3 ओवर में 225 रन पर सिमट गई.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सैम कोन्सटास (17) का विकेट गंवाकर लंच तक एक विकेट पर 50 रन बनाए. उन्हें ग्रीव्स ने पगबाधा किया.दूसरे सत्र में भी ऑस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (23) और कैमरन ग्रीन (46) के विकेट गंवाकर स्कोर तीन विकेट पर 138 रन तक पहुंचाया. ख्वाजा को जोसेफ ने विकेटकीपर शाई होप के हाथों कैच कराया, जबकि ग्रीन को सील्स ने बोल्ड किया.

तीसरा सत्र हालांकि वेस्टइंडीज के नाम रहा और उसके गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम सात विकेट 68 रन पर चटकाए. स्टीव स्मिथ 48 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की ओर से शीर्ष स्कोरर रहे. वहीं, हेड 20 रन, ब्यू वेबस्टर एक रन,

एलेक्स कैरी 21 रन और कप्तान पैट कमिंस 24 रन बनाकर आउट हुए. मिचेल स्टार्क खाता नहीं खोल सके, जबकि हेजलवुड चार रन बनाकर आउट हुए. बोलैंड पांच रन बनाकर नाबाद रहे.

ब्रीफ न्यूज

बिजली चोरी के खिलाफ 15 से अधिक पर कार्रवाई

चौपारण (हजारीबाग)। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के निर्देश पर 11 जुलाई 2025 को चौपारण प्रखंड क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष छापामारी अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई मुख्यालय रांची के पत्रांक 217/APTके आलोक में की गई.छापामारी दल में कनीय अभियंता सौरभ लिंडा, सहायक अभियंता सत्य नारायण भोगता सहित विद्युत विभाग के कर्मी शामिल थे. अभियान के दौरान चौपारण थाना क्षेत्र के महाराजगंज और चतरा मोड़ इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई.बिजली चोरी में लिप्त 15 से अधिक उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए विभाग ने कुल 3 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं.

कल विशेष बैंकिंग शिविर

जयनगर (कोडरमा)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सभी लाभुकों के लिए एनपीसीआई मैपिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है. बीडीओ सह सीओ गौतम कुमार ने बताया कि बिना एनपीसीआई मैपिंग के योजना की राशि लाभुकों के खाते में नहीं जाएगी. उन्होंने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार 15 जुलाई को प्रखंड सभागार में विशेष बैंकिंग शिविर का आयोजन किया गया है. इसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. उन्होंने बताया कि प्रखंड के वैसे लाभुक जिनका पीएम आवास (ग्रामीण) स्वीकृत हो चुका है लेकिन प्रथम किश्त नहीं मिली है, वे इस शिविर में अपने संबंधित बैंक प्रतिनिधियों से एनपीसीआई मैपिंग करवा सकते हैं. इसके लिए लाभुकों को आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक की छाया प्रति साथ लानी होगी. शिविर में ऑन द स्पॉट एनपीसीआई मैपिंग की जाएगी.बीडीओ ने कहा कि जो लाभुक एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराएंगे.

तिरंगा यात्रा को लेकर की गयी बैठक

डोमचांच (कोडरमा)। युवा शक्ति एक नई सोच के द्वारा आज रविवार को तिरंगा यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होटल एचएमटी इम्पायर नीरु पहाड़ी डोमचांच में हुई. बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने किया, जबकि संचालन सचिव सुजीत कुमार ने किया. इस बैठक में मुख्य रूप से शिक्षण संस्थान के निदेशक एवं युवा शक्ति एक नई सोच के सदस्य मौजूद रहे.बैठक में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई.वहीं बैठक में बताया गया कि इस बार समय को परिवर्तन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा. इस मौके पर होटल एचएमटी के निदेशक उदय मेहता, प्रेमांशु कुमार, सुनील सिंहा, अमरदीप कुमार, मिथिलेश मेहता, संतोष यादव, प्रिंस सिंह,सुजीत मेहता,रवि प्रकाश, राम पुकार भारती, उपेंद्र यादव, दिनेश कुमार, कुलदीप कुमार,पिंटू पेंटर,आशीष कुमार आदि मौजूद थे.

चितरपुर में ब्लीचिंग पाउडर से जागरूकता अभियान शुरू

चितरपुर (रामगढ़)। स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'मुस्कुराहटें' संस्था ने रविवार को चितरपुर के शिवालय रोड क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव कार्यक्रम आयोजित किया. इस पहल के तहत संस्था के कार्यकारी सदस्य शेखर कुमार दांगी, मीडिया प्रभारी राज कुमार और सदस्य कुन्दन कुमार ने स्थानीय दर्जनों कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हुए जल स्त्रोतों को संक्रमण मुक्त बनाने का प्रयास किया .शेखर कुमार दांगी ने बताया कि वर्षा के मौसम में जल स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं.

प्रचार वाहन लूटकांड का कोडरमा पुलिस ने आठ घंटे में किया खुलासा

तीन अभियुक्त गिरफ्तार ,वाहन बरामद

शुभम संदेश ।कोडरमा

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रचार वाहन लूट कांड का साधारण सोचा जा रहा था, लेकिन कोडरमा पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर इस मामले का सफल खुलासा किया. पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 12 जुलाई 2025 की शाम प्रचार वाहन कोडरमा थाना क्षेत्र के फरेन्दा की ओर जा रहा था.

जब चालक और सहयोगी ने मरियमपुर स्थित सरहुल मैदान के पास भोजन हेतु वाहन रोका. उसी समय चार संदिग्ध अपराधी एक टेम्पो से आए, उन्होंने वाहन चालक और सहयोगी को पीटा, मोबाइल छीन लिया और वाहन ले भागे.एसपी ने बताया कि सूचना मिलने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. तकनीकी व मानवीय सुरागों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 8 घंटे के अंदर वाहन रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र से बरामद हो गया और तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए. एक अन्य आरोपी अब भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम: संदीप कुमार, दिलीप कुमार, राहुल कुमार शामिल है. संदीप कुमार पर पहले से कोडरमा थाना में कांड 117/23, 222/23 और ओरमांझी थाना मामला 76/22 दर्ज है, जबकि दिलीप कुमार पर नवादा जिले में कांड 293/25 दर्ज है.घटना की प्राथमिकी कोडरमा थाना में संख्या125/25, 12-07-2025, धारा 132/309(2)भादवि के तहत दर्ज की गई है. पुलिस ने एसपी अनुदीप सिंह की त्वरित रणनीति और टीम की सफलता पर विशेष टीम के अधिकारियों को ₹1,000 तथा अन्य पुलिसकर्मियों को ₹500 नगद पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है.

छापामारी दल में शामिल रहे: थाना प्रभारी विकास पासवान (कोडरमा), तिलैया प्रभारी विनय कुमार, नवलशाही प्रभारी शशि भूषण कुमार, चंदवारा प्रभारी धनेश्वर कुमार, एसओजी प्रभारी अभिमन्यु कुमार, साथ ही सशस्त्र बल व पैंथर के जवान भी शामिल थे.एसपी ने कहा, "पुलिस की सक्रियता और तकनीकी-सह आधारित कार्रवाई का यह परिणाम है. शेष अपराधी की धरपकड़ के लिए छापामारी जारी है." एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे.

झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की महिला जिला कमेटी का हुआ विस्तार

आधी आबादी को देगा आधी भागीदारी विश्वकर्मा समाज

शुभम संदेश ।हजारीबाग

झारखण्ड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की महिला जिला कमेटी की बैठक स्थानीय भाग्यमणि विवाह भवन में आयोजित की गई . विश्वकर्मा समाज की महिला जिला कमेटी की बैठक की अध्यक्षता विश्वकर्मा समाज की हज़ारीबाग जिला अध्यक्ष मनोरमा राणा ने किया और मंच संचालन महिला जिला महासचिव कौशल्या देवी ने किया बैठक में बतौर मुख्य झारखण्ड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा उपस्थित थे . विशिष्ठ अतिथि के रूप में हज़ारीबाग जिला अध्यक्ष यदु राणा, जिला महासचिव बृजलाल राणा एवं जिला सचेतक महावीर राणा शामिल हुए . बैठक में मुख्य रूप से विश्वकर्मा समाज की हज़ारीबाग महिला जिला कमेटी का विस्तार किया गया और 27 जुलाई 2025 को भाग्यमणि विवाह भवन हज़ारीबाग महिला जिला कमेटी द्वारा सावन महोत्सव आयोजित किया जायेगा. जिसमें हज़ारीबाग जिला के सभी प्रखंडों से विश्वकर्मा समाज की महिला सैकड़ो की संख्या में भाग लेगी .मुख्य अतिथि विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा ने कहा विश्वकर्मा समाज पुरे झारखण्ड में मजबूत हुआ है .आधी आबादी को आधी भागीदारी देगा विश्वकर्मा समाज सभी जिला में विश्वकर्मा समाज की महिला कमेटी का होगा गठन .बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिला जिला अध्यक्ष मनोरमा राणा ने कहा कि 27 जुलाई को विश्वकर्मा समाज की महिला जिला कमेटी द्वारा सावन महोत्सव आयोजित किया जाएगा महिला जिला कमेटी का विस्तार कर विश्वकर्मा समाज को मजबूत करने का प्रयास है.

महिला जिला कमेटी का विस्तार किया गया : जिला अध्यक्ष - मनोरमा राणा ,जिला उपाध्यक्ष - सुनीता राणा, देवंती देवी,पूर्णिमा राणा, कविता राणा, निर्मला राणा , जिला महासचिव - कौशल्या देवी , जिला सचिव -पूनम राणा, अंजली राणा, सबिता देवी, बसंती देवी ,जिला संयुक्त सचिव -सोनी देवी, रूमा राणा, रिंकी राणा, सुषमा राणा ,जिला संगठन सचिव -बबीता राणा, कविता विश्वकर्मा, जंयती देवी ,जिला कोषाध्यक्ष - कंचन शर्मा ,जिला सहायक कोषाध्यक्ष - संगीता देवी , जिला प्रवक्ता - चंचला कुमारी , जिला कार्यकारिणी सदस्य -ममता देवी, सरस्वती देवी,पूर्णिमा राणा,पूनम राणा, बिजुल देवी, आशा देवी,ममता देवी, अनिता देवी, सुनीता राणा, पिंकी राणा उपरोक्त महिलाओं को हज़ारीबाग महिला जिला कमेटी का पदाधिकारी नियुक्त किया गया . बैठक में मुख्य रूप से काजल देवी रेखा देवी, रीना राणा, पूर्णिमा राणा, पूनम राणा, रेखा देवी, आशा देवी, बिजली देवी, ममता देवी आदि शामिल हुई .

सतगावां में भारी मात्रा में बीयर बरामद, एक धराया

कोडरमा। सतगावां थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध बीयर जब्त की. यह कार्रवाई एसपी अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना पर की गई. दर्शननाला के पास वाहन चेकिंग में स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी लेने पर 18 पेटी विभिन्न ब्रांड की बियर मिली. वाहन चालक राजन कुमार को गिरफ्तार किया गया.पांच छानबीन में पीछे से आ रही पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. पिकअप में कुल 22 पेटी बियर मिलीं. दोनों वाहनों से कुल 40 पेटी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग ₹1.5लाख बताई गई है.पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि यह खेप बिहार में अवैध व्यापार के लिए तस्करी की जा रही थी. स्थानीय ग्राम—राहतपुर, थाना बलिया (बेगूसराय) के राजन कुमार (28 वर्ष, पिताअशोक सिंह) को गिरफ्तार कर लिया गया है. सतगावां मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है.थाना प्रभारी सौरभ कुमार और टीम—अनिल कुमार सिंह, आरक्षी पवन कुमार, सुनिल यादव, चालक बाबुलाल यादव एवं सशस्त्र बल के जवानफरार चालक की तलाश में सक्रिय हैं.क्षेत्र में शराब तस्करी की निरंतर बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सतगावां थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए सतत कार्रवाई जारी रहेगी. सामाजिक सुरक्षाबलों के सहयोग से अवैध शराब की आवाजाही को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा.

1960 में दाहोद के शहीद रेलकर्मियों को दी श्रद्धांजलि

मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर हुई थी हड़ताल

शुभम संदेश ।रामगढ़

12 जुलाई 1960 को दाहोद स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर हड़ताल कर रहे रेलकर्मियों को हटाने के लिए पुलिस ने गोलीबारी कर दी. जिसमे पांच रेलकर्मी रंजीत सिंह, साखा राम, सीताराम, कृपाशंकर और खदेरन उर्फ गिरधर शहीद हो गए. जिसको लेकर ईसीआरकेयू बरकाकाना शाखा कार्यालय में शनिवार संध्या को श्रद्धांजलि आयोजित की गयी. इस मौके पर ईसीआरकेयू के अपर महामंत्री सह एआईआरएफ वर्किंग कमिटी मेम्बर मो ज़्याऊद्दीन ने कहा की आंदोलन मे मंहगाई भत्ते के भुगतान की मांग को स्वीकार किया गया प्रारंभिक स्तर पर पांच रूपए मासिक से मंहगाई भत्ते की शुरुआत हुई. बताया की आज जो भी सुविधाओं का हम उपभोग कर रहे हैं उसको पाने के लिए फेडरेशन और उसके जोनल यूनियनों के काफी संघर्ष किया है. श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद शाखा परिषद की बैठक हुई जिसमें रेलकर्मियों से सम्पर्क कर उनके समस्याओं के संकलन करने पर सहमति बनी. ईसीआरकेयू बरकाकाना शाखा कार्यालय में शनिवार संध्या को आयोजित हुई श्रद्धांजलि सह शाखा परिषद की बैठक की अध्यक्षता शाखा के अध्यक्ष पी के गांगुली तथा संचालन सचिव महेंद्र प्रसाद महतो ने किया. उपस्थित एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओ पी शर्मा ने कहा कि विभिन्न समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए हमें पहले ही की तरह अपने संघर्ष को जारी रखना है. उन्होंने उपस्थित सदस्यों और युवा रेलकर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अपने अधिकारों के संघर्ष के लिए ईसीआरकेयू को मान्यता नहीं बल्कि मानवता और एकता की जरूरत है. बैठक में सरयू प्रसाद, अशोक कुमार सिंह, कमल किशोर, संजय कुमार, डी के नायक, ईश्वर, आनंद मांझी, इकरार अहमद, अशोक कुमार महतो, मुकेश लाल, अनिल कुमार राय, हीरालाल, शादाब आलम, रामचंद्र प्रसाद, आर के प्रसाद, चन्द्रदेव, बैजनाथ, नारायण, सुनील कुमार पाठक, मो कुतुबुद्दीन, नयन प्रकाश, ओमप्रकाश यादव, सुभाष कुमार, दिलीप कुमार सहित कई रेलकर्मियों ने भाग लिया.

रामगढ़ के विकास को लेकर कृतसंकल्पित हूं : विधायक

शुभम संदेश ।रामगढ़

चितरपुर प्रखंड के मायल स्थित शमशान घाट में डीएमएफटी योजना से लगभग 65 लाख की लागत से चारहदीवारी व शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया.

शिलान्यास मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रामगढ़ विधायक ममता देवी व विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल द्वारा शीलापट का अनावरण कर किया गया. मौके पर उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा में विकास को लेकर मैं पूरी तरह से कृतसंकल्पित हूं. अब यहां चहारदीवारी के निर्माण होने से एसटीएससी समाज को काफी सुविधा होगा. साथ ही वे यहां सुरक्षित ढंग शवों को मिट्टी देने का कार्य कर सकते है.

वहीं विशिष्ट अतिथि ने संवेदक को ससमय गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व अतिथियों के यहां पहुँचने पर उनका स्वागत बुके देकर किया गया.मौके पर पूर्व पार्षद गोपाल चौधरी, मायल मुखिया फ़िरोज अंसारी, राजेन्द्रनाथ चौधरी, अमित महतो, संवेदक हर्ष चौधरी, लक्ष्मण महतो, लुमनाथ महतो, दिनेश महतो, प्रदीप महतो, मानिक पटेल, गौरीशंकर महतो सहित कई मौजूद थे.

जनचौपाल

सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने सरौनी गांव में लगाया जनचौपाल

ग्रामीणों ने सड़क व जलजमाव को लेकर जताई नाराजगी

शुभम संदेश.हजारीबाग

हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने रविवार को सदर प्रखंड के चुटियारो पंचायत अंतर्गत सरौनी गांव का दौरा कर ग्रामीणों के बीच चौपाल का आयोजन किया.

इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और अपनी समस्याओं को खुलकर रखा।चौपाल में सबसे बड़ी समस्या गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले केसुरा से सरौनी तक के जर्जर सड़क और जलजमाव की रही.ग्रामीणों ने बताया की सड़क पर गड्ढे व कीचड़ के कारण आवागमन में भारी तकलीफ होती है, विशेषकर बरसात के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है.विद्यार्थियों, मरीजों और किसानों को आवागमन में भारी दिक्कत होता है विधायक प्रदीप प्रसाद ने ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित विभागीय पदाधिकारी से दूरभाष पर बात कर समस्या से अवगत कराया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया की प्राथमिकता के आधार पर सड़क मरम्मत, जल निकासी और स्थायी समाधान की दिशा में तुरंत कार्य प्रारंभ किया जाए.विधायक ने कहा कि जनता की समस्या का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है . विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया की विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.उन्होंने कहा की क्षेत्र में जो भी अधूरे कार्य हैं, उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं.इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहा, भाजपा नेता एवं पूर्व जिप सदस्य कौलेश्वर रजक, रामअवतार शर्मा, बिरजू रवि, मुखिया प्रतिनिधि सुरेश रजक, पंचायत समिति सदस्य सतीश दास, प्रभु राम, सोनेलाल ठाकुर, अर्जून केसरी, शंकर सिन्हा, उपेन्द्र सिन्हा, अर्जुन रविदास, विपिन सिंह, प्रेम कुमार, सुबाश कुमार, मनोज यादव, सुरेश कुशवाहा, अमृत पासवान, राजू प्रसाद समेत पंचायत के कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.

गांव से महिला का शव पुलिस ने किया बरामद

चंदवारा (कोडरमा)। चंदवारा थाना क्षेत्र के थाम पंचायत के टोंगराटांड गांव में रविवार के सुबह एक महिला का शव को चंदवारा पुलिस ने बरामद महिला किया गया, जिसका पहचान उर्मिला देवी (उम्र 45 वर्ष), पति डोमन भुइंया ग्राम थाम थाना चंदवारा के रूप में की गई. मृतका के भतीजे किशोर कुमार ने बताया कि मृतका के पति मुम्बई में कार्यरत हैं. वे दो दिन पूर्व ही मुम्बई से थाम अपने घर आए थे. शनिवार दोपहर 3 बजे पती पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. जिसके बाद महिला घर से लापता हो गईं. रविवार की सुबह जब गांव के कुछ लोग शौच के लिए निकले तो मृतका के घर से करीब 200 सौ मीटर की दूरी पर एक मैदान के पास उसका शव देखा गया.घटनास्थल पर ग्रामीण व मृतका के पति भी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद इसकी सूचना चंदवारा पुलिस को दी गई.

एक नजर

चौपारण टाउन हॉल के पास गंदगी का अंबार, लोग परेशान

चौपारण (हजारीबाग)। प्रखंड मुख्यालय स्थित चौपारण टाउन हॉल के सामने और पीछे गंदगी का अंबार जमा हो गया है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं. टाउन हॉल, जहां आम जनता के कार्यक्रम और प्रशासनिक बैठकें होती हैं, उसके समीप स्थित सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसर जर्जर और उपेक्षित स्थिति में हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शौचालय परिसर केवल कागजों पर ही चालू है, जबकि वास्तविक स्थिति में वहां बदबू, गंदगी और जाम नालियों की भरमार है. सूचना बोर्ड नहीं होने और नियमित सफाई की व्यवस्था के अभाव में लोग शौचालय का उपयोग भी नहीं कर पाते.डेली मार्केट के पीछे का क्षेत्र भी सड़ांध और कचरे से बेहाल है, जिससे सुबह ब्लॉक मैदान में टहलने आने वाले लोगों को कठिनाई होती है. पूर्व बीडीओ सह सीओ सिमा कुमारी के कार्यकाल में साफ-सफाई को लेकर बनाई गई व्यवस्था उनके स्थानांतरण के बाद ठप पड़ गई.ग्रामीणों और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि नियमित सफाई, मॉनिटरिंग और जनजागरूकता अभियान चलाकर स्वच्छता बहाल की जाए.

सीसीएल चरही के सभी विभागों में भ्रष्टाचार : नीरज सिंह

चरही (हजारीबाग)। सीसीएल हजारीचाग एरिया चरही में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. यहां पर कार्यरत सभी अधिकारी और पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं. प्रबंधन के कमजोरी के कारण चोरी और हेराफेरी के साथ-साथ हर विभाग के टेबल पर बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है. सीसीएल के कोई अधिकारी-पदाधिकारी किसी को सुनने वाला नहीं है. उक्त बातें यूनाइटेड कोल वर्कर्स के क्षेत्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा.उन्होंने आगे कहा कि सीसीएल हजारीबाग एरिया के सिविल,सेल्स, ई एण्ड एम, फाइनेंस, एक्सेवेशन सहित कई ऐसे विभाग हैं, जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है.सीसीएल में कार्यरत कर्मचारियों की मौत होने के बाद उसके आश्रितों को नौकरी,मुआवजा और क्वार्टर भी बिना कमीशन के नहीं मिलता है. संवेदनशील पर वर्षो से लोग जमे हैं. बीते दिन परेज कोल परियोजना में फेटल एक्सीडेंट हुआ था.जिसको लेकर डीजीएमएस घटना को जानकारी लेने परियोजना पहुचें. लेकिन प्रबंधन के द्वारा किसी तरह की जांच और कार्यवाही नहीं हुई. बार-बार प्रबंधन को इन सभी बांतों से अवगत करवाने पर प्रबंधन टाल मटोल करते रहे .उनका पर्दाफाश करने की जरूरत है ताकि भविष्य मे किसी मजदूर के साथ अन्याय नहीं हो सके. मजदूर नेता ने मांग किया है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए.

केशर-ए-हिंद और आम गैरमजरूवा भूमि पर अवैध कब्जा

चरही (हजारीबाग)। चरही मौजा अंतर्गत केशर-ए-हिंद, खास और आम गैरमजुरूआ भूमि पर अवैध कब्जे और बंदोबस्ती का मामला सामने आया है. दर्जनों प्लॉटों पर कई लोगों ने न सिर्फ कब्जा किया है, बल्कि बंदोबस्ती करा कर एकरारनामे पर भूमि की बिक्री भी कर दी है, जबकि ऐसी सरकारी भूमि का बंदोबस्त कानूनी रूप से संभव नहीं है.भूमि खाता संख्या 49 और 50 के अंतर्गत कुल 30 से अधिक प्लॉटों में से कई पर लोगों ने घर बना लिए हैं. जानकारी के अनुसार, चुरचू के पूर्व अंचलाधिकारी शशि भूषण सिंह के कार्यकाल में भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना मिलने पर मापी कराई गई थी और संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था.हालांकि उनके तबादले के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि बंदोबस्ती हुई है तो वह पूर्व के अंचलाधिकारी के कार्यकाल में हुई होगी, जिसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल भूमि भू-माफियाओं के कब्जे में है और प्रशासनिक हस्तक्षेप की जरूरत है.

विहिप- बजरंग दल का दो दिवसीय अभ्यास वर्ग शुरू

जयनगर (कोडरमा)। प्रखंड के पावरहाउस डंडाडीह में विहिप और बजरंग दल का दो दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग रविवार को शुरू हुआ. कार्यक्रम का उद्घाटन प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह, विभाग संगठन मंत्री कौलेशवर टुडु, विभाग मंत्री अनुप यादव और जिला मंत्री पंकज दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. प्रणव उच्चारण, एकात्मकता मंत्र और विजय मंत्र के साथ वर्ग की शुरुआत हुई. प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना और उद्देश्य पर प्रकाश डाला. विभाग संगठन मंत्री कौलेशवर टुडु ने मंत्र और वर्ग गीत का अभ्यास कराया, जबकि विभाग मंत्री अनुप यादव ने कार्यकर्ताओं की भूमिका और संगठन विस्तार पर चर्चा की.मौके पर बजरंग दल विभाग संयोजक प्रशांत सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद मोदी, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख विनोद कुमार बर्णवाल, उपाध्यक्ष सदानंद सिंह, रामस्वरूप यादव, बजरंग दल प्रखंड संयोजक अजय यादव, सत्संग प्रमुख दिगंबर पांडेय, खंड कार्यवाह सुनील कुमार, शंकर दयाल पांडे सहित दर्जनों लोग मौजूद थे.

पैगाम-ए-कर्बला कॉन्फ्रेंस सह जलसे का आयोजन



जयनगर (कोडरमा)। प्रखंड के थाना मोहल्ला गौसिया मस्जिद के परिसर में अल हुसैनी फाउंडेशन के बैनर तले पैग़ाम-ए-कर्बला कॉन्फ्रेंस जलसा का आयोजन किया गया. बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया. इस मौके पर इल्म, अख़लाक़ और इस्लामी तालीमात को आम करने का मजबूत संदेश दिया गया.मुख्य वक्ता के रूप में मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना ने कर्बला की कुर्बानी को इंसानियत के लिए एक बेमिसाल पैग़ाम बताया. उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने झुकने के बजाय शहादत को गले लगाना पसंद किया, ताकि आने वाली नस्लों को यह समझाया जा सके कि हक़ और इंसाफ़ के रास्ते पर चलना ही असल कामयाबी है. अपने संबोधन में मुफ्ती साहब ने तालीम (शिक्षा) की अहमियत पर खास जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में मुसलमानों को दुनियावी और दीन दोनों तरह की तालीम को अपनाना चाहिए. मौलाना मकराना ने कहा कि आज के दौर में मुसलमानों को सिर्फ मजहबी रस्मों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि किरदार और अख़लाक़ से भी इस्लाम की तालीम को पेश करना चाहिए. जलसे की अध्यक्षता कौसरुल कादरी जबकि संचालन सब्बीर रजा औरंगाबादी ने किया. मौके पर शायर नदीम रजा फैजी, सहित अन्य मौजूद थे.

पिकअप की चपेट में आने से युवक की मौत

कोडरमा। थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा-जयनगर रोड के लोहासीकर मोड़ के समीप रविवार दोपहर करीब 3 बजे पिकअप वाहन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूपसे घायल हो गया. मृतक की पहचान बेकोबार निवासी 26 वर्षीय संदीप कुमार, पिता राजू रजक के रूप में की गई है. जबकि घायल युवक की पहचान बेकोबार निवासी 23 वर्षीय रंजन कुमार, पिता सोभा रजक के रूप में की गई है. मिली जानकारी के अनुसार उक्त दोनों युवक आपस में चचेरे भाई हैं. दोनों युवक अपने घर बेकोबार से मोटरसाइकिल से जयनगर से कोडरमा की ओर आ रहे थे. इसी बीच कोडरमा-जयनगर मुख्य मार्ग के लोहासीकर के समीप जयनगर की ओर से आ रहे एक पिकअप वैन ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया. जहां ईलाज के दौरान संदीप कुमार की मौत हो गई. जबकि रंजन का फिलहाल सदर अस्पताल में ईलाज जारी है. बताते चलें कि मृतक गुजरात में रहकर कमाई करता था. अभी कुछ दिनों पहले ही वह अपने घर बेकोबार आया हुआ था.

न्यूज अपडेट

दिल्ली के वसंत विहार इलाके में फुटपाथ पर सो रहे पांच को रौंदा

नयी दिल्ली । वसंत विहार इलाके में शनिवार देर रात नशे में धुत एक तेज रफ्तार ऑडी कार चालक ने फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया. घटना को अंजाम देने के बाद चालक कार समेत भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने कार चालक शेखर (40) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसी बीच घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया. मामले की जांच के दौरान ही पुलिस को पता चला कि एक ऑडी कार ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी.

श्रीलंकाई नौसेना ने सात भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया : संघ

नयी दिल्ली । रामेश्वरम मछुआरा संघ ने बताया कि श्रीलंकाई नौसेना ने रविवार सुबह सात भारतीय मछुआरों को दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा पार कर कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. एसोसिएशन के अनुसार, सुबह 5 बजे, श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के थंगाचिमादम के वी इसाक पॉल की मछली पकड़ने वाली नाव के चालक दल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने के आरोप में पकड़ लिया, एएनआई ने बताया. रामेश्वरम मछुआरा संघ के अनुसार, रामेश्वरम मछली पकड़ने के बंदरगाह से परमिट प्राप्त करने के बाद शनिवार को कुल 456 मछली पकड़ने वाली नौकाएं समुद्र में उतरीं. गिरफ्तार मछुआरों की पहचान पी तुथर (40), पी एडिसन (51), शनमुगम (50), शक्तिवेल (47), जगदीश (48), दल्विन राज (46) और मंथोप के अंबाझगन के रूप में की गई है.

जयपुर के रामगंज में दो समुदायों के बीच पथराव, माहौल तनावपूर्ण

जयपुर । राजस्थान की राजधानी जयपुर के संवेदनशील माने जाने वाले रामगंज इलाके में शनिवार को दो समुदायों के बीच अचानक पथराव हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया. यह घटना बाबू का टीका इलाके में उस समय हुई जब एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक समुदाय के कुछ युवकों पर आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र की एक महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार किया, जिसके बाद दूसरा पक्ष मौके पर पहुंचा और बहस शुरू हो गई. यह बहस जल्द ही झगड़े में बदल गई और दोनों समुदायों के लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर पथराव किया.

विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से चीन की तीन दिवसीय यात्रा पर

नयी दिल्ली । विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज रविवार से चीन की तीन दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं. वे वहां तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे. यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद यह जयशंकर की पहली चीन यात्रा है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर 2023 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई थी. यह पिछले लगभग पांच वर्षों में पहली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत थी.

राजा रघुवंशी हत्याकांड : सोनम के आरोपी को मिली जमानत

शिलांग । इंदौर के चर्चित व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां इस हत्याकांड से जुड़े दो सह-आरोपियों लोकेन्द्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है. लोकेन्द्र सिंह तोमर वही व्यक्ति हैं जिनके फ्लैट में सोनम ने हत्या के बाद कुछ समय के लिए शरण ली थी. वहीं बलबीर अहिरवार उस फ्लैट का सुरक्षा गार्ड है. दोनों पर आरोप था कि इन्होंने मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की और जांच में बाधा डाली. लेकिन उनके वकील ने बताया कि दोनों ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया और उन पर सिर्फ जमानती धाराएं लगी थीं. इसी आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी.

तमिलनाडु : मालगाड़ी में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया

चेन्नई । तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के पास रविवार सुबह एक मालगाड़ी में भीषण आग लग गई, जिसे दमकलकर्मियों के काफी प्रयासों के बाद करीब दो घंटे बाद बुझाया जा सका. हादसे के कारण चेन्नई-अरक्कोणम रेलमार्ग पर सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं. खतरे को देखते हुए आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. आग तिरुवल्लुर-एगट्टूर खंड में लगी, जो चेन्नई सेंट्रल से 43 किमी दूर है. रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सुबह करीब साढ़े चार बजे एक मालगाड़ी में अचानक आग भड़क गई, जो तेजी से पांच वैगनों तक फैल गई. यह मालगाड़ी एननोर से 45-52 डीजल टैंकर ले जा रही थी.

कैलाश मानसरोवर यात्रा, श्रद्धालु खुश

तीसरा दल पिथौरागढ़ से धारचूला रवाना, 46 श्रद्धालुओं में 12 महिलाएं

पिथौरागढ़ । कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा दल, जिसमें 34 पुरुष और 12 महिला श्रद्धालु शामिल हैं, रविवार को टनकपुर से पिथौरागढ़ के कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) पहुंचा. यहां से भोले बाबा के जयकारों के साथ दल धारचूला के लिए रवाना हुआ. केएमवीएन में श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया. यात्रियों ने प्रशासन और केएमवीएन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए स्मृति चिह्न भेंट किए. दल में उत्तर प्रदेश (11) और गुजरात (7) के सबसे अधिक यात्री हैं. 19 वर्षीय शिवम पोरवाल (दिल्ली) सबसे युवा यात्री हैं. इस दल के लाइजनिंग ऑफिसर अरुणव लारूविया और हरीश भाई मगनलाल हैं. इस दल में उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चण्डीगढ़, पंजाब, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों के श्रद्धालु शामिल हैं.

चौथा दल 5 अगस्त को पिथौरागढ़ पहुंचेगा : कैलाश मानसरोवर यात्रियों का चौथा दल पांच अगस्त को पिथौरागढ़ पहुंचेगा. आज नाभीढांग में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के दूसरे दल का मेडिकल चेक अप किया गया. इस दौरान यात्रियों की ओर से लगे हाउस ऑफ हिमालयाज आउटलेट में यात्रियों ने उत्पादों की जानकारी लेने के साथ ही विभिन्न उत्पादों की भी खरीदारी की. कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की भी खरीदारी की. इस दौरान अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उपजिलाधिकारी सदर मनजीत सिंह, तहसीलदार विजय गोस्वामी, आदि उपस्थित रहे.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई ने शुरू किया आंदोलन

20 कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार

एजेंसी । लाहौर

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर अनौपचारिक रूप से एक आंदोलन शुरू किया है. इसे 'इमरान खान को आजाद करो' (फ्री इमरान खान मूवमेंट) दिया गया है. पार्टी ने रविवार को बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल हो रहे कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. पार्टी ने पांच अगस्त तक आंदोलन करने की घोषणा की है.

अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और पीटीआई नेता अली अमीन गांडापुर शनिवार देर रात पार्टी के अन्य नेताओं के साथ लाहौर पहुंचे और उन्होंने इमरान खान को रिहा कराने के लिए आंदोलन शुरू करने की घोषणा की. क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान (72 वर्षीय) अगस्त 2023 से जेल में हैं, जहां उन पर कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं.

पांच अगस्त तक आंदोलन की योजना : पीटीआई पांच अगस्त तक देशभर में एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, ताकि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार और सेना पर इमरान खान को रिहा करने का दबाव बनाया जा सके. गंडापुर और पार्टी के प्रमुख नेता लाहौल के रायवंड इलाके में एक फार्म हाउस में ठहरे हैं और अपने प्रदर्शन की योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं. यह फार्म हाउस शरीफ परिवार के आवास के पास ही है.

पीटीआई के 20 कार्यकर्ता गिरफ्तार : इस बीच, खबर है कि पुलिस ने लाहौर में विभिन्न जगहों पर अपने नेताओं का स्वागत करने आए 20 पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. पीटीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब पुलिस ने उनके कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से पुलिस पंजाब खासकर लाहौर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी कर रही है, ताकि उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा सके. हालांकि, पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने किसी भी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी से इनकार किया है.

लाहौर से सफल होता है कोई भी आंदोलनः गंडापुर : हालांकि, पुलिस सूत्रों ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि लाहौर और अन्य जगहों पर 20 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं. लाहौर में पार्टी नेताओं से बात करते हुए गंडापुर ने कहा, लाहौर से शुरू हुआ कोई भी आंदोलन कामयाब होता है और यह आंदोलन भी देशभर में सफल होगा. उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पांच अगस्त तक आंदोलन को चरम पर ले जाएं.

'सेना को नहीं मार्शल लॉ लगाने का पछतावा' : उन्होंने कहा, सेना कई दशकों से पाकिस्तान पर शासन कर रही है और कई बार मार्शल लॉ लगा चुकी है, जिससे देश को नुकसान हुआ है. इस बार सेना ने एक नई तरह का मार्शल लॉ लगाया है, जिसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हर तरह की ताकत औ दबाव की नीति चल रही है. उन्होंने इससे देश को तबाह हुआ है, लेकिन दोषियों को अब भी पछतावा नहीं है. गंडापुर ने कहा, पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता हजारों प्राथमिकियों (एफआईआर) का सामना कर रहे हैं.

दमन कर रही पंजाब सरकारः गौहर अली खान : वहीं, पीटीआई के अंतरिम अध्यक्ष गौहर अली खान ने कहा कि पंजाब सरकार बीते दो वर्षों से उनकी पार्टी के लोगों का दमन कर रही है. उम्मीद है कि उन्हें समझ आएगी और मरियम नवाज (पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री) सरकार सही फैसले लेगी.

पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइन को युवक ने भेजा लीगल नोटिस

कराची । पाकिस्तान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. लाहौर के एक युवक शाहजैन ने कराची जाने के लिए फ्लाइट पकड़ी थी, लेकिन वह गलती से सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच गया. शाहजैन ने एक प्राइवेट एयरलाइन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उसने कहा कि टिकट चेक करवाने के बावजूद एयर होस्टेस ने उसे गलत फ्लाइट में बैठने से नहीं रोका. शाहजैन ने बताया कि घरेलू टर्मिनल के गेट पर दो फ्लाइट खड़ी थीं. वह बिना किसी जानकारी के जेद्दा जाने वाली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में चढ़ गया. लगभग दो घंटे बाद, जब विमान कराची नहीं पहुंचा, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. उसने बताया कि उस वक्त क्रू पैनिक में आ गया और उल्टा उसी को दोष देने लगे. **न पासपोर्ट, न वीजा, फिर भी पहुंच गया सऊदी :** शाहजैन का कहना है कि उसके पास न पासपोर्ट था और न ही सऊदी अरब के लिए वीजा. इसके बावजूद वह जेद्दा पहुंच गया. एयरलाइन की इस लापरवाही की वजह से उसे विदेश में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहां एफआईए के अधिकारियों ने पूछताछ की और दो से तीन दिन तक उसे कराची लाने की प्रक्रिया में समय लगा.

कानूनी नोटिस भेजा, मुआवजे की मांग : इस पूरे मामले को लेकर शाहजैन ने अब एयरलाइन को कानूनी नोटिस भेजा है. उसने कहा है कि एयरलाइन की गलती की वजह से उसे भारी मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है. वह मुआवज़े की मांग कर रहा है.

के कविता पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस एमएलसी के कार्यालय पर हमला, कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़

नयी दिल्ली । तेलंगाना में कांग्रेस एमएलसी चिंतापंडु नवीन के कार्यालय में रविवार को उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की. चिंतापंडु नवीन को लोग तीनमार मल्लन्ना के नाम से भी जानते हैं. तेलंगाना जागृति कार्यकर्ताओं पर कार्यालय पर धावा बोलने और तोड़फोड़ करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता तीनमार मल्लन्ना की ओर से बीआरएस एमएलसी के. कविता पर की गई टिप्पणी को लेकर नाराज थे. **तीनमार मल्लन्ना पर हमला करने का इरादा था :** इस बीच चश्मदीद होने का दावा करने वाले फसीउद्दीन ने कहा कि मैं कार्यालय के अंदर मौजूद था और बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर नियमित रूप से एमएलसी तीनमार मल्लन्ना के कार्यालय आते हैं. तेलंगाना जागृति कार्यकर्ताओं के 15-20 लोगों ने कार्यालय पर हमला किया. उनका इरादा एमएलसी तीनमार मल्लन्ना पर हमला करने का था.

यूक्रेन के साथ तनाव में रूस को मिला किम जोंग का समर्थन, बोले- रणनीतिक मुद्दों पर समान सोच

शियोल । रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस को बिना शर्त समर्थन देने की बात पर जोर दिया. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात में किम जोंग ने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस को बिना शर्त समर्थन देने की बात दोहराई. उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच रणनीतिक मुद्दों पर समान सोच है और दोनों देशों का गठबंधन मजबूत होता जा रहा है. बता दें कि यह मुलाकात उत्तर कोरिया के पूर्वी शहर वोन्सान में हुई, जहां लावरोव ने किम को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुभकामनाएं भी दीं. किम ने कहा कि उनकी सरकार रूस की तरफ से उठाए गए सभी कदमों का समर्थन और प्रोत्साहन करती है.

रूस ने अमेरिका दक्षिण कोरिया और जापान को दी चेतावनी : किम से मुलाकात के दौरान रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया के खिलाफ कोई सैन्य गठबंधन न बनाएं. उन्होंने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी रणनीतिक और सामरिक सहयोग और बढ़ाना चाहिए. लावरोव ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़त को रूस समझता है और इसका सम्मान करता है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर कोरिया की तकनीक उसके अपने वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है.

लंदन में प्रतिबंधित संगठन 'पैलेस्टाइन एक्शन' के समर्थन में प्रदर्शन,40 से अधिक लोग गिरफ्तार

लंदन, । ब्रिटेन सरकार द्वारा 'पैलेस्टाइन एक्शन' को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के खिलाफ शनिवार को लंदन के केंद्रीय हिस्से में हुए प्रदर्शन में 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया. यह प्रदर्शन उस निर्णय के विरोध में था, जिसमें समूह को ₹टेररिज्म एक्ट 2000₹ के तहत प्रतिबंधित किया गया है. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि इन गिरफ्तारियों में से अधिकांश प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने के आरोप में की गईं. इसमें नारे लगाना, कपड़े पहनना, झंडे या प्रतीक दिखाना जैसी गतिविधियां शामिल थीं. एक व्यक्ति को सामान्य हमले (कॉमन असॉल्ट) के आरोप में गिरफ्तार किया गया. यह लगातार दूसरा सप्ताह था जब प्रदर्शनकारियों ने 'पैलेस्टाइन एक्शन' के समर्थन में प्रदर्शन किया. पिछले सप्ताह भी इसी तरह के प्रदर्शन में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

गुवाहाटी : उल्फा (आई) ने म्यांमार स्थित अपने शिविरों पर ड्रोन हमलों का किया दावा, भारत ने नहीं की पुष्टि

- सूत्रों का दावा, उल्फा (स्वा) के दूसरे प्रमुख स्वयंभू कमांडर नयन असम और स्वयंभू कर्नल प्रदीप असम मारे गए

गुवाहाटी । यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने रविवार की रात में म्यांमार स्थित उसके शिविरों और ठिकानों पर बड़ा ड्रोन हमला किया है. भारतीय सेना की इस सीमा पार कार्रवाई में उसके संगठन के दो कमांडर समेत कई उग्रवादी मारे गए हैं. हालांकि, भारतीय रक्षा मंत्रालय और म्यांमार के अधिकारियों की ओर से ऐसे किसी हमले की पुष्टि नहीं की गयी है. उल्फा (स्वायत) का दावा है कि सुरक्षा बलों द्वारा म्यांमार में पूर्वोत्तर के प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा-इंडिपेंडेंट), एनएससीएन (के) और पीएलए के शिविरों पर ड्रोन हमले किए गए हैं. सीमा पार की गयी कार्रवाई में उल्फा (स्वा) के दूसरे प्रमुख स्वयंभू कमांडर नयन असोम और स्वयंभू कर्नल प्रदीप असोम समेत उसके संगठन के कई सदस्यों (उग्रवादियों) की मौत हो गयी है.

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भूस्खलन के कारण हाईवे समेत 227 सड़कें बंद

शिमला । हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चेतावनी दी है कि 14 से 17 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. इस दौरान कांगड़ा और सिरमौर जिलों में 14 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि मंडी, शिमला और सोलन जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है. 15 जुलाई को चम्बा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट रहेगा. 16 जुलाई को लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी सभी 10 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा. वहीं 17 जुलाई को चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है. 18 और 19 जुलाई को हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है, लेकिन इन दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. रविवार को मानसून की रफ्तार कुछ धीमी रही और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ बना रहा.

एकता पर जोर | अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन केस में खुलासों की उम्मीदों पर फिर गया पानी

राष्ट्रपति ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी का किया बचाव

एजेंसी । वाशिंगटन

अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन की मौत के मामले में लोगों के बीच अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉन्डी का बचाव किया. पाम को इन दिनों एपस्टीन की मौत और उससे जुड़ी जांच को लेकर ट्रंप समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में ट्रंप ने बॉन्डी का समर्थन कर अपने प्रशासन में एकता बनाने की बात पर जोर दिया.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि बॉन्डी शानदार काम कर रही हैं, और उनके खिलाफ हो रहे विरोध पर उन्हें आपत्ति है. उन्होंने कहा कि कोई एपस्टीन की परवाह नहीं करता, अब इस पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं.

एपस्टीन केस में ट्रंप ने साफ किया रुख : राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद यह साफ है कि वे बॉन्डी को लेकर अपनी प्रशासन में एकजुटता बनाए रखना चाहते हैं. ट्रंप ने अपने ही समर्थकों टीम से सवाल किया है कि वे अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के खिलाफ क्यों हो रहे हैं.

उन्होंने लिखा कि मेरे ही लोग बॉन्डी के खिलाफ हो रहें हैं, जबकि बॉन्डी शानदार काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि हम सब एक ही टीम में हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और जो हो रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा. साथ ही ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि वह बॉन्डी के समर्थन में हैं और अपनी टीम में एकता बनाए रखना चाहते हैं.

एफबीआई को एपस्टीन नहीं, बल्कि चुनाव की जांच में लगना चाहिए : ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि हमारी सरकार दुनिया भर में चर्चा में है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी किसी को परवाह नहीं. उन्होंने कहा कि बार-बार एपस्टीन के मामले में समय और ऊर्जा बर्बाद करना बेकार है. ट्रंप ने कहा कि अब ध्यान 2020 के धांधली भरे चुनाव पर होना चाहिए, जिसमें वे जो बाइडेन से हार गए थे. उन्होंने कहा कि एफबीआई को एपस्टीन नहीं, बल्कि चुनाव की जांच में लगना चाहिए.

मणिपुर में सुरक्षा बलों के अभियान में पांच उग्रवादी गिरफ्तार

इम्फाल । सुरक्षा बलों द्वारा मणिपुर के विभिन्न जिलों में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. इन अभियानों के दौरान 11 और 12 जुलाई को मणिपुर के इम्फाल पूर्व, थौबल और बिष्णुपुर ज़िलों में चलाए गए त्वरित, खुफिया-आधारित अभियानों में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया. मणिपुर पुलिस के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि इम्फाल पूर्व में थौबल डैम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लाईखोंग गांव से कांगलेई यावोल कन्ना लूप (केवाईकेएल) के दो उग्रवादियों को पकड़ा गया. आरोपितों की पहचान इथम ममांग लेइकाई निवासी, सगोलशेम, ललित मैतेई और इथम वांगमा, लेइकाई निवासी अहोंगशांगबाम तोम्बा सिंह के रूप में हुई है.

मुद्रक तथा प्रकाशक लगातार इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगातार इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में, मैसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड के लिए के.जी. आश्रम के नजदीक, भुईफोड़ मंदिर, गोसाईडीह, गोविन्दपुर रोड, धनबाद (झारखंड) से मुद्रित तथा 304-305 समृद्धि स्क्वायर, किशोरगंज चौक, हरमू रोड, रांची- 834001, झारखंड द्वारा प्रकाशित. संपादक **सुरजीत सिंह**, स्थानीय संपादक **संजय सिंह***. फोन नंबर 0651-2961734 आरएनआई नंबर **JHAHIN/2023/84487**(पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार.)